

मानविकी-शब्दावली-V

भाषाविज्ञान

HUMANITIES GLOSSARY-V

LINGUISTICS

60
1983



सत्यमेव जयते

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का स्थायी आयोग
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

STANDING COMMISSION FOR SCIENTIFIC & TECHNICAL TERMINOLOGY
Ministry of Education Government of India

भारत सरकार, 1969

Government of India 1969

मूल्य रु० 3 70 • Price Rs 3 70

PRINTED IN INDIA

by Sumer Printing Press, Delhi, and Published by the Principal Scientific Officer, Publication
Standing Commission for Scientific and Technical Terminology, Ministry of Education, 7 West Block,
Indraprastha Park, New Delhi

आमुख

भाषाविद्यालय गढ़वाल का मानविकी गढ़वाल का चौथव खण्ड का रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें इस विषय के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के 500 गद्यांशों का समावेश किया गया है और पाठकों की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजी हिन्दी तथा हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है। इन गद्यांशों में सम्मिलित भाषाविद्यालय गढ़वाल का अन्तिम रूप बनने के लिए विशेषण मलाहकार समिति की गत मामान्य बैठकें दिवसीय आयाजित की गईं और गत जनवरी अन्तर्गत में एक और पुनः दो मसौदों को भी आयाजित की गईं। इन गद्यांशों का काम इस आयोग ने 1964 के अंत में शुरू किया था। ऐसा अनुमान है कि इस मसौदों में भाषाविद्यालय की मूला प्रमुख गद्यांशों के अधिकांश गद्य आ गए हैं फिर भी यदि इन विषय के कुछ नए गद्य आ जाएं तो इनका प्रकाशन एवं परिशिष्ट के रूप में यथासमय किया जा सकता है।

राष्ट्रपति के आदेश, 1960 ई० के आदेशों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 1961 ई० में वैज्ञानिक तथा तकनीकी गद्यांशों के लिए स्थायी आयोग का स्थापना हुई और इस निम्नलिखित कार्य थाप गए—

- (क) राष्ट्रपति के आदेशों के निहित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तथा तकनीकी गद्यांशों के क्षेत्र में यथासंभव किए गए कार्य का पुनरीक्षण और समावेश,
- (ख) हिन्दी और अन्य भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी गद्यांशों के विकास और समावेश से सम्बंधित सिद्धांतों का निरूपण,
- (ग) राज्यों में विभिन्न मसौदों द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी गद्यांशों के क्षेत्र में किए गए कार्य का सम्बंधित राज्य सरकारों की सहमति से या उनके अनुरोध पर समन्वय और सम्बंधित मसौदों द्वारा प्रस्तुत का गई गद्यांशों का अनुमोदन,
- (घ) आयोग द्वारा निर्मित या स्वीकृत नई गद्यांशों का प्रयोग करते हुए विभिन्न विषयों में पाठ्य पुस्तकों और वैज्ञानिक तथा तकनीकी गद्यांशों का निर्माण और प्रकाशन तथा विदेशी भाषाओं की वैज्ञानिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद।

देश के सभी भागों के जिन विद्वानों और विशेषज्ञों ने परिश्रम, उत्साह और लगन से विभिन्न विषयों की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास और सम्बन्ध में योगदान किया है, उनके प्रति मैं श्रद्धाभरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं अपने उन सभी सहयोगियों और सहकर्मियों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में भाग लिया है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
शिक्षा मन्त्रालय,
भारत सरकार
नई दिल्ली।

बाबूराम सबसेना
अध्यक्ष

14 अक्टूबर 1990 तक (कार्य पूर्णमा)

FOREWORD

Linguistics Terminology is being published as Volume V of Humanities Glossary. This includes about 4 500 terms at graduate and postgraduate levels of the subject and both English Hindi and Hindi English versions have been included in the same volume for the convenience of the users. To finalize the terms included in this Glossary seven ordinary meetings of the Expert Advisory Committee were organized in New Delhi and in addition three Seminars one at Annamalai and two at Poona were also held. The work on Linguistics terminology was started by this Commission towards the end of 1964. It is hoped that this compilation includes a bulk of terms from each of the most important branches of Linguistics. However if we could compile more terms of this subject these would be published as an appendix to this Glossary in due course or these would be amalgamated in the Consolidated Glossaries to be brought out by the Commission.

The Standing Commission for Scientific and Technical Terminology was appointed by the Ministry of Education in October 1961 in pursuance of the Presidential Order of 1960 and the following functions were entrusted to it —

- (a) Review of the work done so far in the field of scientific and technical terminology in the light of the principles laid down in the Presidential Order
- (b) Formulation of principles relating to co ordination and evolution of scientific and technical terminology in Hindi and other languages
- (c) Co ordination of the work done by different agencies in the State in the field of scientific and technical terminology with the consent or at the instance of the State Governments concerned and approval of glossaries for use in Hindi and other Indian languages as may be submitted to it by the concerned agencies
- (d) Preparation of standard scientific text books using the new terminology evolved or approved by it preparation of scientific and technical dictionaries and translation into Indian languages of scientific books in foreign languages

I take this opportunity of paying my tribute to the hard work enthusiasm and devotion with which scholars and experts from all over the country collaborated in the evolution and co ordination of this scientific terminology

I also thank my colleagues and co workers who have contributed to this important work

BABU RAM SAKSINA
Chairman

Standing Commission for Scientific
and Technical Terminology
Ministry of Education
Government of India
New Delhi
14 Agrahayana 1490 (Saka)
Nov 1968

**OFFICERS AND STAFF OF THE COMMISSION WHO PARTICIPATED
IN THE WORK OF THIS GLOSSARY**

Terminology

Dr B R Saxena,	Chairman
Shri R N Dwivedi	Principal Research Officer (Linguistics)
Dr N K Vyas	Research Officer (Linguistics)
Shri A L Gulati	Research Assistant (Linguistics)

Officers and staff who were also formerly associated with this work

(Late) Dr B N Prasad	Chairman
Dr R D Sharma	Principal Scientific Officer
Prof G J Somayaji	Principal Research Officer
Dr R K Sharma	Principal Research Officer
Km Kusum Mehra	Research Assistant
Shri O P Chawla	Research Assistant

MEMBERS OF THE EXPERT ADVISORY COMMITTEE ON LINGUISTICS

Regular Members

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | (Late) Dr B N Prasad | Chairman, C S T T (Min of Edu) |
| 2 | Dr S M Katre | Director, Deccan College Poona |
| 3 | Dr Sukumar Sen | Retd Prof Calcutta University, Calcutta |
| 4 | Prof Meenakshi Sundaran | Vice Chancellor Madurai University, Madurai |
| 5 | (Late) Prof T N Shreekanthaya, | Retd Prof Mysore University Mysore |
| 6 | Dr A M Ghatage, | Deccan College Poona |
| 7 | Dr P B Pandit, | Prof of Linguistics, Delhi University Delhi |
| 8 | Prof Mariappa Bhatt, | Prof of Kannada, Madras University Madras |
| 9 | Dr Udat Narayan Tiwari | Prof & Head of the Deptt of Hindi Jabalpur University
Jabalpur |
| 10 | Dr S P Agrawal | Prof & Head of the Deptt of Hindi, Lucknow University
Lucknow |
| 11 | Dr R N Sahai | K M Institute of Hindi Studies and Linguistics Agra |

Co Opted Members

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Dr B R Savena, | Ex Vice Chancellor, Ravi Shankar University Raipur |
| 2 | Dr R D Sharma | Ex Principal Scientific Officer C S T T |
| 3 | Dr A R Kelkar, | Deccan College Poona |
| 4 | Dr B N Tiwari, | Kironi Mal College, Delhi |
| 5 | Dr R N Dandekar | Poona University Poona |
| 6 | Dr N G Kalelkar | Deccan College Poona |
| 7 | Dr D P Pattanayak | American Institute of Indian Studies Deccan College Poona |
| 8 | Prof C R Sankaran | Deccan College, Poona |
| 9 | Dr M A Mahendale | Deccan College Poona |

- 10 Dr L M Khubchandani, Deccan College, Poona
- 11 Dr V I Subramanyam Prof of Linguistics Kerala University, Kerala
- 12 Dr Shanmugam Pillai, Prof of Linguistics, Annamalai University, Annamalainagar
- 13 Dr H S Billigiri Deccan College Poona
- 14 Dr Bh Krishnamurthy Usmania University Hyderabad
- 15 Dr M L Apte Poona
- 16 Dr R C Hiremath Poona
- 17 Dr Jag Dev Singh Kurukshetra University Kurukshetra
- 18 Dr Shankar Bhatt Poona

1;

'1



वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग द्वारा स्वीकृत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के सिद्धान्त

(1) अन्तर्राष्ट्रीय शब्दा को यथासम्भव उनका प्रचलित अंग्रेजी रूप में ही अपनाया चाहिए और हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्यंतरण करना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली का अन्तगमन निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं।

- (र) तत्वा और यौगिकों के नाम, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि,
- (ख) तौल और माप की इकाइयाँ और भौतिक परिमाण की इकाइयाँ जैसे डाइन, कलारी एम्पियर आदि,
- (ग) ऐसे शब्द जो व्यक्तियाँ के नाम पर बनाए गए हूँ जैसे फारेनहाइट के नाम पर फार्गनहाइट तापक्रम, वोल्टा के नाम पर वोल्टमीटर और ऐम्पियर के नाम पर ऐम्पियर आदि,
- (घ) वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, भूविज्ञान आदि की द्विपदों नामावली,
- (ङ) स्थिरांक जैसे π आदि,
- (च) ऐसे अर्थ शब्द जिनका आमतौर पर सार समान में व्यवहार हो रहा है, जैसे रडियो, पैटाल, रेडार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यूट्रॉन आदि,
- (छ) गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के सहायक, प्रतीक चिह्न और सूत्र जिन साइन, कामादन, टांजे ट, लॉग आदि (गणितीय सन्नियाओं में प्रयुक्त अक्षर रोमन या ग्रीक बणमाला के होना चाहिए)।

(2) प्रतीक, रोमन लिपि में अन्तर्राष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएंगे परन्तु सक्षिप्त रूप नागरी जीर मानक रूप में भी, विशेषतः माधारण तौल और माप में लिखे जा सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर का प्रतीक cm हिंदी में भी इस ही प्रयुक्त होगा परन्तु इसका नागरी सक्षिप्त रूप से० मी० ही मकता है। यह सिद्धान्त बाल साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में अपनाया जाएगा परन्तु विज्ञान और सिल्प-विज्ञान की मानक पुस्तकों में केवल अन्तर्राष्ट्रीय प्रतीक, जिन cm ही प्रयुक्त करना चाहिए।

(3) ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जाएंगे।



with the assistance of
the Govt of India under the
Scheme of Technical Assistance
to Voluntary Agencies
Initiated by the Government of India
in the year

परन्तु त्रिकोणमितीय संबंधों में केवल रोमन अक्षरों या ग्रीक अक्षर ही प्रयुक्त करने चाहिए, जैसे साइन A, और कोस B आदि।

(4) सक्त्पनाआ को व्यक्त करन वाले शब्दो का सामान्यत अनुवाद किया जाना चाहिए ।

(5) हि दो पर्याया का चुनाव करते समय सरलता, अध की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए । सुधार विरोधी और विशुद्धिवादी प्रवृत्तिया से बचना चाहिए ।

(6) सभी भारतीय भाषाआ के शब्दो म यथासम्भव अधिकाधिक एकरूपता लाना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाए जायें जो —

(क) अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाआ म प्रयुक्त होत हा और

(ख) सस्कृत धातुआ पर आधारित हा ।

(7) ऐसे देशी शब्द जो सामान्य प्रयोग क वैज्ञानिक शब्दो क स्थान पर हमारी भाषाआ म प्रचलित हा गए हैं, जैसे telegraph, telegram के लिए तार, continent क लिए महाद्वीप, atom के लिए परमाणु आदि । य सब इसी रूप म व्यवहार किए जाने चाहिए ।

(8) अंग्रेजी पुस्तकाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओ के ऐसे विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाआ म प्रचलित हो गए हैं जैसे इन्जन, मशीन, लावा मीटर लीटर, प्रिन्स, टार्च आदि इसी रूप म अपनाए जान चाहिए ।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों का देवनागरी लिपि मे लिप्यंतरण—अंग्रेजी शब्दो का लिप्यंतरण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण वर्तमान देवनागरी वर्णों म नवचिह्न क प्रतीक शामिल करने की आवश्यकता पड़े । अंग्रेजी शब्दो का देवनागरीकरण करते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिकाधिक अनुरूप हा और उनमें ऐसे परिवर्तन किए जाए जो भारत के शिक्षित वर्ग म प्रचलित हा ।

(10) लिग—हिन्दी म अपनाए गए अन्तर्राष्ट्रीय शब्दो को अथवा कारण न होन पर, पुलिग रूप म ही प्रयुक्त करना चाहिए ।

(11) सक्त्प शब्द—वैज्ञानिक शब्दावली म सक्त्प शब्द जस ionization क लिए आयनीकरण, voltage क लिए वोल्टता, ringstand के लिए बलयस्टैंड, saponifier क लिए साबुनीकारक आदि के रूप सामान्य और प्राकृतिक भाषाशास्त्रीय क्रिया के अनुसार बनाए गए हैं और उस शब्द रूपो को वैज्ञानिक शब्दावली की आवश्यकताआ तथा सुबोधता, उपयोगिता आर सक्षिप्तता का ध्यान रखन हुए व्यवहार म लाना चाहिए ।

(12) वैज्ञानिक शब्दो में संधि और समास—कठिन संधियो का यथासम्भव कम से कम प्रयोग करना चाहिए और सुयुक्त शब्दो के लिए दो शब्दो क बीच हाइफन लगा देना चाहिए । इससे नई शब्द रचनाआ को सरलता और दीघ्रता से समझने म सहायता मिलेगी । जहाँ तक सस्कृत पर आधारित 'आदिवद्धि' का संबंध है, व्यावहारिक, 'लाक्षणिक' आदि प्रचलित सस्कृत तत्त्वम शब्दो म आदिवद्धि का प्रयोग ही अपक्षित है परंतु नव निमित्त शब्दो म इससे बचा जा सकता है ।

(13) हलन्त—नए अपनाए हुए शब्दो म आवश्यकतानुसार हलन्त का प्रयोग करके उन्ही सही रूप म लिखना चाहिए ।

(14) पञ्चम वर्ण का प्रयोग—पञ्चम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, परन्तु lens, patent आदि शब्दो का लिप्यंतरण लस, पटेंट न करके लेस, पटेट ही करना चाहिए ।


**PRINCIPLES FOR EVOLUTION OF SCIENTIFIC AND
TECHNICAL TERMINOLOGY APPROVED BY THE STANDING
COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL
TERMINOLOGY**

'International terms should be adopted in their current English forms as far as possible and transliterated in Hindi and other Indian languages according to their genius. The following should be taken as examples of international terms —

- (a) Names of elements and compounds, e g — *Hydrogen Carbon Carbondioxide* etc
- (b) Units of weights, measures and physical quantities, e g *dyne calorie amperes*, etc
- (c) Terms based on proper names e g , *Fahrenheit scale (Fahrenheit), Voltmeter (Volta Ampere (Ampere))*, etc
- (d) Binomial nomenclature in such sciences as *Botany Zoology Geology*, etc
- (e) Constants e g π g etc ,
- (f) Words like *Radio Petrol Radar, Electron Proton Neutron* etc which have gained practically world wide usage
- (g) Numerals symbols signs and formulae used in mathematics and other sciences e g , *Sin Cos, tan log* etc (Letters used in mathematical operation should be in Roman or Greek alphab ts)

2 The symbols will remain in the international form written in Roman script but abbreviations may be written in Devanagari and Standard form specially for common weights and measures e g the symbol *cm* for centimetre will be used as such in Hindi, but the abbreviation in Devanagari may be से० मी० This will apply to books for children and other popular works only but in standard works of science and technology the international symbols only, like *cm* should be used

3 Letters of Indian scripts may be used in geometrical figures e g



but only letters of Roman and Greek alphabets should be used in trigonometrical relations e g *Sm A Cos B* etc

4 Conceptual terms have generally been translated

5 In the selection of Hindi equivalents *simplicity* precision of meaning and easy intelligibility should be borne in mind. Obscurantism and purism may be avoided

6 The aim should be to achieve the maximum possible identity in all Indian languages by selecting terms —

(c) common to as many of the regional languages as possible and

(b) based on Sanskrit roots

7 Indigenous terms, which have come into vogue in our languages for certain scientific words of common use as *वॉटर* for telegraph/telegram, *महाद्वीप* for continent, *परमाणु* for atom etc will be retained

8 Such loan words from English Portuguese French etc, as have gained wide currency in Indian languages will be retained, e.g., *Engine, Machine, Lava, Meser, Lure, Prism, Torch* etc

9 Transliteration of International terms into Devanagari Script—The transliteration of English terms should not be made so complex as to necessitate the introduction of new signs and symbols in the present Devanagari characters. The Devanagari rendering of English terms should aim at maximum approximation in the standard English pronunciation with such modification as prevalent amongst the educated circle in India

10 Gender—The International terms adopted in Hindi should be used in the masculine gender, unless there were compelling reasons to the contrary

11 Hybrid formation—Hybrid forms in scientific terminologies e.g. आयनीकरण for ionization, वोल्टता for voltage, बलक-पट्टे for ringstand, साबुनीकरण for saponifier etc are normal and natural linguistic phenomena and that such forms may be adopted in practice keeping in view the requirements of the scientific terminology, i.e., *simplicity, utility and precision*

12 Sandhi and Samasa in scientific terms—Complex forms of Sandhi may be avoided and in cases of compound words, hyphen may be placed in between the two terms, because this would enable the users to have a more easy and quicker grasp of the word structure of the new terms. As regard आदिबुद्धि in Sanskrit based words it would be desirable to use आदिबुद्धि in prevalent Sanskrit *tatsama* words e.g. *आणविक, लक्षणिक* etc but may be avoided in newly coined words

13 Halanta—Newly adopted terms should be correctly rendered with the use of hal wherever necessary

14 Use of परमबर्ण—The use of अनुस्वार may be preferred in place of परमबर्ण but in words like lens patent etc the transliteration should be लेंस पेटेंट and not लेंम or पेटेंट

विषय सूची

1	आमुख	
2	भाषाविज्ञान शब्दावली के कार्य से सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी वग	पृष्ठ संख्या
3	विशेषज्ञ सलाहकार समिति (भाषाविज्ञान) के सदस्यों की सूची	v
4	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग द्वारा स्वीकृत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के सिद्धान्त	ix
5	मानविकी शब्दावली v (भाषाविज्ञान)—अंग्रेजी हिंी	x
6	मानविकी शब्दावली v (भाषाविज्ञान)—हिंदी अंग्रेजी	xiii
7	परिगणक मकन चिह्न तथा प्रतीक	i 92
		95-176
		177

CONTENTS

1	Foreword	
2	Officers and staff associated with the work of terminology on Linguistics	Page
3	List of members of Expert Advisory Committee (Linguistics)	vii
4	Principles for evolution of Scientific & Technical Terminology approved by the Standing Commission for Scientific & Technical Terminology	ix
5	Humanities Glossary—v (Linguistics) English Hindi	x
6	Humanities Glossary—v (Linguistics) Hindi English	xv
7	Appendix Signs & Symbols	1 92
		95 176
		177

ENGLISH-HINDI
अंग्रेजी - हिन्दी



मानविकी-शब्दावली-V

भाषाविज्ञान

HUMANITIES GLOSSARY-V

LINGUISTICS

P
H
S
L
E
H

A

α phone	α स्वन	absolute	1 निरपेक्ष
α phoneme	α स्वनमि		2 पूर्ण/विशिष्ट
α phonoid	α स्वनमायतम (ऋमित)		3 विशेष्यभूत
abbreviation	संक्षेप	— ablative	निरपेक्ष अपादान
abdominal breathing	उत्तरीय श्वसन	(=ablative absolute)	
— cavity	उदर विवर/उदर-गुहिका	— adjective	विशेष्यभूत विशेषण
aberrant	विपची/अपगामी	— case	निरपेक्ष कारक
abessive case	बिनावाची कारक	— construction	निरपेक्ष रचना
ablation	अपादान	— equivalent	पूर्ण सम
ablative	अपादान	— form	निरपेक्ष रूप
ablative absolute	निरपेक्ष अपादान	— pitch	निरपेक्ष स्वराघात
(=absolute ablative)		— position	निरपेक्ष स्थिति
ablaut	अवधुति	— superlative	विशिष्ट तम भाव/विशिष्ट अतिम काटि
(=vowel gradation/ apophony)		absolute mood	निरपेक्ष नियाम
abnormal	अपसामान्य	absorption	विलयन
— sibilant	अपसामान्य ऋम	abstraction	भावानयन/अपवपण
— vowel	मध्य स्वर	abstract language	अमूर्त भाषा
(=central vowel)		— name	भाववाचन सत्ता, मानवाचक नाम/गुणवाचन सत्ता/ गुणवा क नाम
abridged clause	संक्षिप्त उपवाक्य		
abridgment	संक्षेपण		
abrupt (=detached)	अनलम्ब		

abstract noun	भाववाचक शब्दा/भाववाचक नाम/गुणवाचक शब्दा/गुणवाचक नाम	accent wrenched	भ्रष्ट आघात
abstracts	भाववाचक/गुणवाचक	— affectif	भाववाचक आघात
abstract term	भाववाचक शब्द	— disguise'	गणित आघात
abutting consonant	सलग्न व्यंजन	'accented	आघातित
accent	आघात	accent frappe'	प्राये आघात
—, acute	उदात्त	'accentless tone	आघातहीन तान
—, bound	बद्ध आघात	accent shift	आघात परिवर्तित
(= fixed accent)		accentual phoneme	आघात स्वनिम
—, chromatic	स्वराघात	accentuation	आघातन
(= pitch accent)		accessory nerve	सहायक तन्त्रिका
—, circumflex	स्वरित	— word	सहायक शब्द
—, dynamic	गतिक आघात/बलाघात	(= subsidiary word)	
(= stress)		accidence	1 रूपावली
—, final	अन्त्य आघात		2 रूपप्रक्रिया
—, fixed (bound	बद्ध आघात	accommodation	आंशिक समीकरण
accent)		accommodative aspect	परस्मै पक्ष
—, free	स्वतन्त्र आघात	(= benefactive aspect)	
—, grave	अनुदात्त	accord (= agreement)	अविति
—, initial	आदि आघात	accretion	अभिवृद्धि
—, medial	मध्य आघात	accretive element	अभिवृद्धक तत्त्व
—, musical	स्वराघात	accumulated intension	संचित अयव्याप्ति
(= pitch accent/ tonic accent)		accusative	कर्मकारक
—, pitch	स्वराघात	achronistic	एककालिक
—, primary	मुख्य आघात	acme structure	उच्चतम निकोच
(= main accent)		acoustic	ध्वनिक
—, qualitative	गुणात्मक आघात	— colouring	ध्वनिक रंजन/ध्वनिक छाया
—, quantitative	मात्रात्मक आघात	— energy	ध्वनिक ऊर्जा
—, secondary	गौण आघात	— feature	भौतिक ध्वनि लक्षण
—, stress	बलाघात	— impression	भौतिक ध्वनि संस्कार/ भौतिक ध्वनि परिणाम
—, tonic	स्वराघात	acousticist	ध्वनिविज्ञानी
(= pitch accent)		acoustic nerve	ध्वनि तन्त्रिका
		— phonetic	भौतिक स्वनिज्ञान
		— record	ध्वनि लेख

acoustics	ध्वानिकी/ध्वनिविज्ञान	adjective clause	aesthetic transfer
acoustic spectrum	ध्वनि-स्पेक्ट्रम	adjective	विशेषण उपवाच्य
— technique	ध्वनिक प्रविधि	—, attributive	विशेषण/गुणवाचक
acrophonetic writing	चिह्न स्वन लेखन	—, limiting	गुणवाचक विशेषण/विशेष्य-विशेषण
acrophony	चिह्न स्वन प्रयोग	—, numeral	सीमाकारी विशेषण
action nominal	क्रिया नामिक/क्रियायक	—, predicative	संस्थावाचक विशेषण
— noun	समा/क्रियायक नाम	adjunct	विधेय विशेषण
— word	क्रियावाचक शब्द	adjustment model	1 विशेषक (modifier)
active case	कत वारक/कतु विभक्ति	adnex	2 उद्देश्य-अनुबध्द
— chamber	सक्रिय काष्ठ	adnominal	(Jespersen)
— construction	कत वाच्य रचना/कतु - वाचक रचना	adnolence	समायोजन प्रतिरूप
— imperative	कतु वाच्य आज्ञायक	adstratum	विधेय अनुबध्द
— verb	1 सक्रमक क्रिया	adult, linguistic	सज्ञा सम्बन्धी/नाम सम्बन्धी
— voice	2 कत क्रिया	— misinterpretation	किशारावस्था
actor-action goal	कतु वाच्य/कतरि प्रयाग	adventitious sound	1 निकटतल
actualization	कत क्रिया-बन्ध	adverb	2 निकटतल भाषा
acute accent	प्रत्यक्षीकरण	—, conjunctive	भाषा वयस्क
adam's apple	उदात्त	—, pronominal	वयस्क मिथ्याबोध
adaptation	कठमणि/अवटु उद्वेग	—, relative	आगतुक स्वन/आस्थानिक स्वन
— theory	अनुकूलन	adverbial	क्रियाविशेषण
adaptive change	अनुकूलन सिद्धात	—, clause	संयोजक क्रियाविशेषण
additive clause	अनुकूल परिवन्धन	—, expression	साचनामिक क्रियाविशेषण
— marker	यागज उपवाच्य	— modifier	सम्बन्धवाचक क्रिया-विशेषण
adequation	योजक चिह्न	adversative conjunction	क्रियाविशेषण/क्रियाविशेषण
adessive case	पर्यायन	acsthetic transfer	क्रियाविशेषण/क्रियाविशेषण
adherent adjective	निकटवाची कारक		क्रियाविशेषण उपवाच्य
aditive case	सहवर्ती विशेषण		क्रियाविशेषण/क्रियाविशेषण
adjacent	अभिमुखाय वारक		क्रियाविशेषण/क्रियाविशेषण
adjectival case	आसन		क्रियाविशेषण/क्रियाविशेषण
	विशेषण कारक/विशेषण विभाक्त		क्रियाविशेषण/क्रियाविशेषण

aetiological (also etiological)	हेतुनिरूपी	agglomerating language (incorporating language)	समावेशक भाषा (प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा)
affect (=intonation affective)	भाव/सवेग	agglutinating prefix	योजक पूनप्रत्यय
affection	प्रभावन/स्वनविवार	agglutinating suffix	योजक परप्रत्यय
affective	प्रभावी	agglutination	योजन
— similarity	भावात्मन सादृश्य	agglutimative (agglutinating)	योगात्मक
— verb	प्रभावी प्रिया	-- language	योगात्मक भाषा
affinity	बन्धुता	agreement (= concord)	अचिन्ति
affirmation	अस्ति/सकार (हि दी)	air chamber	वायु-कोष्ठ
affirmative	1 अस्तिवाचक 2 स्वरूपवाचक	— mechanism (= air stream mechanism)	वायु प्रवाह यंत्र
— conjunction (=appositional conjunction/introductory conjunction)	स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक	— stream	वायु प्रवाह
affix	प्रत्यय	alienable (possession)	विद्योग्य (सन्त्रय)
affixation	प्रत्यययोजन	alien word (= foreign word)	विदेशी शब्द
affix formal analogy	प्रत्यय रूप सादृश्य	allative case	अभिवाचक कारक
affixing language	प्रत्ययप्रधान भाषा	allegory	अभ्येक्ति रूपक/साध्यवसान रूपक
affricate (=semiplosive)	स्पर्श सघर्षी/अनुसर्षी	allergo form	स्वरितोच्चारित रूप
after sound	पश्च छ्वनि	alliteration	अनुप्रास
age and area theory	काल क्षेत्र सिद्धांत	allocation or possession	सम्बन्ध विभक्ति
age area hypothesis	काल क्षेत्र परिकल्पना	allochrone	उपधातक
agent	कर्तृ/कर्ता/साधक	allogram	उपचिह्न
— action	कर्तारि प्रयोग	allograph	उपवर्ण
agential case	कर्तृ कारक/कर्ता कारक/साधक कारक/कर्त विभक्ति/साधक विभक्ति	allomorph	उपरूप
agentive nominal	कर्तृ नामिक	allophone	उपस्वरा
agent noun	कर्तृ सत्ता/साधक सत्ता/कर्त नाम/साधक नाम	allophonic	उपस्वदिक
		alloseme	उपाय
		allusion	सन्नेतित प्रसंग
		alogism	एलोजिज्म/चिह्नक
		alphabet	वर्णमाला

alphabetic dictionary	वर्णक्रमानुसारी कोश/वर्णक्रमिक कोश	analogical change (=analogous change)	साहचर्यमूलक परिवर्तन
— sound	वर्ण स्वतन्त्र	— creation	साहचर्यमूलक सृष्टि
— writing	वर्ण लेखन	— extension	साहचर्यमूलक विस्तार
alteration	परिवर्तन	— form	साहचर्यमूलक रूप
alteration of meaning	अर्थ-परिवर्तन	— induction	साहचर्यमूलक निवर्तन
alternance (=alternation)	परिवर्तन/विकल्पन/विचरण	analogist	निश्चयवादी
alternant	परिवर्त/विकल्प/विचर	analogous	सदृश
—, zero	शून्य परिवर्त	— pair	अल्पदेशीय युग्म/यूनकल्प युग्म
alternation morph	परिवर्त रूप	analogue	सदृश रूप
alternative	वैकल्पिक/विकल्प	analogy	साहचर्य/साध्यानुमान
— class	वैकल्पिक वर्ग/परिवर्तन वर्ग	analysis	विश्लेषण
alveolar	1 वास्व/वत्स्य (adj) 2 वस्व/वत्स (n)	analytic (=analytical)	विश्लेषणात्मक
— arch	वास्व चाप/वत्स्य चाप	— language	विश्लेषणात्मक भाषा
— region (zone)	वास्व प्रदेश/वत्स्य प्रदेश	analytical approach	विश्लेषणात्मक उपगम
— stop	वास्व स्तम्भ/वत्स्य स्तम्भ	anaphora	अन्तर्देश
alveolus (alveoli)	वस्व/वत्स	anaphoric	अन्तर्देशक
alveo palatal	उप-ताल/वत्स्य ताल	— word	अन्तर्देशक शब्द
amalgamating language	सन्मिश्रण भाषा	anaptyctic insertion	त्रिप्रकप प्रक्षेप/स्वर भक्ति
amalgamation (=fusion)	संलयन	— vowel	त्रिप्रकप स्वर/भक्ति-स्वर
ambifix	उभयप्रत्यय	anaptyxis	त्रिप्रकप/स्वरभक्ति
ambiguous	व्यस्पष्ट	anastrophe	विपयय
ambisyllabic	उभयस्यारी	anatomy	शरीररचनाविज्ञान
amelioration	उत्थोत्थय	animate	चेतन
ameliorative change	उत्थोत्थय परिवर्तन	—gender	चेतन लिंग
amnesia	स्मृतिहास	anomalist	अनियमवादी
amplificative	विस्तारक	anomalous	असंगत
amplitude	आयाम	anomaly	असंगति
anaecolouthon	अधोक्ति	antecedent	1 पूर्ववर्ती 2 पूर्ववद
anagram	विपययसिद्ध (पद)	ante-consonantic (s)	अपघ्रातपूर्व (s)
		antepenult	उपघ्रातपूर्व/उपघ्रातपूर्व
		antepenultimate	उपघ्रातपूर्व/उपघ्रातपूर्व

anteponition

anteponition

anterolingual

anthropological linguistics

anthropology

anthropomorphic (term)

anthroponymy

anticipation

antimentalist

antinomy

antipode

anti resonance

antisigma

antithesis

autonomasia

antonym

aorist

apenthesi

aperture

apex (= tip of the tongue)

aphaeresis (apheresis)

apsis

aphesis

aphoristic (= sentence)

apical

— articulation

— contact

apocope

apodosis (= consequence clause)

apophony (= vowel

gradation = ablaut)

पूर्वस्थिति

पूर्वजिह्वीय

मानवविज्ञानाश्रित भाषा विज्ञान

मानवविज्ञान

मानवारोपित (शब्द)/ मानवविध (शब्द)

मानवनामविज्ञान

पूर्वोदा

मनाविद विरामी

विरुद्धाथ

विपरीत

प्रत्यनुनाद

प्रतिस्तरमा

प्रतिपक्ष

प्रतिनाम/नामांतरण

विरुद्धाथक

अनिदिष्ट काल

मध्यनिहिति

रुद्र

जिह्वाम्र

आदि स्वनलाप

वाचाप्रात

जाति-लोप/आदि स्वरलोप

मूलतत्त्वक (वाच्य)/सूक्ति

जिह्वीतीय

जिह्वीतीय उच्चारण

जिह्वीतीय सस्पश

अत्यलाप

परिणाम उपवाच्य

ज्वश्रुति

archiphoneme

aposisopsis

apothosis

appositional aspect

appellative

appendectomy

apperception

application

applicative aspect

(=benefactive aspect)

applied linguistics

aposition

appositional compound

appositive

approach

—, atomistic

—, structural

apraxia

arbitrary

— connection

— symbol

archaic

archaism

archetypation

archetype

archimorpheme

archiphoneme

वाचिच्छेद

उत्पप

आभासी पक्ष

1 जातिवाचक सभा/

सामान्य नाम

2 श्रोतबोधक

(Troubitzkoy)

उडुक पुच्छोच्छेदन

सप्रत्यय

1 अनुप्रयाग

2 मुख्य (denotation)

परस्मै पक्ष

अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान

समानाधिकरण

समानाधिकरण कमधारय

समाप्त

समानाधिकरणिक

उपगम

व्यष्टिक उपगम

सरचनात्मक उपगम

वेष्टित अक्षमता/ऐप्रक्सिया

याहचिच्छेदक

याहचिच्छेदक सम्बन्ध

याहचिच्छेदक संकेत

1 पुरागत

2 आप

पुरागत प्रयोग

आद्यप्ररूपण

आद्यप्ररूप

आर्की रूपिम

आर्की स्वनिम

oral Enunciation (= Enunciation)	शुद्ध उच्चारण (उच्चारण)	articulate speech	उच्चारित वचन
articulate	उच्चारित	—, fit	उचित उच्चारण करना
articulator	उच्चारक	—, fixed	स्थिर उच्चारण
argue	बुझाना	—, free	स्वतन्त्र उच्चारण
argument	बुझाना	—, secondary	द्वितीय उच्चारण
articulation	उच्चारण	—, secondary	द्वितीय उच्चारण
— chest pulse	उच्चरित वचन	articulatory phonetics	उच्चारण विज्ञान
— consonant	अवरोधक व्यंजन विरामक व्यंजन	—, re-son	उच्चारण-विज्ञान
— pulse	अवरोधक स्वर	artificial language	कृत्रिम भाषा
— segment	अवरोधक उच्चरित	artificial larynx	कृत्रिम श्वासादि मण्डल
article	आधिक्य/उपपद	— palate	कृत्रिम तालु
—, definite	निश्चायक आधिक्य/ निश्चायक उपपद	(= the palate)	
—, indefinite	अनिश्चायक आधिक्य/ अनिश्चायक उपपद	aryepiglottic fold	दही-उपपद पुच्छ
articulate	उच्चारण करना	arytenoid cartilage	दही-उपपद उपासिका
articulated	उच्चारित	— muscle	दही-उपपद पेशी
— sound	उच्चारित स्वन	arytenoids	दही-उपपद
— speech	उच्चारित वाक्य	aspect	पक्ष/पक्षार
articulate sentence	सर्वांग वाक्य	—, accommodative	परस्पर पक्ष
articulation	उच्चारण	(= benefactive aspect)	
—, coronal	जिह्वापटकीय उच्चारण	—, appositional	आभासी पक्ष
—, explosive	वह्नि स्फोटक उच्चारण	—, applicative	परस्पर पक्ष
—, imperfect	अभिनिधान/अपूर्ण उच्चारण	(= benefactive aspect)	
—, implosive	अन्त स्फोटक उच्चारण	—, atelic	अपूर्ण पक्ष
—, incomplete	अभिनिधान/अपूर्ण उच्चारण	—, benefactive	परस्पर पक्ष
—, manner of	प्रयत्न	—, cessative	समाप्ति पक्ष
—, point of	उच्चारण स्थान	—, complexive	पूर्ण पक्ष
—, region of	उच्चारण स्थान	—, cursive	विराम पक्ष
— type	उच्चारण प्ररूप	—, distributive	वितरण पक्ष
articulator	उच्चारक	—, durative	सकल मोघात पक्ष
		—, effective	प्रभावी पक्ष

aspect, frequentative

aspect, frequentative	पीन पुंय पक्ष
—, imperfective (=atelic aspect)	अपूण पक्ष
—, inceptive (=inchoative aspect)	आरम्भमाण पक्ष/त्रिया प्रारम्भ पक्ष
—, inchoative (=inceptive aspect)	आरम्भमाण पक्ष/त्रिया प्रारम्भ पक्ष
—, indirective (=benefactive aspect)	परस्मै पक्ष
—, inferential (=putative aspect)	अनुमिति पक्ष
—, ingressive (=inceptive aspect)	आरम्भमाण पक्ष/त्रिया प्रारम्भ पक्ष
—, intensive	भृशाय पक्ष
—, iterative	पीन पुंय पक्ष
—, momentary	क्षणिक पक्ष
—, necessitative (=obligatory aspect)	आवश्य पक्ष
—, negative	निषेध पक्ष
—, obligatory (=necessitative aspect)	आवश्य पक्ष
—, perfective	पूणतावाची पक्ष
—, permansive	स्थायिरत्न पक्ष
—, putative	अभिगृहीत पक्ष
—, telic (=perfective aspect)	पूणतावाची पक्ष
—, terminative	समापक पक्ष
aspirate	महाप्राण
aspirated	महाप्राण (adj)
— consonant	महाप्राण व्यंजन
— stop	महाप्राण स्पर्श
aspiration	महाप्राणत्व/महाप्राणता
— component	महाप्राण घटक
— process	महाप्राण प्रक्रिया

asynchronism

asseveration	वृढ वचन
assibilant	स्पर्श दाग/उष्मीकृत स्पर्श
assibilation	गरवरण/उष्मीकरण
assimilated phoneme	समीभूत स्वनिम/ममीरुत स्वनिम
assimilation	1 समीभवन 2 समीकरण
—, contiguous	1 सनिहित समीभवन/ अव्यवहित समीभवन 2 सनिहित समीकरण/ अव्यवहित समीकरण
—, distant	1 अतरित समीभवन 2 अतरित समीकरण
—, juxtapositional (=contiguous assimilation)	1 सनिहित समीभवन/ अव्यवहित समीभवन 2 सनिहित समीकरण/ अव्यवहित समीकरण
—, negligent	1 प्रमादज्ञ समीभवन 2 प्रमादज्ञ समीकरण
—, progressive	1 पुर समीभवन 2 पुर समीकरण
—, reciprocal	1 अवाय समीभवन 2 अयोग्य समीकरण
—, regressive	1 पदच समीभवन 2 पदच समीकरण
assimulatory phoneme	समीकारक स्वनिम
associational word	सहचारी शब्द
association group	सहचय वग
associative etymology	सहचारी व्युत्पत्ति
assonance	स्वरावृत्ति
asterisk	ताराक/ताराचिह्न
asyllabic (=non syllabic)	अनाक्षरिक
asynchronism	अनुत्यकालिकता

asyndetic

asyndetic (= paratactic) सयोजनहीन/अप्रवृत्तित

asyndetism सयोजनहीनता/अप्रवृत्ता वय

asyndeton सयोजनहीन रचना

asyntactic compound वाक्यानुपयुक्त समास

atelic aspect अपूर्ण पदा

athematic अविचरण/विचरणहीन

— compound अविचरण समास

— formation अविचरण रचना

atlas, dialect वाली मानचित्रावली/बोली

—, linguistic एटलस

atomic language भाषा मानचित्रावली/भाषा

atomistic approach एटलस

atomic व्यष्टिक उपयोग

— form निरापात/भाषातहीन

attested form 1 निरापात रूप

attitude measurement 2 सहित रूप

attraction उपलब्ध रूप

— of negatives अभिवृत्ति मापन

attribute अचयाकषण

attributive adjective निषेधाकषण

— compound 1 विशेषण/गुणवाचक

— construction 2 गुण

— root गुणवाचक विद्यापण/विशेष्य

— root कमधारय समास

— root सविशेषक रचना

— root विशेषणवाचक धातु/गुण

— root वाचक धातु

audible segment श्रव्य खण्ड

audition श्रवण

auditory श्रव्य/श्रवणात्मक/श्रुतिग्राह्य

— acoustic श्रुतिग्राह्य ध्वनिक प्रविधि

technique श्रुतिग्राह्य उच्चारण प्रविधि

— articulation श्रव्य भाषा

technique श्रवण-तंत्रिका

— language श्रवणात्मक अभिरचना

— nerve श्रवणात्मक स्वनविज्ञान

— pattern आगम

— phonetics वृहद्वाचक

augment वृहद्वाचक परप्रत्यय

augmentative स्माश्रित

— suffix स्माश्रित परिवर्तन

automatic स्माश्रित परिवर्तन/

— alternation अनाश्रित स्वन परिवर्तन

autonomous sound निरपेक्ष शब्द/स्वतः शक्त

change शब्द

autosemantic word सहायक

auxiliary प्रवारसूचक सहायक त्रिया

—, modal सहायक सत्यावाचक

— numeral सहायक त्रिया

— verb सहायक त्रिया

axis अक्ष

axon तंत्रिका/अक्षत-तु

azygos uvulae अयुग्म वाक्त्व

B

β phonetics	β स्वनविज्ञान
β segment	β खण्ड
β sound	β स्वन
baby talk	बाल्य शैली
back	पदच
— formation	सादृश्यमूलक व्युत्पत्ति
backing	पश्चावतन
back of the tongue	जिह्वा पदच
— stroke	पश्चाघात
— vowel	पदच स्वर
ballistic	प्राक्षेपिक
baptism (in language)	सस्कार
barbarism	विच्युति
barred	रेखित
base	1 प्रकृति अग 2 प्रातिपदिक 3 आधार रूप
— form	आधार रूप
— of comparison	तुलना वा आधार
basic alternant	आधारी परिवर्त/आधारी विकल्प
— sentence (type)	आधार वाक्य (प्ररूप)
basilar membrane	आधार कला/आधार शिल्ली
basis of articulation (=po nts of articula tion)	उच्चारण स्थान
beat stroke	स्वदाघात
benefactive aspect	परस्मै पक्ष
bicuspid teeth	द्वयग्री दंत
bilabial	उभयोष्ठ्य/द्वयोष्ठ्य

bilabial spirant	उभयोष्ठ्य घर्षी/उभयोष्ठ्य सघर्षी
— stop	उभयोष्ठ्य स्पर्श
bilabio dental	द्वयोष्ठ्य-दन्त्य
bilateral opposition	द्विविध प्रतियोग/द्विविध विरोध
bilingual	द्विभाषी
— dictionary	द्विभाषी कोश
bilingualism	द्विभाषिता
(=bilinguality)	
bilinguist	द्विभाषी
binary	द्विचर
— principle	द्विचर नियम
— segment	द्विचर खण्ड
— structure	द्विचर संरचना
bit (bit)	बाइनिट
biolinguistics	जीव भाषाविज्ञान/जैव भाषाविज्ञान
bipersonal (verb form)	द्विपुरुषवाची (क्रिया रूप)
bisemantic relation	द्वयथक सम्बन्ध
bisemy	द्वयकता
blade	फलक
— of the tongue	जिह्वा फलक
blend	मिश्र शब्द
blending	मिश्रण
blocked syllable (=closed syllable)	व्यजनात अक्षर
border point (see juncture)	
borrowed word	आगत शब्द/आदत्त शब्द/ स्वीकृत शब्द
borrowing	आदान/स्वीकरण

bound

11

cacuminal

bound	बद्ध
— accent (=fixed accent)	बद्ध आघात
boundary	सीमा
— modification	सीमावर्ती विकृति
bound form	बद्ध रूप
— root	बद्ध धातु
— stress (=fixed stress)	बद्ध बलाघात
boustrophedon	
bow now theory	प्रत्यावर्ती लेखन
brachylogy	बाज-बाज वाद
bracketing exercise	संक्षिप्त वाक्यापार
breaking (=vowel fracture)	मध्योच्चारण अभ्यास
	विभजन
breath	श्वास
breathed	श्वास-अघोष
— beginning	अघोष आरम्भ
— sound	अघोष स्वन
breathe in (=inspiration)	प्रश्वासन/उच्छ्वसन
— out (=expiration)	निश्वासन
breath group	एकश्वासी वग/एक श्वास का वग (हिंदी)

breathing

	1 श्वसन
—, rough	2 प्राणत्व
—, smooth	महाप्राणत्व
breathy voice	अल्पप्राणत्व
breve [˘]	श्वसित घोष
brevity of expression	ह्रस्व चिह्न
bridge letter	उचिन लाघव
— - phoneme	सेतु-वर्ण
— - sound	सेतु-स्वनिम
— - syllable	सेतु स्वन
— - vowel	सेतु अक्षर
bright vowel (=front vowel)	सेतु-स्वर
	अग्र स्वर
broad transcription	स्थूल लिप्यंकन
broken (as in broken English)	भ्रष्ट
bronchiole	
bronchus (pl bronchi)	श्वसनिका/ब्रांकिओल
buccal cavity (=vocal cavity/oral cavity)	श्वसनी/ब्रॉंक्स
buccinator muscle	मुख विवर/मुख गुहिका
bulge of structure	कपोल सपीडनी पेशी
bundle of isoglosses	निवोचाश्रित उभार समभाषादा रखा समूह

cacography
cacology
cacophony

दुल्लेखन
च्युतसंस्कृति
दुश्चवता

C

cacuminal (=cerebral/ retroflex) प्रनिवैष्टित/मूधय

cadence (=rhythm)	लय	—, compellative	सबोधन कारक
cadent stress	अबरोही बलाघात	—, conformative	सादृश्यवाची कारक
calculus	बलन/बैलुलस	(=simulative case)	
camouflage (term)	छदमावरण (शब्द)	—, dative	संप्रदान कारक/चतुर्थी विभक्ति
canine line	रदनव रखा	—, delative	अवपाती कारक
canon	अभिनियम	—, destinative	गतव्यवाची कारक
canonical form	विहित रूप/कनानिवल रूप	—, direct	1 क्तु कारक 2 अविकारी कारक/ ऋजु कारक
canon of actuality	वास्तविकता अभिनियम	—, directive	निमित्तवाची कारक
— — compatibility	संगति-अभिनियम	—, discriminative	प्रेरक कारक
— — definition	परिभाषा अभिनियम	—, clative	वहिवर्वाची कारक
— — individuality	व्यष्टित्व अभिनियम	—, ergative	साधक कारक
— — singularity	एकलता-अभिनियम	—, essive	सत्तावाची कारक
cant	वग-भाषा	—, instrumental	करण कारक/तृतीया विभक्ति
cardinal consonant	मान व्यंजन	—, genitive	सम्बन्ध कारक/पच्ठी विभक्ति
— numeral	गणनासूचक संख्यावाचक	—, locative	अधिकरण कारक/सप्तमी विभक्ति
— vowel	मान स्वर	—, mediative (=instru mental case)	करण कारक
caritive case	विनावाची कारक	—, nominative	कत कारक/कर्ता कारक/ प्रथमा विभक्ति
cartilage	उपास्थि	—, oblique	1 इतर कारक 2 विकारी कारक/तियक् कारक
case	कारक/विभक्ति	—, simulative	सादृश्यवाची कारक
—, abessive	विनावाची कारक	—, vocative	सबोधन कारक
—, ablative	अपादान कारक/पचमी विभक्ति	— ending	विभक्ति प्रत्यय/विभक्ति
—, accusative	कम कारक/द्वितीया विभक्ति	— form	विभक्ति/कारक
—, active	क्तु कारक/क्तु विभक्ति	casteless noun	अमहदवाची सत्ता (तलुगु)
—, adessive	निकटतावाची कारक	catachresis	अनुचिंताय (प्रयोग)
—, aditive	अभिमुखाय कारक	catch	शंखसद्वारीय स्पष्ट
—, allative	अभिज्ञाचक कारक	catchword	सूत्र शब्द/सूचक शब्द
—, agential	कत कारक/साधक कारक क्तु विभक्ति/साधक विभक्ति		
case, caritive	विनावाची कारक		
—, comitative	सहवाची कारक		
—, comparative	तुलनावाची कारक		

catagorematic word
 (= autosemantic word)
 categoric
 category
 catenate
 causal clause
 — conjunction
 causative
 — case
 — form
 — infix
 — mood
 — prefix
 — suffix
 — verb
 cavity (= chamber)
 — friction
 — stricture
 cedilla
 cenematic structure
 ceneme
 central air escape
 centralized vowel
 central meaning
 (= essential meaning)
 — resonant oral
 (= vowel)
 central vowel
 centre
 — adjunct
 — of the tongue
 centrifugal

निरवेष शब्द/स्वत शब्द
 शब्द
 कोटिगत/कोटिक/सवगतिक
 कोटि/सवग
 शृंखलित उच्चारण करना
 प्रयोजनायक उपवाक्य
 कारणवाचक समुच्चयबोधक
 प्रेरणायक
 प्रेरणायक कारक
 प्रेरणायक रूप
 प्रेरणायक मध्यप्रत्यय
 प्रेरणायक वृत्ति
 प्रेरणायक पूर्वप्रत्यय
 प्रेरणायक परप्रत्यय
 प्रेरणायक क्रिया
 विवर/गुहिका/कोष्ठ
 विवर घषण/गुहिका घषण
 विवर निकोच/गुहिका-
 निकोच
 सँडिला
 सेनिमी संरचना
 सनिम
 के द्रगत वायु नियम
 के द्रीवृत्त स्वर
 मुग्वाय
 के द्रगत अनुनादी स्वन
 (स्वन ध्वनि/स्वरज)
 मध्य स्वर
 के द्र/मध्य
 मध्य अनुव-व
 निह्ना मध्य
 अपके द्रो

'centring' diphthong
 centripetal
 centum language
 cerebral
 cerebralization
 cerebrum
 cessative aspect
 cesura
 chamber
 change
 — of meaning regu-
 lar
 — — meaning,
 singular
 channel noise
 character
 characteristic
 checked syllable
 (= closed syllable)
 chest pulse
 child language
 christian name
 chromatic accent
 (= pitch accent)
 chroneme
 chronological develop-
 ment
 chronology
 circumflex accent
 circumlocution
 citation
 class
 अभिवे-द्री सध्पक्षर
 अभिके द्रो
 के-तुम' भाषा
 प्रतिवेष्टित/मूध-य
 प्रतिवेष्टन
 मूर्धा
 समाप्ति शब्द
 1 विराम
 2 यति
 8630
 कोष्ठ/विवर/गुहिका
 परिवतन
 नियमित अथ परिवतन
 निशिष्ट ज-व-परिवतन
 सरणि रव
 लिपिचिह्न/वण
 विशेषता/लक्षण
 व्यजनात जक्षर
 वक्ष स्प-द
 बाल भाषा
 अभिधेय नाम/सुरय नाम
 स्वराघात
 मात्रव
 बालानुक्रमिक विवास
 बालानुक्रम
 स्वरित
 वाग्विन्मर/व्याम शरी
 अनुलपन
 वण

class changing derivation

coincident distribution

class-changing derivation	वग-परिवर्ती व्युत्पत्ति
— - cleavage	बहुरूपवग प्रयोग
— concept	वगवाचक सकल्पना
— formative (= classifier)	वगव/वर्गकारक
classical	1 वरेण्य 2 लौकिक (as in classical Sanskrit)
classification	वर्गीकरण
classificatory language	वगकारी भाषा
classifier	वगक/वर्गकारक
class maintaining derivation	वग अपरिवर्ती व्युत्पत्ति
class-meaning	वर्गाय
— words	वग शब्द
clause	उपवाक्य
—, adverbial	त्रियाविशेषण उपवाक्य
—, collateral (= subordinate clause)	गोण उपवाक्य
—, dependent	आश्रित उपवाक्य
—, independent	स्वतंत्र उपवाक्य
—, inserted	अंतर्निविष्ट उपवाक्य/ शिष्ट उपवाक्य
—, subordinate	गोण उपवाक्य
—, temporal	कालसूचक उपवाक्य
— terminal	उपवाक्यांत
— —, fading	अवरोही उपवाक्यांत
— —, rising	आरोही उपवाक्यांत
— —, sustained	सम उपवाक्यांत
clear i	अप्र 'ल'
cliche	हृद्भाक्ति/बलीशे
click	क्लिक

click, labial	ओष्ठ्य क्लिक
— timbre	क्लिक रणन
climax (= gradation)	अवधुति
clipped word	छिन्न शब्द
clitic	युक्त
close	संवृत
—, half	अध संवृत
— apposition	संवृत समानाधिकरण
— contact	आसन्न सत्पथ
closed syllable	व्यजनांत अक्षर
close juncture	सहिता/सनिवृष्ट सहिता
— lip rounding	सवतीष्ठ त्रुलन
— nexus	दृढ सम्बन्ध
— transition	दृढ सक्रमण
— vowel	संवृत स्वर
closure	सवार/अवरोध
—, incomplete	अपूर्ण सवार/अपूर्ण अवरोध
—, velic	गुठिका अवरोध
cluster	मुच्छ
coalescence	सिध्धि
co articulation	सह उच्चारण
coda	अंत
code noise	शूट रव
co extension (of subject and predicate)	सह विस्तार
cognate	सजात
— form	सजात रूप
— object	सजात वय
— words	सजात शब्द
cognitive import	ज्ञेयाप
cohesion	समजन
cohortative mood	उत्सोधक वृत्ति
coinage	मूढि/निर्मिति
coincident distribution	सपाती वितरण

coined word

coined word

collation

collateral clause

(=subordinate clause)

collective noun

— number

colligation

collision

—, homonymic

collocation

colloquial

colloquialism

colloquial standard

(=educated standard)

— style

colon ()

colonizing language

colour

combination

combinatory variant

(=positional variant)

comitative aspect

— case

comma

common case

— core

— gender

— language

सूष्ट शब्द/निमित्त शब्द

समाह्वान

गौण उपनाम्य

समुदायवाचक सज्ञा/
समुदायवाचक नाम

समुदायवाचक वचन

सहवचन

सघष

समनाम शब्दा का सघष

सह सम्बन्ध/अवित्त विन्यास

बोलचाल की भाषा

बोलचाल का प्रयोग

व्यवहार मानक

बोलचाल की शैली

कोलन

स्वामि भाषा/विजेता भाषा

छाया

1 सम्बन्ध

2 संयुक्त शब्द

स्पानाश्रित परिवर्त

सहवाची प्रकार

सहवाची कारक

अल्पविराम/वाँमा

सामान्य कारक

समान श्रेष्ठ

सामान्य लिंग/समान लिंग/

उभय लिंग

सामान्य भाषा

complex language

common noun

(= appellative noun)

— syllable

commutation test

comparatist

comparative

— case

— degree

— grammar

— linguistics

— method

— process

— transcription

comparison

compellative case

compensation

compensatory

lengthening

— shortening

competence

complement

complementation

—, multiple

complete

— predicate

— sentence

— verb

completive aspect

— interjection

complex form

— mixed relational

language

जातिवाचक सज्ञा/जाति-

वाचक नाम

उभयनिष्ठ अक्षर

प्रतिनिधान परीक्षण

तुलनावादी/तुलनात्मक

जप्ययनकर्ता

तुलनात्मक/तुलन-

तुलनावाची कारक

तुलन-कोटि/तर भाव

तुलनात्मक व्याकरण

तुलनात्मक भाषाविज्ञान

तुलनात्मक पद्धति

तुलनात्मक प्रक्रिया

तुलनात्मक लिप्यंकन

तुलना

सम्बोधन कारक

प्रतिपूरण/प्रतिपूरति

प्रतिपूरक दीर्घीकरण

प्रतिपूरक ह्रस्वीकरण

सामर्थ्य

पूरक

पूरण

अनेकविध पूरण

पूरण

पूरण

पूरण विधय

पूरण वाक्य

पूरण क्रिया

पूरण पक्ष

पूरणतावाची विस्मयादि-

बोधक

मिश्र रूप

सम्मिश्र मिश्रित सम्बन्धा-

त्मक भाषा

complex paradigm	मिश्र रूपावली	compound, tautological	पयाय पद समास
— perk	मिश्र शिखर	—, thematic	सविवरण समास
— phoneme	मिश्र स्वनिम	—, translation	भाषानर पद समास
— pure-relational language	मन्मिथ विगुद्ध सम्बन्ध-वात्मक भाषा	compounded flexion	सोपसर्ग त्रिरूप
— sentence	मिश्र वाक्य	compound phoneme	सयुक्त स्वनिम
— transcription	मिश्र लिप्यवन	— predicate	समन्व विधेय
— word	मिश्र शब्द	— sentence	सयुक्त वाक्य/योग्य वाक्य
component	घटक	— tense	सयुक्त काल
componential analysis	घटकीय विश्लेषण	— verb	सयुक्त क्रिया/समन्व क्रिया
composite transfer	मिश्र आन्तरण	— word	समन्व पद/समास
— word	समस्त शब्द	compulsory	अनिवार्य/नित्य
composition	1 compounding समास रचना	— sandhi	नित्य संधि
	2 सघटन	concatenation	शृंखला/क्रमबद्धता
compound	1 समास ^ समुक्त/योग्य/समस्त	concentration	मकेन्द्रण
—, appositional	समानाधिकरण बन्धधारय समास	conceptual neuter (= unspecified neuter)	सकल्पनात्मक नपुंसकलिङ्ग/ अनिर्दिष्ट नपुंसकलिङ्ग
—, asyntactic	वाक्यानुपयुक्त समास	conceptual dictionary	सकल्पनानुसारी कोश
—, athetic	अविवरण समास	conceptualism	सप्रत्ययवाद
—, attributive	बन्धधारय समास	concession	जन्मुपगम
—, copulative	द्वन्द्व समास	concessive conjunction	अनुमतिवाचक समुच्चय- बोधक
—, determinative	तत्पुरुष समास	— subjunctive	अनुमतिवाचक सभावनाथक
—, exocentric	बहुव्रीहि समास	conclusive verb	भूतशुद्धाधी क्रिया
—, fused	सलीन समास	concord (= agreement)	अविति
—, improper	अलुक् समास	concordance	अवयव/संगति
—, intensive	अतिशयवाचक समास	concrete concept	मृत सकल्पना
—, iterative	आश्रद्धित समास	— name	द्रव्याथक सना/द्रव्याथक नाम
—, juxtaposed	सनिहिन समास	— term	मृत शब्द
—, phrasal	असलीन समास	condensation (= contagion)	नसर्ग/सघटन
—, possessive	सम्बन्ध तत्पुरुष समास		
—, syntactic	वाक्योपयुक्त समास		
—, synthetic	सश्लिष्ट समास		

condensed relative clause	उपनिवृत्त उभयपक्षेण उप- धावय	conjunct	समुच्चय
conditional mood	हेतुमत् सूति	— consonant	समुच्चय उपजा
— sentence	हेतुमत् साय	(= compound consonant)	
— sound change	गोपाधित् स्वन परिचयन/ आधित् स्वन परिचयन	conjunction	समुच्चयबोधक
— stress	गोपाधिव बलाघान/आधित् बलाघान	—, adversative	विरोधवाचक समुच्चयबोधक
— variant	गोपाधिव परिचयन/आधित् परिचयन	—, affirmative	स्वरूपवाचक समुच्चयबोधक
conditioned	आधित्/गोपाधित्	—, causal	कारणवाचक समुच्चयबोधक
— sound change	गोपाधित् स्वन परिचयन/ आधित् स्वन परिचयन	—, concessive	अनुमतिवाचक समुच्चय बोधक
conductivity	चारुवृत्ता/गवाह्यवृत्ता	—, connective	संयोजक समुच्चयबोधक
configuration (= fused configuration)	विचारण/गमिष्यति	—, cumulative/ copulative)	
conformation (of a language)	भाषा-परिवर्तना	—, continuative	मातृ-य समुच्चयबोधक
conformative case (=simulative case)	मातृ-यवाचो रात्रि	—, coordinating	समानाधिकारण समुच्चय बोधक
congener	1 मन्व-धी 2 नजानीय	—, copulative	संयोजक समुच्चयबोधक
congruence	1 समता/गन्तमता 2 अविचि	—, correlative	अपेक्षाधित् समुच्चय बोधक
congruent	सम/सवसम	—, cumulative	संयोजक समुच्चयबोधक
congruently patterned (= pattern congruity)	1 अभिरचना समता 2 अभिरचना अविचि	—, disjunctive (= alternative conjunction)	वियोजक समुच्चयबोधक/ विभाजक समुच्चयबोधक
conjugate	त्रियारूप बताना	—, hypothetical (= conditional conjunction)	संभववाचक समुच्चयबोधक
conjugation	त्रियारूप	—, illative	परिणामवाचक समुच्चय- बोधक
—, mixed	मिश्र त्रियारूप	—, negative	नास्तिवाचक समुच्चय बोधक
—, negative	निषेध त्रियारूप	—, positive	अस्तिवाचक समुच्चयबोधक
—, periphrastic	द्विरुक्ति त्रियारूप	—, purposive	उद्देश्यवाचक समुच्चय वाचक
—, strong	अनियमित त्रियारूप		
—, weak	नियमित त्रियारूप		

conjunction, subordinating	अधीनतासूचक समुच्चय- बोधक/आश्रयसूचक समुच्चयबोधक	consonantal group (=conjunct or compound consonants)	सयुक्त व्यजन
—, suppositive	हेतुमत् समुच्चयबोधक	— trigraph	व्यजन त्रिवण/व्यजन त्रिप्राफ
—, temporal	कालवाचक समुच्चयबोधक	— vowel	व्यजनात्मक स्वर
conjunctive	सयोजक	— writing	वेदल व्यजन-लेखन
— adverb	सयोजक त्रियाविशेषण	consonantic element	व्यजनाक्षर
— pronoun	सयोजक सवनाम	consonantism	व्यजन-व्यवस्था
connecting vowel	योजक स्वर	consonantization	व्यजनीकरण
connection (=liaison)	सधि	consonantoid (=contoid)	व्यजन छवनि/व्यजनक
connective conjunction	सयोजक समुच्चयवाचक	constituent	घटक/रचनाग/अवयव
connector	सयोजक	—, immediate	अव्यवहित अवयव/अव्यव हित घटक
connotation	गुणाय/इष्टाय/सपृक्ताय	—, ultimate	चरम अवयव
consequence clause	हेतुमद उपवाक्य	—, unique	एकल अवयव
conservation (=retention)	सधारण	constitute	अवयवी
consociation	सहवतन	constricted	सकुचित
consonance	1 सवादिता 2 सनाद	constructed language	कृत्रिम भाषा/रचित भाषा
consonant	व्यजन	construction	रचना
—, aspirated	महाप्राण व्यजन	constructional homony- my	रचनात्मक समनामता/ रचनात्मक ममरूपता
—, cardinal	मान व्यजन	constrictor (of the pharynx)	सकीणक
—, dental	दन्त व्यजन	consubstantial	एकाधिकरणक
—, kinetic (see stop)		contact	सम्पर्क
—, static (see continuant)		—, anticipation (see progressive assimilation)	
—, syllabic	जाक्षरिक व्यजन	—, close	आसन्न सम्पर्क
—, velarized	मृदुताल-योजित व्यजन/ कीमलनालव्योजित व्यजन	—, loose	शिथिल सम्पर्क
consonantal anaptyxis	व्यजनभक्ति		
— digraph	व्यजा द्विवण/व्यजन द्विप्राफ		

— vernacular

contagion (as in semantic contagion)

contamination

contemporary

content

— word

contentive

context

— of situation

contextual imagery

contextualization

contextualized word

contextual meaning

— pronunciation

— variant

(=positional variant)

contiguity

contiguous

— assimilation

continuant

continuative

— conjunction

1 सनिहित विपमोभवन/
अव्यवहित विपमोभवन

2 सनिहित विपमोभवन/
अव्यवहित विपमोभवन

1 सम्पक अवभाषा

2 सम्पक भाषा

1 ससग

2 सक्रमण

सम्मिश्रण

समकालिक

आशय

पूर्णत्व शब्द

आशय मूवक (शब्द)

प्रसंग/प्रवरग/सदभ

स्थिति सदभ

सादभिक प्रतिमावली

सदभोक्ति

सदभोक्ति शब्द

सादभिक अथ

सादाभिक उच्चारण

सोपाधिक परिवर्तन

स्थानाभिन्न परिवर्तन

सनिधि/सलनता/अव्यव-

धान

सनिहित/सलन/ अव्यव-

हित

1 सनिहित समीभवन/
अव्यवहित समीभवन

2 सनिहित समीकरण/
अव्यवहित समीकरण

प्रवाही/सतत

प्रवाही/सतत/मातल्य-

सातल्य-समुच्चयबोद्धक

continuous script

contoid

contour

—, terminal

— tone system

contraction

contradictory term

contraries (=contrary term)

contrary term

contrast

contrasting stress

— distribution

contrastive grammar

(=transfer grammar)

— linguistics

— pair

contrast meaning

conus elasticus

convention

conventional

conventionalist

(=analogist)

conventionality

conventional sign

convergent

conversation

conversion

co-occurrence

co occurrence

अविच्छिन्न लिपि/
अविच्छिन्न सखन

व्यजन ङवति/व्यजनक

परिरेखा

अत्य परिरेखा

परिरेखा तान व्यवस्था

सकोचन

विरोधात्मक शब्द

विरुद्धायक शब्द

विरुद्धात्मक शब्द

वैषम्य

व्यपम्यात्मक बलाघात

विषम वितरण

व्यतिरेकी व्याकरण

बोलन वणन.त्मक भाषा-

विधान/व्यतिरेकी

व्याकरण

विषम युग्म

विषमार्थ

प्रत्यास्य शत्रु/वानस

इलस्ट्रिबल

सन्त/रुडि

सावतिक, रुड

नियमवादी

रुडि

रुड सन्त

अभिसारी

सम्भाषण/वातचीत

(हिन्दी)

परिवर्तन

सहस्यति/सहस्यगमिता

co ordinate clause	समानाधिकरण उपवाक्य	creol	त्रिअल
— construction	समन्वित रचना	creolization	त्रिओगेवरण
co ordinated adjective	समानाधिकृत विशेषण	creolized language	त्रिजोलित भाषा
co ordinating conjunction	समानाधिकरण समुच्चय बाधक	crescendo	1 उत्थप (Ullmann) 2 आरही
co ordination	1 समानाधिकरण 2 समन्वय	— stress	आरही बलाघात
co ordinative copula	समानाधिकृत कौप्पूला	crest of sonority	श्रन्त्यता की परावाप्टा/ श्रुतिगम्यता की परावाप्टा
copulative compound	द्वन्द्व समास	cricoarytenoid muscle	मुद्रिका दबिवा पत्ती
— conjunction	सयोजक समुच्चयबाधक	cricoid cartilage	मुद्रिका उपास्थि
corniculate cartilage coronal	श्रृंगी उपास्थि	cricothyroid, ligament	स्नायुमुद्रिकाबद्ध
— articulation	जिह्वापलकीय	critical realism	सपरीशात्मक वास्तविकतावाद
corpus	जिह्वापलकीय उच्चारण सामग्री	crossing (see continuation)	
correlation	सहसम्बन्ध/समसम्बन्ध/ अयोयाश्रय	cross reference	प्रति सदन/अयाय मदभ अग
correlative	सहसम्बन्ध/समसम्बन्ध/अयोन्माश्रित	crude base	पशु विराय
— conjunction	अयोयाश्रित समुच्चय बाधक	cry, animal	प्रतिवत विराय
correspondence	सवाद	—, reflex	गूढ शब्दायवितान
— theory (of truth)	(सय वा) सबादितावाद	crypto semantics	गूढ प्ररूप
corresponding	सवादी	crptotype	चरमसूचक प्रवाय
— sound	सवादा स्वन/अनुरूप स्वन	culminative function	परिप्टृत भाषा/शिष्ट भाषा
corrupt	1 भ्रष्ट 2 अवमिश्रित	cultivated speech	साम्कृतिक आदान
corti, organ of countable noun	कोर्टाई अग	cultural borrowing	साम्कृतिक भाषा
covert	सरयय सभा	— language	साम्कृतिक भाषा
— structure	अप्रकट/गूढ	cumulation	सचयन
crasis (=crasis)	अप्रकट सरचना	cumulative conjunction	नयोजक समुच्चयबाधक
	एकादेश	— function	सयोजन प्रवाय
		cuneiform	बाणमुख/वीलाक्षर
		curled up	प्रतिवेष्टित
		cursive aspect	बिबास पक्ष
		— writing	प्रवाही लेखन

dark 'r'	पस्च ल'
— vowel (=back vowel)	पस्च स्वर
Darmsteter's law	डार्मस्टटर नियम
dash	डॅश
dative	सम्प्रदान/चतुर्थी
dead language	मृत भाषा
— word	मृत शब्द
deaspiration	महाप्राणत्व लोप
decadent	अपवर्धी
decibel	डेसिबल
declarative	निर्देशक
(=indicative)	
declension	नामरूप/सन्धारूप/विभक्ति
—, mixed	रूप/शब्दरूप
—, periphrastic	मिश्र शब्दरूप
—, strong	विन्तरित सन्धारूप/
—, weak	विस्तरित शब्दरूप
decline	जनियमित शब्दरूप
	नियमित शब्दरूप
decoder	नामरूप वताना/सन्धारूप वताना
decoding	1 विमर्शित्व
decomposition	2 विमर्शित्व
decompound	विसर्जन
(=expound)	अपघटन
decrement	विग्रह करना
deep vowel (=back vowel)	अपक्षय/ह्रास
deep grammar	परच स्वर
	गहन व्याकरण

D

defective paradigm	विकल रूपावली
— verb	विकल निया
— word	विकल शब्द
— writing	विकल लेखन/यून लेखन
definiendum	परिभाष्य (पद)
definiens	परिभाषक
definite	निश्चायक/निश्चयवाचक
— article	निश्चायक उपपद
— pronoun	निश्चयवाचक सवनाम
definitive genitive	निर्देशन-सम्बन्ध
deflexion	विभक्ति ह्रास
degree	काटि
—, comparative	तुलन-कोटि/तर भाव
—, equative	सम काटि/सम भाव
—, positive	सामाय कोटि
—, superlative	अतिशय कोटि/तम भाव
— of comparison	तुलना-कोटि/तर-सम भाव
de labialization	निरोष्ठयरजन
delative case	जवपाती वारक
deliberative	विचारणावाचक सभाव-
subjunctive	नायक
delome (=argument)	डीलोम/मुक्ति
demarkative function	सीमाबोधक प्रवाय
demonstrative	निर्देशक विशेषण/सर्वेन
adjective	वाचक विशेषण
— pronoun	निर्देशक सवनाम/सर्वेन
demotic language	वाचक सवनाम
de nasalization	जनभाषा
denominative	निरनुनासिनयरजन
— root	नामजात
denotation	नामधातु
	मुग्धाथ/वाच्याथ

density of communication	संचार घनता	descriptive grammar	वर्णनात्मक व्याकरण
dental	दन्त्य	— linguistics	वर्णनात्मक भाषाविज्ञान
— consonant	दन्त्य व्यंजन	— order	वर्णनात्मक क्रम
— spirant	दन्त्य पर्षी/दन्त्य सघर्षी	— phonetics	वर्णनात्मक स्वनविज्ञान
— stop	दन्त्य स्पर्श	desiderative	इच्छायक/संनत
denti alveolar	दन्त ऋत्स्य	designans	आख्याता
depalatalization	विसालव्यंजन	designatum	आख्यय
dependent clause	आश्रित उपवाक्य	desinence (= termination)	ज्त्व प्रत्यय
— phonetic change	आश्रित स्वन-परिवर्तन	destinative case	गत-व्यवाची कारक
— sound change	आश्रित स्वन-परिवर्तन	detachment (= separation)	अपय
dependent substitute	आश्रित आदेश	deteriorative suffix	युत्थाय परप्रत्यय
deponent verb	देपोनेट क्रिया	determinant	निर्धारक
derivation	व्युत्पत्ति/दाह साधन	determination	निर्धारण
—, class changing	व्य-परिवर्ती व्युत्पत्ति	determinative	निर्धारक
—, class maintaining	व्य अपरिवर्ती व्युत्पत्ति	— clause	निर्धारक उपवाक्य
derivational	व्युत्पत्तिमूलक/दाह साधक	— compound	तत्पुरुष समास
— affix	व्युत्पादी प्रत्यय	determined	निर्धारित
— compound	व्युत्पादी समास	determiner	निर्धारक
— concept	व्युत्पत्ति-सम्बन्धना	determining	निर्धारण
— unity	व्युत्पत्ति एवता	development	विकास
derivation ratio	व्युत्पत्ति अनुपात	deverbative	क्रिया साधित/क्रिया व्युत्पन्न
derivative	व्युत्पादी/व्युत्पत्ति/साधित	device, syntactic	वाक्यविन्यास-युक्ति
—, primary	वृद्धत	devoicalization	अस्वरीकरण/व्यंजनीकरण
—, secondary	तद्धित	devoiced	अधोपीवृत्त/निर्धोपीवृत्त
— term	व्युत्पन्न शब्द/साधित शब्द	— plosive	अधोपीवृत्त स्पर्श/निर्धोपी वृत्त स्पर्श
derived adjective	व्युत्पन्न विशेषण	devoicing	अधोपीकरण/निर्धोपीकरण
— primary word	व्युत्पन्न वृद्धत/साधित वृद्धत	Dhal's law	डाल नियम
— secondary word	व्युत्पन्न तद्धितात/साधित तद्धितात	diachronic	कालक्रमिक
descriptive adequacy	वर्णनात्मक पर्याप्त	— evidence	कालक्रमिक प्रमाण
— adjective	वर्णनात्मक विशेषण	— grammar	कालक्रमिक व्याकरण

11

discourse	1 वाक्यवध 2 वचन	--- feature	परिच्छेदक अभिलक्षण
discriminative case	प्रेरक वारण	--- function	प्रेरक प्रवाम/व्यापनक प्रवाय
disjunction	विभाजन/विपरीत	--- opposition	व्यवच्छेद
disjunctive conjunction	विभाजक समुच्चयवाधक	--- sound	परिच्छेदक स्वन/स्वनिम
--- opposition	विभाजक प्रतियोग/ विभाजक विरोध	(= phoneme)	
--- pronoun	विभाजक सर्वनाम/ वियोजक सर्वनाम	distribution	वितरण
disjuncture	अवग्रह/विप्रवृष्ट सहिता	---, coincident	सपाती वितरण
displaced speech	विस्थापित भाषा/अमून	---, complementary	पूरक वितरण
(= abstract speech)	भाषा	---, exclusive	व्यापनक वितरण
displacement	विस्थापन	---, free	स्वतंत्र वितरण
--- of meaning	अवधि/अथ विपरिणाम	---, inclusive	अभ्यावतक वितरण
dissection	विच्छेदन	---, overlapping	जटापाती वितरण
dissimilar	विपम/विमदश	--- class	वितरण-वग
dissimilation	1 विपमीभवन 2 विपमीकरण	distributive	वितरणक
---, contact	1 सन्निहित विपमीभवन/ अव्यवहित विपमीभवन 2 सन्निहित विपमीकरण/ अव्यवहित विपमीकरण	--- aspect	वितरण पक्ष
---, remote	1 असन्निहित विपमी भवन/व्यवहित विपमी भवन 2 असन्निहित विपमी करण/व्यवहित विपमी करण	--- numeral	वितरण नम्यावाधक
dissonance	1 श्रुतिकटु-व/दुःख 2 जमवाप्तिता	disyllable	द्वयक्षर
dissyllable	द्वयक्षर	ditto	तदेव
distant assimilation	1 अतरित समीभवन 2 अतरित समीकरण	divergence	अपसरण
distinctive	परिच्छेदक/भेदक/साधक	diverse cluster	पुत्रक स्वतन्त्र-गुच्छ
		doctrine of the logos	शब्द सिद्धांत
		domain	अधिकार क्षेत्र
		domal	मूधय/पतिवेषित
		domesticated word	समादत्त शब्द
		dorsal	पश्चजिह्वीय
		--- articulation	पश्चजिह्वीय उच्चारण
		--- contact	पश्च जिह्वीय नसर्पण
		dorsum	पदन जिह्वा
		double consonants	द्विगुणन
		--- letters	द्विवण
		--- negative	नञ द्वय
		--- plural	द्विगुण बहुवचन

double primary structure

double primary structure	द्विगुण प्राथमिक निरार
— sound	द्विस्वन
— stop	द्विरुप/द्विरुपान्तीय म्प
— stress	द्विगुण बलाघात
doublets	गुम्/एकमूल गद
doubling	द्वित्व
(= gemination)	
down glide	अधो विमप
downward comparison	अधोमुग्री तुलना/लनुना
(inferior comparison)	बाबी तुलना
dramatic present	भूतायक वतमान
(= historical present)	
drawing quantity	लवित परिणाम
drift	प्रवसि
drone	विउवित रणन
dual	द्वि
dualism	द्वैतवाद

dual number	द्विनचन
duplicated verb	द्विगुणित क्रिया
duplication	द्विगुणन
duration	अवधि/मात्रा
durative	जावधि/मात्रिक/मतत
— aspect	मातत्वयो एक पक्ष
dyad	गुम्क
dynamic	गतिक
— accent (= stress)	गतिक जाघात/बलाघात
— action	गतिक काय
dynamical interpretant	गतिक सप्रत्यायक
dynamic alternation	गतिक परिवचन/गतिक विक्ल्पन
— philologist	गतिक वाड् मीमांसक
— philology	गतिक वाड् मीमासा
dynamics	गतिविज्ञान/गतिकी
dystasy	अस्पष्ट विद्याम/सद्विद्य विद्याम

F

ear	वण/वान	echoism (see onomatopoeia)	प्रतिध्वनि सन्द
—, inner	आतर वण	echo word	यदृच्छा वरणत्मक
—, middle	मज्ज वण	eclectic	व्यजन लोर/हृद् लोर
—, outer	बाह्य वण	eclipsis	लाघव
cardrum	दग पद	economy	प्रयत्न लाघव
ear training	श्रवण अभ्यास	— of effort	अथ निगन्त
echo	प्रतिध्वनि	ecsemeic	

ecthlypsis (=eclipsis)	व्यजन लोप/ह्रस्व लोप
educated standard	व्ययज्ञान मानक/गिणित वग मानक
effective aspect	प्रभावी पक्ष
effort	प्रयत्न
—, external	बाह्य प्रयत्न
—, internal	आन्मन्तर प्रयत्न
egressive air stream	बहिर्गामी वायु प्रवाह
— click timbre	वर्तिर्गामी क्लिक रणन
ejective consonant	ह्रिविधत व्यजन
elative case	बहिर्वाचा कारक
electrical vocal tract	वैद्युत वाक्य पथ
element	1 अक्षर 2 तत्त्व
—, consonantic	व्यन्तगत
—, floating	अनावश्यक अक्षर/अस्थिर अक्षर
—, vocalic	स्वरक्षर
— model	मूलाक्षर प्रतिरूप
elision	लोप
ellipsis	लान्/अध्याहार
elliptical	लुप्त
— construction	लुप्तता रचना
emolue	भाव प्रधान/सवैगात्मक
— accent	सवैगात्मक आधान
— import	भावनाय
— meaning	भावनाय
— metaphorical	सवैग रूपात्मक भाषा
language	
— similarity	सवैग-सादृश्य
— speech	भाव-प्रधान भाषा
empathist	तदनुभूतिवादी
emphas s	अवधारण/भार

— for contrast	वैयम्य अवधारण
(=contract emphasis)	
— for intensity	तीव्रता अवधारण
(=intensity emphasis)	
emphatic	अवधारक/भाष्यार्थक
— articulation	अवधारक उच्चारण
— order	अवधारक क्रम
— pronoun	अवधारक सवनाम
— mood	अवधारणबोधक अक्षर/अवधारणबोधक वक्ति
empirical	अनुभवार्थित
empiricist	अनुभवार्थी
empty morph	रिक्त रूप/प्रवाय रूप
— word (=function word)	रिक्त शब्द/प्रवाय शब्द
enantiomorphism	त्रिम्य प्रतिबिम्बव (अन्विनाम्नि)
enclisis	पूर्वाश्रय
enclitic	पूर्वाश्रयी
encoder	1 सङ्गठक 2 सङ्गठित
encoding	सङ्गठन
encyclopedia	त्रिद्वयवैग
ending	1 अन्त 2 अन्त प्रत्यय
endocentric	अन्त वैग द्विक
— construction	अन्त वैग द्विक रचना
endophasia	अनुत्तरित भाषण
energetic mood	अवधारणबोधक अक्षर/अवधारणबोधक वक्ति
(=emphatic mood)	
engraphic pattern	मरवाचकन प्रतिरूप/रूपयवन प्रतिरूप
engram	मरवाचकन/रूपयवन

engram system	सम्भार/वन-पद्धति/ स्मृत्यवन-पद्धति	ergative case	सौख्य कारक
enigma	प्रहलिका	escape cavity	निमग्न गुहिका
enlargement	1 विस्तार 2 पूरक	esophageal cavity	ग्रसिका/ग्रास नली गुहिका
entering tone	अकराही-आराही तात	esoteric doctrine of meaning	अब गुह्य मिद्धात
enunciative	प्रतिनापक	essential meaning	सुरधान
environment	परिसर/सदभ	essive case	सत्तावाची कारक
—, mutually exclusive	परस्पर-व्यावतक परिसर	ethmoidal air cell	झरिका बाबु कोशिका
epanalepsis	द्विरक्ति	ethnolinguistics	मानवजाति भाषाविज्ञान
epenthesis	अपिनिहिति	ethnomy	मानवजाति नामविज्ञान
epexegesis	व्याख्या	etiological (= aitiological)	दृष्टान्तरूपी
epexegetical	व्याख्यात्मक	etymological	व्युत्पत्ति विषयक
epicene	उभयलिंगी	— doublet	व्युत्पत्तिक युग्म
epiglottis	उपजिह्वा	etymologist	व्युत्पत्तिशास्त्री/व्युत्पत्ति- विशेषण
epilegma	एपिलेग्मा	etymology	1 व्युत्पत्ति 2 व्युत्पत्ति विमर्श
epismeme	उपायम	—, false	भ्रामक व्युत्पत्ति
epistemology	ज्ञान मीमांसा	—, folk (= popular etymology)	लाजिक व्युत्पत्ति
epistolary tense	पत्रांतर काल	—, popular	लीजिक व्युत्पत्ति
ep thesis (= paragoge)	अननिहिति	etymon	प्रवृत्ति
epithet	विशेषण	eugenics of language	भाषा मस्कार
epithet c	अननिहित	euphemism	शिष्टोक्ति
epithetologue	विशेषण श्यानीय	euphonic	सुश्राव्य/श्रुतिमधुर
eponym	मूल व्यक्ति नाम	— combination	सदि
equalization (= assimilation)	समीकरण	euphony	सुश्रवता
equational sentence	क्रियाहीन वाक्य	custachin tube	सूटेकी नलिका
equative case	साम्यसूचक कारक	even beginning (clear vowel beginning)	स्पष्ट स्वरारम्भ
— degree	सम कोटि/सम भाव	— stress	सम दलावात
equipollent	समतुलित	evolution	न-निरात्म/विकास
equivalent	समानार्थी/सम	—, phonetic	स्वर विवास
equivocation	सदिगता	— theory	विकासवाद

evolutionary linguistics	विक्रमश्रमिक भाषाविज्ञान/ एतिहासिक भाषाविज्ञान	experimental semantics	प्रायोगिक शब्दाध्ययन
exclamation	विस्मयादिबोधक	expiration	निश्वास/निश्वासन
— mark	विस्मयादिबोधक चिह्न	expiratory stress	निश्वास-बलघात
exclamatory pitch	विस्मयादिबोधक स्वरघात	explanatory adequacy	व्याख्यात्मक पर्याप्तता
— sentence	विस्मयादिबोधक वाक्य	— grammar	व्याख्याप्रधान व्याकरण
exclusive distribution	व्याप्तक वितरण	expletive	अनुपुङ्गव
— personal	समर्थात् पुरुषवाचक सप्त	explosion (plosion)	स्फोटन
pronoun	नाम/तन विना मयादा	explosive	1 बहि स्फाटक (adj) 2 स्पन्ना (n)
— relationship		— articulation	बहि स्फोटक उच्चारण
(set complementary distribution)		exponent	घातन
— transcription	व्यापक लिप्यन्त	exponential sound	1 अधिप्रमो स्वन (suprasegmental) 2 घोनक स्वन (Firth School)
excrecent (=epenthesis)	अपिनिहित	expression	अभिप्रेक्षित
exhalation	निश्वास/निश्वासन	expressive	वक्तृबोधक
exhortative subjunctive	प्रोत्साहात्मक संभाव नात्मक/उद्बोधक संभावनात्मक	— symbolism	व्यञ्जक प्रतीक
exhortive mood	उद्बोधक अर्थ/उद्बोधक	— function	भावबोधक प्रणय
(=exhortative mood)	वृत्ति	(affective function)	
existential sentence	अस्तित्वाकी वाक्य	extended morph	विस्तारित रूप
exocentric	बहिर्केन्द्रक	extension	विस्तरण/विस्तार
— compound	बहुब्रीहि समास	extensional meaning	विस्तृत अर्थ
— construction	बहिर्केन्द्रक रचना	extension of meaning	1 अर्थ विस्तार 2 मुख्यार्थ/वाच्यार्थ
exogenous	बहिर्जन	exterior position	बाह्य स्थान
exolinguistics	मातृश्रमिक भाषाविज्ञान	external distribution	बाह्य वितरण वय
exophasia	उच्चरित भाषण	class	
exotic letter	इतर वर्ण	— effort	बाह्य प्रयत्न
expansion	प्रसरण/प्रसारण	— flection	बाह्य विभक्ति
experiment	प्रयोग	— grammar	बाह्य व्याकरण
experimental numercy	प्रायोगिक अनुपकरण	— hiatus	बाह्य विगडि
— phonetics	प्रायोगिक स्वनविज्ञान		

externalization

fauces

externalization	1 बहि करण 2 बहिभवन	extra linguistic semantics	भाषाविज्ञान बाह्य शब्दाव- विज्ञान
external meaning	ग्राह्य	— systematic phoneme	व्यवस्था बाह्य स्वनिम/ तत्र बाह्य स्वनिम
— open juncture	बाह्य अवग्रह	— -systemic	व्यवस्था बाह्य
— pause	बाह्य विराम	extrusion (=reduplica- tion)	जन्मास
— punctuation mark	विराम चिह्न	eye dialect	भाषिका व्यञ्जक
— sandhi	बाह्य सन्धि		
extinction of a language	भाषा क्षय		

I

facial nerve	आनन-तन्त्रिका	— palate (=arti- ficial palate)	कृत्रिम तन्तु
factitive (=causative)	प्रेरणायक	falsetto	मिथ्या (घोषतन्त्री) कपन
factive (=mutative or translative)	विकारमूचक (कारक)	false vocal cords	आभासा घोषतन्त्री
— nominal	कृत कर्म नामिक	family	कुल/परिवार
fact mood (=indica tive mood)	निश्चयान्वक वृत्ति	—, language	भाषा कुल/भाषा परिवार
factor analysis	गुणखण्ड विश्लेषण	— of transforma tion	रचनातरण कुल
fading clause terminal	अवरोही उपवाक्यात्	fascicles of isoglosses (=bundle of isoglosses)	समभाषास सीमारखा गुच्छ/समभाषास सीमा
falling	अवरोही	faucal	रेखा समूह
— diphthong	अवरोही सध्यक्षर	faucalization	गलवापीय/कठय गलवापीयरजन/गलवापीय- करण
— pitch	अवरोही स्वराघात	fauces (=palatine arches)	गलवाप
— - rising pitch	अवरोही-आरोही स्वराघात		
false analogy	मिथ्या सादृश्य		
— etymology	आत व्युत्पत्ति		

favourite sentence form	यद्भवति वाच्य (१०)	fit	दिङ्/दीर्घाद्य
feature	सिद्धिः वाच्यः	flexative (factor)	शब्दाद्य
—, distinctive	परिभाष्यते सिद्धिः वाच्यः	fixed accent (=bound accent)	द्वयं तदाद्य
—, inherent	वाच्यस्य सिद्धिः वाच्यः	- articulator	स्वयं कर्तव्य
—, non distinctive	स्वयं कर्तव्यं सिद्धिः वाच्यः	stress	दिङ् वाच्यः
—, prosodic	स्वयं कर्तव्यं सिद्धिः वाच्यः	word order	दिङ् वाच्यः
—, suprasegmental	स्वयं कर्तव्यं सिद्धिः वाच्यः	flap	उ वाच्यः
feed back	परिभाष्यते	flapped	उ वाच्यः
feeling tone	आवाच्यः वाच्यः	flash of meaning	अथ-प्रकृत्य
female sex	स्त्रीलिंगः	flat articulator	मन्त्र-वाच्य/मन्त्र-वाच्य
feminine	स्त्रीलिंगः	flexion (flexion inflection)	1 विभक्तिः 2 रूपनिर्दिष्ट
feminization	स्त्रीलिंग-करणम्	, external	बाह्य विभक्तिः
field	क्षेत्र	, internal	आन्तरिक विभक्तिः
—, linguistic	भाषा-क्षेत्र	, thematic	विभक्ति-सुत्रा-रूप
— condition	क्षेत्र-परिभाष्यते	flexional language	विभक्ति-वाच्य/विभक्ति-प्रधान
— study	क्षेत्र-अध्ययनम्	(=inflectional language)	विभक्ति-प्रधान भाषा/ विभक्ति-वाच्य भाषा
— theory	क्षेत्र-सिद्धिः	flexibility	गन्धर्व, उ-वीणाद्य
figurative	वाच्य-परिभाष्यते, वाच्य-परिभाष्यते	flexible	विभक्ति-प्रधान/गन्धर्व
— idiom	वाच्य-परिभाष्यते, वाच्य-परिभाष्यते	flip (=flip)	उ वाच्यः
— meaning	वाच्य-परिभाष्यते, वाच्य-परिभाष्यते	floating element	जना-वाच्य-अ/अस्विकार-अ
figure	जना-वाच्य-परिभाष्यते, वाच्य-परिभाष्यते	fluctuation	उच्चारण-अ
final	1 अन्त 2 अन्त	—, free	स्वतन्त्र उच्चारण-अ
— accent	अन्त-आवाच्यः	focal area	केन्द्रीय-क्षेत्र
— glide (=off glide)	पर-भ्रूति/अन्त-विभक्ति	focus class	क्षेत्र-वर्ग
— pitch	अथ स्वरा-वाच्यः	folk etymology	लौकिक-व्युत्पत्ति
finite form	विधेय-विभक्ति-रूप	(=popular etymology)	
— mood	1 पुरुष-नियत-वृत्ति 2 विधेय-वृत्ति	— speech	लौकिक-भाषा
— verb	विधेय-विभक्ति		
first future (tense)	प्रथम-भविष्यत (वाच्य)		
— person	उत्तम-पुरुष/प्रथम-पुरुष		

food passage

food passage (oesophagus)	आहारनाड
foot	चरण/पाद
forced vibration	प्रणादित कंपन
foreignism	विदेशीयत्व
forlorn verb	त्यक्न क्रिया
form	रूप/आकृति
—, allerge	स्वरितोच्चारित रूप
—, analogical	सादृश्यमूलक रूप
—, attested	उपलब्ध रूप
—, bound	बद्ध रूप
—, cognate	समान रूप
—, complex	मिश्र रूप
—, fast (of pronunciation)	द्रुतोच्चारण
—, finite	विधेय त्रिवारूप
—, free	स्वतंत्र रूप
—, hesitation	संकोच रूप
—, hyper	अतिशोधित रूप
—, infinite	अविधेय त्रिवारूप
—, lento	मनोञ्चारित रूप
—, linguistic	भाषिक रूप/भाषाई रूप
—, nonsense	अव्यर्थ रूप
—, nursery	बालशाला
—, obscene	अश्लील रूप/अशुभ रूप
—, ominous	अशुभ रूप (शब्द)/अमंगल सूचक रूप (शब्द)
—, paraplasic (= neologism)	नवनिर्मित रूप/नवनिर्मित शब्द
—, rapid (of pronun- ciation)	प्रियोच्चारण
—, relief	अवशेष/अवशिष्ट रूप
—, sandhu	संधि रूप
—, suppletive	संबन्धी रूप

form, syncrctic	सम्मिलित रूप
—, tactic	परिम विद्याग
—, underlying	आधार रूप
formal	रूपात्मक
— alternation	रूपात्मक परिवर्तन/ रूपात्मक विवर्तन
— analogy	रूप सादृश्य
— genus	बाह्य प्रकृति
— grammar	रूपात्मक व्याकरण
— language	1 औपचारिक भाषा 2 रूपात्मक भाषा
— speech	औपचारिक वाक्य/ औपचारिक भाषा
— unit	रूपात्मक इकाई
formant	फॉर्मेट/आगति-शब्द
formational statement	विवरण वणन
formative	1 प्रत्यय 2 रचनाग
form class	रूपवर्ग
formless language	अरूपात्मक भाषा
formula	सूत्र/सूत्रगत उक्ति
form word (=synse- mentic/syncategore- matic word)	1 भाषण शब्द 2 रूप शब्द
fortis	दृढ
fossilized (=obsolete)	अप्रचलित
fraction	प्रभाग
frame	बद्ध
free accent	स्वतंत्र जाघान
— alternation	स्वतंत्र परिवर्तन/स्वतंत्र विवर्तन
— combination (=free expression)	स्वतंत्र अभिव्यक्ति
— distribution	स्वतंत्र वितरण

free expression	स्वनत्र अभिव्यक्ति
— fluctuation	स्वतत्र उच्चावचन
— form	स्वनत्र रूप
— root	स्वतत्र धातु
— stress	स्वतत्र बलाघात
— syllable	स्वतत्र अक्षर
— translation	स्वतत्र अनुवाद
— variant	स्वतत्र परिवत
— variation	स्वतत्र परिवर्तन
— vibration	स्वतत्र कपन/मुक्त कपन
— word accent	स्वतत्र शब्दाघात/ अनियत शब्दाघात
— — order	स्वतत्र शब्दनम/ अनियत शब्दनम
frequency	आवृत्ति
— curve	आवृत्ति वक्र
— of cycles	चक्रावृत्ति
— — vibration	कपनावृत्ति
frequentative	पौन पुनिक
— aspect	पौन पुनिक पक्ष
— verb	पौन पुनिक त्रिया
fricative (=spirant)	नघर्षा/घर्षा
friction	घषण
frictional	घर्षा
frictionalized	घषरजित
frictionless continuant	घषण रहित प्रवाही
friction sound	घषण-स्वन
front (of the tongue)	उपान्न/जिह्वापात्र
frontal incisor line	अग्र कृन्क रेखा
— sinuses	रलाट विवर
fronted	अग्रोदित
fronting	अग्रोत्तरण
front vowel	अग्र स्वर
full rhyme	पूरा प्राग

full sentence	पूरा वाक्य
— stop	पूरा विराम
— word (=content word)	पूर्णार्थ शब्द
function	प्रकाय
—, culminative (=demarkative function)	चरमसूचक प्रकाय
—, distinctive	परिच्छेदक प्रकाय
functional and structural theory	प्रकार्यात्मक और संरचनात्मक थार
— change (=transmutation)	प्रकाय परिवर्तन
— dictionary	नानार्थ कोष
— linguistics	प्रकार्यात्मक भाषाविज्ञान
— load	प्रयोग बाहुल्य/प्रकाय क्षमता
— unit	प्रकाय इकाई
— word	प्रकाय शब्द
— yield	प्रयोग बाहुल्य
function noun	प्रकाय मना
— verb	प्रकाय त्रिया
fundamental	मूल (adj) मूल तान (n)
— frequency	मूल आवृत्ति
— pitch	मूलभूत स्वराघात
fundamentum	आधार
fused compound	सलीन समास
fusing	मलयी
fusion	सधि/मलयन
future	भविष्यन
—, periphrastic	विभक्तित भविष्यन
—, predicative	भविष्यन्वाक्य
—, preterit	पूरा भविष्यन
— anterior	पूरा भविष्यन

G

galimatias	बयालाप/असबद्धालाप
gathering	संग्रहण
geminated	द्वित्वभूत
gemination (=doubling)	द्वित्व
gemmation	जेमोद भवन
gender	लिंग
—, animate	चेन्न लिंग
—, feminine	स्त्रीलिंग
—, inanimate	अचेतन लिंग
— masculine	पुलिंग
—, neuter	नपुंसक लिंग
genderless	अलिंग/लिंगरहित
— language	लिंगरहित भाषा
— noun	लिंगरहित सना
gender noun	लिंग सना
geneological classification	आनुवंशिक वर्गीकरण
general grammar	सामान्य व्याकरण
generality	सामान्य कथन
generalization	सामान्यीकरण
general linguistics	सामान्य भाषाविज्ञान
— meaning	सामान्य अर्थ
— phonetics	सामान्य स्वनविज्ञान
— sandhi	सामान्य संधि
generative grammar	प्रजनक व्याकरण
generic category	वर्गीय कोटि
— concept	वर्गीय सबल्पना
— name	जातिवाचक नाम
— number	जातिवाचक वचन
— term	जातिवाचक शब्द
generous plural	अधिकोक्त बहुवचन

genetic classification	आनुवंशिक वर्गीकरण/ उत्पत्तिमूलक वर्गीकरण
— phonetics	जननिर्भर स्वनविज्ञान
(see articulatory phonetics)	(उच्चारणात्मक स्वन- विज्ञान)
— relationship	आनुवंशिक संबंध
genioglossus (muscle)	चिबुक जिह्विका पेशी
genitive case	संबन्ध कारक
gennemic phonetics	जननात्तर स्वनविज्ञान/ उच्चारणीत्तर स्वनविज्ञान
genus	वंश
geocentric	भूकेन्द्रीय/भूकेन्द्रिक
germanism	जर्मनीकरण
gerund	नियामक सज्ञा
gerundive	कृदन्त विशेषण
— nominal	कृदन्त नामिक
— suffix	कृदन्त विशेषण प्रत्यय
gestalt	समग्रकृति
gestural theory	अंगविक्षेप वाद
gesture language	अंगविक्षेप भाषा
ghost word	भ्रामक शब्द/मिथ्या शब्द
(=phantom word)	
gingival	वल्ग्व
gland	ग्रन्थि
glide	विसर्प/श्रुति
—, down	अधोविसर्प
—, final	परश्रुति
—, off -	परश्रुति
—, on -	पूर्वश्रुति
— vowel	विसर्प स्वर
gliding sound	विसर्प स्वन

gliding toneme

gliding toneme	विसर्पी तानिम/विसर्पी तान- स्वनिम	government (=rection)	नियन्त्रण/नियमन
gloss	भाषाया	gradation (=abrut)	अवधुति
glossary	शब्दावली	—, qualitative	गुणात्मक अवधुति
glossematics	ग्लोसिमेटिक्स/ग्लोसीम- विज्ञान	—, quantitative	मात्रात्मक अवधुति
glosseme	ग्लोसीम/सूचिम	gradual beginning	क्रमशः प्रारम्भ
glossoepiglottic fold	जिह्वोपजिह्वा पुटक	gradualness (of sound change)	(स्वन परिवर्तन की) क्रमिकता
glossolalia	विक्षिप्त भाषा	gradual phonetic change	क्रमिक स्वनिक परिवर्तन
glossology (=linguistics)	भाषाविज्ञान	grammar	व्याकरण
glossopalatine arch	जिह्वातालु-चाप	—, contrastive (or transfer grammar)	व्यतिरेकी-याकरण
glossopharyngeal nerve	जिह्वाप्रसनी-तन्तिका	—, deep	गहन व्याकरण
glottal	श्वासद्वारीय	—, descriptive	वर्णनात्मक व्याकरण
glottalization	श्वासद्वारीयरजन	—, diachronic	कालत्रमिक व्याकरण
glottalized	श्वासद्वारीयरजित	—, external	बाह्य व्याकरण
glottal stop (=glottal catch)	श्वासद्वारीय स्थ	—, formal	रूपात्मक व्याकरण
— trill	श्वासद्वारीय कपन	—, general	सामान्य व्याकरण
glottis	श्वासद्वार	—, generative	प्रजनक व्याकरण
glottocentric	स्वभाषावादो/स्वभाषा पक्षपाती	—, historical	ऐतिहासिक व्याकरण
glottocentrism	स्वभाषावाद	—, living	जीवित व्याकरण
glottology	भाषाविज्ञान	—, normative	मानकी व्याकरण
(=linguistics)		—, philosophical	सामान्य व्याकरण दर्शन
glottochronology	भाषाकालक्रमविज्ञान	—, prescriptive	अनुशासनमूलक व्याकरण
gnomic	तद्धर्मायक	—, reference	सदभ-व्याकरण/निर्देश व्याकरण
— present tense govern	तद्धर्मायक वर्तमानकाल नियन्त्रण करना/नियमन करना	—, sentence	वाक्य-व्याकरण
governed word	नियन्त्रित शब्द	—, supra sentence	अधिवाक्य-व्याकरण
governing word	नियन्त्रक शब्द/नियामक शब्द	—, surface	सहित्तीय व्याकरण
		—, synchronic	एककालिक व्याकरण
		—, transfer (=contr- astive grammar)	व्यतिरेकी याकरण

hardening (=depalatalization)	विताल-व्यंजन	heterosyllabic	विपमाक्षरिक
hard palate	कठोर तालु	heterosyllable	विपमाक्षर
hare-lip	खडोष्ठ	heuristic	अन्वेषणात्मक
harmonics	सनाद	hiatus	विसंधि/प्रगृह्य
harmonic theory	सनादी वाद	—, external	बाह्य विसंधि
harmony	संगति	—, internal	आन्तरिक विसंधि
— of vowels (=vowel harmony)	स्वर-भंगति	hierarchy	अधिपत्य
head	1 शीप 2 प्रधान	hieroglyph	चित्रलेख
— word	प्रधान शब्द	hieroglyphic writing	चित्रलिपि
hearing	श्रवण	high	उच्च
hedonic tone	भाव तान	— caste noun (=caste noun)	महत्वाची सत्ता/महत्वाची नाम (तलुगु)
helper verb (=auxiliary verb)	सहायक क्रिया	higher low	उच्चतर निम्न
hermaphroditism	उभयलिंगिता	higher mid	उच्चतर मध्य
hesitation form	संकोच रूप	high level pitch	उच्च (स्तर) स्वराघात
heteroclitc	असम रूप	— tone	उच्च तान
heterographic spelling (=heterography)	अक्षरलेख वक्तनी/अक्षर उच्चारण वक्तनी	— vowel	उच्च स्वर
heterography (=heterographic spelling)	उच्चारण वक्तनी	Hiragana	हीरागाना
heteronomous change (=conditioned change)	आश्रित परिवर्तन	hissing sound	झप्प स्वन
— sound change (=conditioned sound change)	आश्रित स्वन परिवर्तन	historical grammar	ऐतिहासिक व्याकरण
heteronym	1 विपमरूप समलेख 2 गाम्बिक अनुवाद	— linguistics	ऐतिहासिक भाषाविज्ञान
heteronymy	विपमरूप समलेख	— phonetics	ऐतिहासिक स्वनविज्ञान
heterophemy	शब्द स्वेलन	— present	अतीतायक वतमान
heterorganic	असवण/भिनस्यानीय	— semantics	ऐतिहासिक शब्दाभिव्यक्ति
		— tense	इतिहासवाची काल
		historico structural view	ऐतिहासिक संरचनात्मक दृष्टिकोण
		hole in the pattern	रिक्ति
		holophrase	वाक्यात्मक शब्द
		holophrasis	वाक्यात्मक शब्दाभिव्यक्ति
		holophrastic sentence	शब्दवाक्य
		— language (=polysynthetic language)	बहुसंज्ञापणात्मक भाषा/ प्रसिद्ध योगात्मक भाषा

I

sch sound (c)	'श' स्वन	imitative	अनुकरणात्मक
icon	प्रतिमा/मूर्ति	— word (see	अनुकरण शब्द
icon c	प्रतिमापरक/मूर्तिपरक	onomatopoeia	
— sign	प्रतिमा-पकेन/मूर्तिन सकेत	imitator	अनुकारक/अनुकरणकर्ता
identical	तद्रूप/सवसम	immediate constituent	सनिहित अवयव/सनिहित घटक
identification	अभिनिर्धारण	— future tense	आसन्न भविष्यत्
identity (identity of form)	सवसमिका/एकरूपता	— interpretant	तत्काल समत्यायक
ideogram	भावलेख	immigrant language	आप्रवासी भाषा
ideograph	भावलेख	immutable (=invariable)	अविचारी/अचय
(=ideogram)		imperative mood	आज्ञायक/आनायक वक्ति
ideographic writing	भावलेखन	— sentence	आज्ञायक वाक्य
(=ideography)		imperfect articulation	अभिनिर्वाण/अपूर्ण उच्चारण
ideography	भावलेखन	— imitation	अपूर्ण अनुकरण
idelect	व्यक्ति बोली/निर्भाषिणा/व्यक्ति भाषा	imperfective aspect	अपूर्ण पक्ष
idochronic	भाषककालिक	(=atelic aspect)	
idiodiachronic	भाषककालक्रमिक	imperfect participle	अपूर्ण कृत विशेषण
idiom	मुहावरा/सिद्धप्रयोग/जातीयम (तेलुगु)	— tense	अपूर्ण काल
idiomatic	मुहावरेदार/सिद्धप्रयुक्त/जातीय (तेलुगु)	impersonal mood	भाववाचक वक्ति
— semantics	रुद्धप्रयोगी शब्दाभिव्यञ्जना	— verb	भाववाच्य क्रिया
idiomatology (or language characterization)	रुद्धप्रयोगीविज्ञान	implication	निहितार्थ/विवक्षा
illative conjunction	परिणामवाचक समुच्चय-बोधक	implied meaning	निहितार्थ/विवक्षित अर्थ
illiterate	निरक्षर	implosion	अत स्फोटन
imitation	अनुकरण	implosive	अत स्फोटक
— label technique	अनुकरणात्मक लबल प्रविधि	— articulation	अत स्फोटक उच्चारण
— of sounds	स्वतन्त्रानुकरण	import	अर्थ/आशय/विवक्षा
		—, cognitive	ज्येष्ठाश्र/सनाय
		—, emotive	भाववाच्य/सवगाय
		impressionistic transcription	प्रभावतात्मक लिप्यवन

inductive generalization	आगमनात्मक सामान्यीकरण
infection	(see vowel change)
inference	अनुमिति
inferential aspect (=putative aspect)	अनुमिति पक्ष
inferior comparison (= downward comparison)	अधोमुखी तुलना/लघुता वाची तुलना
infinite form	अविधेय रूप
— mood	1 अनिमत वृत्ति/ 2 अविधेय वृत्ति
infinitive	भावायक सज्ञा/तुम्य
—, perfect	पूण भावायक सज्ञा/पूण तुम्य
—, personal	पुरपवाचक भावायक सज्ञा/ पुरपवाचक तुम्य
— clause	तुम्य उपवाच्य
— nominal	तुम्य नामिक
infix	मध्यप्रत्यय
infixation	मध्यप्रत्यययोजन
inflected word	पद
inflection (=flection/ inflexion)	1 विभक्ति 2 रूपसिद्धि
inflectional affix	विभक्ति प्रत्यय
— category	विभक्तिपरक काटि/ विभक्तिपरक सवग
— ending	विभक्ति प्रत्यय
— language (=inflective language)	विभक्तिप्रधान भाषा/ रिष्ट योगात्मक भाषा
inflexible	अव्यय/अविवारी
informant	सूचक
information theory	अवगम सिद्धांत
ingressive air stream	अतर्गामी वायुप्रवाह

ingressive aspect (=inceptive aspect)	आरम्भमाग पन/क्रिया- प्रारम्भ पक्ष
— click timbre	अतर्गामी क्लिक रणन
inhalation	प्रद्वसन/प्रश्वास
inharmonic theory	असनादी वाद
inherent feature	अपनिहित अभिलक्षण
— vowel	अतर्निर्गत स्वर
initial	आद्य/आदि
— accent	आन् आघात
— glide (=on glide)	पूवधुनि/आद्य विसप
— inflection	आन् विभक्ति
— mutation	आद्य उत्परिवर्तन
— stress	आद्य बलाघात
initiating structure	प्रारम्भक निकोच
initiator	प्रारम्भक
injective	अत क्षेपक
injunctive mood	विधि/विधयथक (वृत्ति)
innate stress	सहज बलाघात
inner censorship	आंतर अवष्टम्भन
— form	जातर रूप
innervation	तन्निवाप्रेरण
innovation	नवप्रवर्तन
inorganic language	निरवयव भाषा
input string	निविष्ट माला
inseparable	अपृथक्करणाय/अविच्छेद्य/ अविभाज्य
inserted clause	अतर्निविष्ट उपवाच्य/क्षिप्त वाच्य
inspiration	प्रद्वसन/उच्छ्वसन/ प्रश्वास/उच्छ्वास
instructive	see instrumental
instrument	उपकरण
instrumental (case)	करण (कारक)
— acoustic technique	यंत्रग्राह्य ध्वनिक प्रविधि

instrumental adverbial

interpreter

instrumental adverbial	करण क्रियाविशेषक
— articulatory technique	यत्रप्राह्य उच्चारण प्रविधि
— phone	यत्रप्राह्य स्वन
— phonetics (= experimental phonetics)	प्रयोगिक स्वनविज्ञान
— segment	यत्रप्राह्य खण्ड
— syllable	यत्रप्राह्य अक्षर
instrumentative (= instrumental case)	करण कारक
— verb	उपकरणसौधक क्रिया
integration	एकीकरण/समानरुतन
intension (intention)	इच्छा/अभिप्राय/आशय
intensional meaning (= intentional meaning)	इच्छा/मन्युक्तय
intensity (of sound)	(स्वन) तीव्रता
— accent	see stress
— representation	तीव्रता निरूपण
intensive (= emphatic)	अवधारक/भारवाचक
— aspect	अवधारण पक्ष/भूभाव पक्ष
— compound	अवधारक समास/ अतिवाचन समास
— pronoun	अवधारक गवताम
intentional meaning	इच्छा/संपूर्णकार्य
— sign	अभिप्रेत चिह्न
intercartilaginous glottis	अंतरोष्णाम्बि रनासद्वार
intercepted	अत खंडित
intercostal muscle	अंतराषसूत्र पानी
inter-dental	अनर्दतीय/अतर्दत्य
interdialectal (loan)	अंतरभाषिका (आगत गद्य)

interinanimation	जयोय व्याप्ति/परस्पर व्याप्ति
interior (= internal)	आन्तर
interjection	विस्मयादिवोधक
interjectional phrase	विस्मयादिवोधक पदत्रय
— theory	विस्मयादि वाद
interlanguage	अंतराष्ट्रीय भाषा
interlingua	इन्टरलिगुआ
interlinguistic (loan)	अंतराभाषा (आगत गद्य)
interlinguistics	अंतराभाषाविज्ञान
interlude	मध्य
intermembranous glottis	अंतरावला श्वासद्वार
intermittent stop	अंतरायिक स्पर्श
internal change	आन्तर परिवर्तन
— distribution class	आन्तर वितरण-वर्ग
— effort	आन्तर प्रयत्न
— flexion	आन्तर विभक्ति
— grammar	आन्तर व्याकरण
— hiatus	आन्तर विभक्ति
— meaning	निर्दिनाय
— open juncture	आन्तर अवग्रह/आन्तर विप्रकृष्ट महिता
— pause	आन्तर विराम
— reconstruction	आन्तर पुनर्रचना
— sandhi	आन्तर संधि
International Phonetic Alphabet (I P A)	इटरनशनल फोनटिक एल्फाबेट/अंतराष्ट्रीय स्वन-वर्णमाला
interpretant	प्रत्ययायक
interpretation	निर्वाचन/व्याख्या
interpreter	1 व्याख्याता 2 दुभाषी/दुभाषिया (हिन्दी)

interrogation	प्रश्न	inversion	प्रतिलोम क्रम/क्रम विपथय
—, mark of	प्रश्नचिह्न	inverted commas	उद्धरण चिह्न
interrogative	प्रश्नवाचक	— sound	(see retroflex)
— pronoun	प्रश्नवाचक सप्रनाम	— speech	विपरीत भाषण/विपरीत लक्षणा
— sentence	प्रश्नवाचक वाक्य	involution	जटिल वाक्य संरचना
— substitute	प्रश्नवाचक पद	irony	व्यंग्य/व्यंग्योक्ति
interrupted slur exercise	अनुराधिक विच्छलन अभ्यास	irregular alternant	अनियमित परिवर्त/ अनियमित विकल्प
interruption	अंतराय/अंतरायण	— form class	अनियमित रूप वर्ग
intersection of phonemes	स्वनिम-प्रतिच्छेदन	— sandhi	अनियमित संधि
intersensorial transfer	अंतरासंवेदना अंतरण	— verb	अनियमित क्रिया
intersentential linkage	अंतरवाक्य संलग्न	irrelevant (= non distinctive)	अपरिच्छेदक
intersyllabic	अंतराक्षरिक	irreversibility (of coa- lescence)	(संधि) अनुत्तमणीयता
intervocal (=inter- vocalic)	अंतरास्वर/स्वर-मध्य	irritant	उत्तेजक
intimate borrowing	सनिवृष्ट आदान	isogloss	समभाषा सीमारेखा
intonation (=tonality)	अनुतान	isoglottic line	समभाषा सीमारेखा
intonational	युवागात्मक/अनुतानिक	(=isograph/isogloss)	
— contour	अनुतानिक परिरेखा	isograph (=isoglottic line/isogloss)	समभाषा सीमारेखा
— prosodeme	अनुतान-रूपगुणिम	isolability (of words)	(शब्दांश) पाथक्यक्षमता/ विलग्नक्षमता
intonation break	अनुतान विच्छेद	isolated opposition	एकल प्रतियोपपन्न विरोध
intransitive verb	अकर्मक क्रिया	isolating language	अयोगात्मक भाषा
intrasentential linkage	अंतर्वाक्य संलग्न	isolation	वियोजन/पाथक्य
intrasyllabic	अंतर्वाक्षरिक	isolationism	वियोजकता
intrasystemic	व्यवस्थागत	isolexic line	समाह्व सीमारेखा
intrusive	अंतर्वधी	isomorph	समरूप-सीमारेखा
invariable	अविचारी/अव्यय	isophononic line	समस्वन सीमारेखा
— alternation	अविचारी परिवर्तन	isosemantic class	समानार्थक वर्ग
invention (of lingu- istic form)	निर्माण	isosyntagmic line	समवाक्य सीमारेखा
inverse order (=inver- sion)	प्रतिलोम क्रम/क्रम विपथय		

isotone

kernel sentence

isotone	समतान	iterative aspect	पीन पुण्य पक्ष
isotonic line	समतान-भीमारेखा	— compound	आघट्टिव समास
isotype	समप्ररूप	— numeral	गुणात्मक मर्यादाचक/ गुणन मर्यादाचक
isthmus faucium	गलतोरणिका सन्निपत्य	(=multiplicative numeral)	
iterative articulation	पीन पुण्य उच्चारण		

J

janming	मध्य व्यञ्जनलान	jussive mood	जानायक/जानायक वृत्ति
janus like	द्विमुखी	— subjunctive	जानायक सम्भावनायक
jargon	वृत्तिभाषा	juxtaposed compound	सन्निहित समास
jaw	हनु	juxtaposing language (=prefix agglutinating language)	पूरप्रत्यययोजक भाषा
—, lower	निम्न हनु	juxtaposition	सन्निहित/आसत्ति
—, upper	ऊपर हनु	juxtapositional	सन्निहित
journalese	जखवारी भाषा/पत्रकार शैली	—assimilation (=contiguous assimilation)	1 सन्निहित समीकरण/ जखरहित समीकरण 2 सन्निहित समीकरण/ जखरहित समीकरण
junction	उद्देश्य यरघ		
junction	सहिता		
junggrammatiker	युगप्रामाणिकेय/नव्य वैयाकरण		

K

kaleidoscopic (subject matter)	बहुपददर्शी (विषय वस्तु)	katakana	वातावरणा
kana	काना	kernel	मूल/आधार
kana majari	काना मा-भीरी	— sentence	मूल वाक्य/आधार वाक्य

key	1 सूचक	kinetic consonant	स्पर्श
— word	2 मूलशब्द/धात्वश	(= stop)	
kinæsthetic	सूचक शब्द/कुचिवा शब्द	kinship terms	बधुतावाची शब्दावली
kinemics (also kineses)	गतिवाचक	kymogram	तरंग लेख/काइमाग्राफ
	गतिचित्रविज्ञान	kymograph	तरंगग्राह/काइमाग्राफ
		kymography	तरंगलेखन

L

'l', clear	अग्र 'ल'	laminal	जिह्वोपाग्रीय
'l', dark	पश्च 'ल'	lamina spiralis	सपिल फलक
labial	ओष्ठ्य	language	भाषा
—click	ओष्ठ्य क्लिक	—, adstratum	निकटतल भाषा
labialization	ओष्ठ्यरजन	—, affixing	प्रत्ययप्रधान भाषा
labialized	ओष्ठ्यगजित	—, agglomerating	समावेशक भाषा
—vowel	ओष्ठ्यरजित स्वर,	(= incorporating	(प्रस्फुट यागात्मक
labio dental	दंताष्ठ्य	language)	भाषा)
— - palatal	ओष्ठ ताल्य	—, agglutinative	योगात्मक भाषा
— - palatalization	जाष्ठ ताल्यरजन	(= agglutinating	
— - palatalized	जोष्ठ तात्र्यरजित	language)	
— - velar	1 ओष्ठ मृदुताल्ध्य	—, amalgamating	सलयत्मक भाषा
	2 कठोष्ठ्य	—, analytic	विच्छेपणात्मक भाषा
— - velarization	कठोष्ठ्यरजन	—, artificial	कृत्रिम भाषा/कल्पित भाषा
laboratory phonetics	प्रायोगिक स्वनियान	—, atomic (= radical	मूलज भाषा
(= experimental		language)	
phonetics)		—, auditory	श्रव्य भाषा
lag (=regressive	1 पद्व समोभवन	—, cantum	वेन्तुम् भाषा
assimilation)	2 पद्व समोकरण	language, child	बाल भाषा
lalling (=baby talk)	गिगु शली	—, classificatory	व्यवहारी भाषा

language, colonizing

language, colonizing	स्वामिभाषा/विजेता भाषा
—, common	सामान्य भाषा
—, constructed	कृत्रिम भाषा/रचित भाषा
—, creolized	त्रिओलित भाषा
—, cultural	साम्प्रतिक भाषा
—, dead	मृत भाषा
—, flecional (=inflectional language)	विभक्तिप्रधान भाषा
—, formal	1 औपचारिक भाषा 2 स्थापनात्मक भाषा
—, formless	अरूपात्मक भाषा
—, genderless	लिंगरहित भाषा
—, gesture	अंगविक्षेप भाषा
—, hybrid	संकर भाषा
—, holophrastic	बहुसंज्ञकेषणात्मक भाषा/ प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा
—, incapsulating (=polysynthetic language)	बहुसंज्ञकेषणात्मक भाषा
—, incorporating	समावेशक भाषा/प्रश्लिष्ट योगात्मक
—, inflectional (=inflective language)	विभक्ति प्रधान भाषा/ श्लिष्ट योगात्मक भाषा
—, isolating	अयोगात्मक भाषा
—, juxtaposing (=prefix agglutina ting language)	पूर्वप्रत्यययोजक भाषा
—, link	संपर्क भाषा
—, literary	साहित्यिक भाषा/शाब्दिक भाषा (तलुगु)/साधु भाषा (बंगला)
—, liturgical	धर्म कर्म भाषा
—, living	जीवित भाषा
—, lower	प्रभावित भाषा

language, upper

language, make shift	1 संपर्क जवभाषा (=contact vernacular) 2 संपर्क भाषा
—, mixed	मिश्र भाषा/संकर भाषा
—, monosyllabic	एकशब्द भाषा
—, native	देशीय भाषा
—, nominal (=noun language)	नाम भाषा
—, non deriving	जव्युत्पादी भाषा
—, noun (=nominal language)	नाम भाषा
—, nursery	बाल-भाषा
—, official	राजभाषा
—, parent	उद्गम भाषा
—, peripheral	परिधीय भाषा
—, polysynthetic	बहुसंज्ञकेषणात्मक भाषा
—, polytomic (=tone language)	तान भाषा/बहुतान भाषा
—, primary	भाषा/बाल भाषा (मराठी)
—, primitive	आदिम भाषा
—, radical (=atomic language)	मूलक भाषा
—, related	संबन्धित भाषा
—, satem	'गवम्' भाषा
—, secondary	1 लिखित भाषा 2 सन्तुति भाषा
—, sign	संकेत भाषा
—, standard	मानक भाषा
—, suffixing (=suffix- agglutinating langu age)	परप्रत्ययसंज्ञक भाषा
—, synthetic	संज्ञकेषणात्मक भाषा
—, tone	तान भाषा
—, upper (=domi nant language)	प्रभावी भाषा

language, verb

language, verb

— boundary

— circuit

— context

— family

— shift

— system

— transaction

(= language communication)

— universal

lapse

laryngeal (also

laryngal)

laryngealization

laryngealized vowel

laryngitis

laryngoscope

larynx

— tracing

latent comparison

— schwa

lateral

— area (= marginal area)

— contraction

— cricoarytenoid muscle

— incisor line

Law of Distribution

Law of Specialization

lex (= lemma/loose)

— vowel

layer

त्रियाप्रधान भाषा/त्रिया
भाषा

भाषा सीमा

भाषा-परिपथ

भाषा-सदम

भाषा कुल/भाषा परिवार

भाषा परिवृत्ति

भाषा व्यवस्था

भाषा व्यवहार/वाच्यव्यवहार

(= language communication)

सर्वभाषिक लक्षण

स्वरान्न

वाक्लौय

वाक्स्वरान्न

वाक्स्वरजित स्वर

स्वरयत्नशोथ

वाक्स्वरदर्शी/लरिंगास्कोप

वाक्ल/स्वरयत्न

वाक्लौय अनुरक्षण

प्रच्छन्न तुम्हना

प्रच्छन्न श्वा

पार्श्विक

पार्श्विक क्षेत्र

पार्श्विक संकायन

पार्श्विक मुद्रिका दर्शिका

पसी

पार्श्विक कृत्तक रेखा

वितरण नियम

विनिष्टीकरण नियम

शिथिल

शिथिल स्वर

स्तर

layer of structure

learned word

legisign

leitmotive (= leit motif)

le language

le langue

length

lengthening

—, compensatory

lems (= lax/loose)

lenition

lento form

L parole

letter

levant stress

level diphthong

— stress

— tone system

lexeme

lexemic category

lexical

lexical category

— form

— hierarchy

lexicalize

lexical meaning

— morphology

— polarization

— pronunciation

lexicography

lexicology

lexicon (= dictionary)

सरचना स्तर

शिष्ट शब्द

सामाय मनेन

आवर्ती विचार

वाक्/वाणी/ल लागाऊ

नापा

दीघता

दीधीकरण

प्रतिपूरक दीधीकरण

शिथिल

शिथिलीकरण/शिथिलन

मौखिकारित रूप

वाक्

वण

जारीही बलाघात

सम सज्यक्षर

सम बलाघात

समतान व्यवस्था

शब्दिक

शब्दिक श्रेणी

1 शब्दिक

2 श्रेणीगत

शब्द श्रेणी

1 शब्द रूप

2 श्रेणीगत रूप

गद्यगत अधिनियम

काशबद्ध बनना (हिंदी)

गार्श्विक अर्थ

गद्यगत रूपप्रतिया

बोध्यगत ध्रुवण

बोध्यगत उच्चारण

शब्दकोशविज्ञान/काशविज्ञान

शब्दव्यवस्था

शब्दकोश

lexico statistical dating

lexico-statistical dating	सांख्यिकीय भाषा-काल-निर्धारण
has on	संघि
ligament cricothyroid	स्नायु मुद्रिकावट्ट
light syllable	क्षीणाक्षर
— vowel	क्षीण स्वर
limitative	सीमाकारी
limiting adjective	सीमाकारी विशेषण
linear	रैखिक/रेखीय
— phoneme	रैखिक स्वरनिभ
(=segmental phoneme)	
— representation	रैखिक निरूपण
— writing	रैखिक लेखन
lingo (=jargon)	वृत्ति भाषा
lingua franca	1 संपर्क अवभाषा
(=contact vernacular)	2 संपर्क भाषा
lingual	1 जिह्वीय
	2 (retroflex) प्रतिवर्षित/मूध्य
— movement	जिह्वा चञ्चलन
linguist	1 भाषाविज्ञानी
	2 बहुभाषाविद्
linguistic	1 भाषाविज्ञानसंबन्धी
	2 भाषाई/भाषिक/भाषा-संबन्धी
— adult	भाषा वयस्क
— analysis	भाषा वि-पण
— area	भाषा-क्षेत्र
— atlas	भाषा-मानचित्रावली/भाषा एटलस
— borrowing	भाषाई आगमन
— comparison	भाषाई तुलना
— cartography	भाषा-मानचित्राग

linguistics, contrastive

— conservatism	भाषाई अपरिवर्तनशीलता
— democratization	भाषाई लोकिकीकरण
— family	भाषा-कुल भाषा परिवार
— field	भाषा क्षेत्र
— form	भाषागत रूप/भाषाई रूप
— geography	भाषा भूगोल
linguistician (=linguist)	भाषाविज्ञानी
linguistic innovation	भाषा नवप्रयत्न
— majority	भाषाई बहुमत
— map	भाषा मानचित्र
— meaning	भाषात्रिपयक अथ भाषाई अर्थ/भाषिक अर्थ
— minority	भाषाई अल्पमत
— nihilism	भाषाई नास्तिवाद
— ontogeny	भाषात्रिपयक व्यक्तित्वन
— paleontology	भाषात्रिपयक प्र-निष्ठा
— phylogeny	ऐतिहासिक भाषाविज्ञान
(=historical linguistics)	
— prehistory	भाषा प्रागितिहास
— psychology	भाषा मनोविज्ञान
— ratio	भाषागत अनुपात
linguistics	भाषाविज्ञान
—, anthropological	मानवविज्ञानाश्रित भाषा विज्ञान
—, applied	अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान
—, areal (=linguistic geography)	क्षेत्रीय भाषाविज्ञान/भाषा भूगोल
linguistic science	भाषाविज्ञान
linguistics, comparative	तुलनात्मक भाषाविज्ञान
—, contrastive	तात्पर्यगत पर भाषा विज्ञान अन्तर्गत भाषा विज्ञान

linguistics, descriptive

linguistics, descriptive	वर्णनात्मक भाषाविज्ञान
—, diachronic	कालक्रमिक भाषाविज्ञान
—, evolutionary	विकासक्रमिक भाषाविज्ञान
—, functional	प्रकार्यात्मक भाषाविज्ञान
—, general	सामान्य भाषाविज्ञान
—, historical	ऐतिहासिक भाषाविज्ञान
—, mathematical	गणितीय भाषाविज्ञान
—, predictive	प्रागुदितपरक भाषाविज्ञान
—, prospective	भावीवालापेक्षी भाषा- विज्ञान/भविष्यत्पक्षी भाषाविज्ञान
—, retrospective	भूतलक्षी भाषाविज्ञान
—, static	स्थैतिक भाषाविज्ञान
—, statistical	सांख्यिकीय भाषाविज्ञान
—, structural	संरचनात्मक भाषाविज्ञान
—, synchronic	एककालिक भाषाविज्ञान
Linguistic stock	भाषा समुदाय
— stratum	भाषा-तल
— substratum	भाषा-अधस्तल
— therapy	वाक् चिकित्सा
— typology	भाषा प्ररूपविज्ञान
linguo	जिह्वीय
linkage, syntactical	वाक्यात्मक सहलग्नता
linking	सहलग्न
— verb	संयोजक क्रिया
link language	नयक भाषा
— verb	नयोजक क्रिया
— word (=conjunc- tion)	समुच्चयसंयोजक
lip (=lips)	ओष्ठ
—, lower	अधरोष्ठ
—, upper	उच्च ओष्ठ
— retraction (=lip spreading)	जोष्ट प्रस्तार

lip rounding	ओष्ठ-वतुलन
— —, close	सन्नतोष्ठ वतुलन
— —, open	विवृतोष्ठ वतुलन
liquid	तरल स्वन
lispng	तुत्तल/तुत्तलाना (हिंदी)
list frequency	सूचीगत आवृत्ति/सूची वारवारता
literal translation	शब्दानुवाद
literary language	साहित्यिक भाषा/प्रायिक भाषा (तेलुगु)/साधु भाषा (बंगला)
— standard	साहित्यिक मानक
lterurgical language	धर्म कर्म भाषा
literate	साक्षर
litotes	संनिषेध मङ्गनोक्ति
living grammar	जीवित व्याकरण
— language	जीवित भाषा
— word	जीवित शब्द
loan blend	आगत मिश्र शब्द
— shift	आगत अर्थ-परिवर्ति
— translation	आगत अनुवाद
(= translation loan word)	
— word	आगत शब्द
local dialect	स्थानीय बोली
— fraction	स्थानीय घण
localism	स्थानीयता
local strictare	स्थानीय निकोच
locative case	अधिकरण-कारक
— clause	अधिकरण उपवाक्य
— particule	अधिकरण निपात
locution	1 वागण 2 वाचिज्ञेय
logical grammer	सांख्यिक व्याकरण
— order	तकमगत क्रम

— syntax	ताकिक वाक्यविन्यास
logico grammatical parallelism	तक व्याकरण मनादिता
logistic language	ताकिक भाषा
logograph	शब्दलेख
logogram	शब्द चिह्न/लोगोग्राम
logography	शब्दचिह्न-लेखन/ लोगोग्राफी
logophobia	शब्द भीति
logo-syllabic writing	शब्दाक्षरिक लेखन
long component	दीघ घटक
— quantity	दीघ मात्रा/दीघ परिणाम
— segment	दीघ खण्ड
— vowel	दीघ स्वर
loose contact	शिथिल संपर्क
— nexus	शिथिल मन्ध
— sentence	पुनःप्रधान वाक्य

loss	ला
loss of accent	आघात लोप
— — gemination	द्विव लोप
loud	प्रबल शब्द
loudness	प्रबलता
loud stress	प्रबल शब्द
long	लम्ब
longer year	60/1983
lower jaw	निम्न हनु
— language	प्रभावित भाषा
— lip	अधरोष्ठ
low level pitch	निम्न (स्तर) स्वरघात
— tone	निम्न तान
— vowel	निम्न स्वर
lungs	फुफ्फुस/श्वामकोश/फेफड़े (हिंदी)

M

machine translation	यात्रिक अनुवाद/मशीनी अनुवाद
macrolinguistics	बृहत्भाषाविज्ञान
macron	दीर्घनाचिह्न/मर्चॉन
macro phoneme	बृहत्तन्मन्ध
macro-syllable	बृहत्तन्परिच्छेद/बृहत्तन्खण्ड
macro-structure	बृहत्तन्बन्ध
major sentence	सर्वांग वाक्य
— set	संबन्धित समुच्चय

makeshift language	1 मन्ध अवभाषा (=contact vernacular) 2 मन्ध भाषा
malapropism	दुःप्रयोग
male sex	पुंलिंग
malformation	अपरचना
mandible (= lower jaw)	अधोहनु
manifested	अभिव्यक्त
manifesting	अभिव्यक्त
manner of articulation	प्रणय
— — pronunciation	उच्चारण गति

marginal area (=lateral area)	पार्श्विक क्षेत्र/सीमांत क्षेत्र	—, contextual (=applied meaning)	सावभिक अर्थ/अनुप्रयुक्त अर्थ
margin of security	पट्टितन सीमा	—, emotive	भाववाचक
mark	1 चिह्न 2 लक्षण	—, figurative	लाभणिक अर्थ/लक्षणा
marked	1 चिह्नित 2 अभिहित/लक्षणावित	—, general	सामान्य अर्थ
— feature	अभिहित लक्षण	—, lexical	शाब्दिक अर्थ
— member	लक्षणावित घटक	—, metaphoric	लाक्षणिक अर्थ
marker	चिह्नक	—, narrowed	सकुचित अर्थ
mark of correlation	सहसंबंध	—, occasional	प्रासंगिक अर्थ
— — interrogation	प्रश्नचिह्न	—, structural	रचनात्मक अर्थ
masseter muscle	चबणिया पेशी	—, transferred	सूत्रमित अर्थ/लक्ष्याय
mass noun (=uncountable noun)	रागिवाचक सज्ञा/सहति- वाचक सना	—, widened	विस्तृत अर्थ
— word	राशिवाचक शब्द/महति- वाचक शब्द	measurement of time measuring (meaning) (=semantic measurment)	काल मापन अर्थ मापन
material content	सार	mechanism	1 त्रिधाविधि 2 यत्न/जवयत्न
— formal analogy	प्रकृति रूप सादृश्य	mechanist	यद्यवादी
mathematical linguistics	गणितीय भाषाविज्ञान	medial	मध्य
matrix	आधात्री	— accent	मध्य आघात
— sentence	आधात्री वाक्य	— position	मध्य स्थान
maxillary	ऊर्ध्वहनु	median (sound)	1 मध्य (स्वरा) 2 अंत स्वर
— sinuses	ऊर्ध्वहनु विवर	mediated transfer (=relayed transfer)	व्यवहित अंतरण
maximal	उच्चतम/मैकिगमल	mediative case (=instrumental case)	वरण कारक
maximum	महत्तम	medio lingual	मध्य जिह्वीय
meaning	1 अर्थ 2 विवक्षा	— - palatal	मध्य तालय
—, central (=essential meaning)	मुख्यार्थ	— - passive voice	भाववाच्य
—, class	वर्ग	medio velar	मध्य कठम
		medium stress	मध्यम घण्टाघात

melioration	1 अर्धोत्पन्न 2 अर्धोत्पन्न परप्रत्यय विधान	mid	मध्य
meliorative	अर्धोत्पन्न	middle verb	आत्मनपदी निया
— suffix	अर्धोत्पन्न परप्रत्यय	— voice	भाववाच्य
melody	सुस्वरता	mid level pitch	मध्य स्तर स्वरघात
member	सदस्य/घटक	— - palatal	मध्य तालस्थ
membrane of Reissner	राइसनेर कला	— vowel	मध्य स्वर
membranous canal	कला नलिका	mimetic word	अनुकरण शब्द
mental chemistry	मनोरसायन	mimicking (= mimicry)	अनुकरण
mentalis muscle	अधर उन्मनिका पक्षी	mimic musculature	पक्षी समूह
mentalist	मनोवादी	mnemonic	जल्पन/यूनतम
merger	विलयन	— contrast	अल्पतम वैषम्य/यूनतम वैषम्य
metalanguage	निरूपक भाषा	— pair	अल्पतम युग्म/यूनतम युग्म
metalepsis	लाक्षणिक प्रयोग	minimally contrasted pair	अल्पतम विपम युग्म
metalinguistics	इतरविषयी भाषाविज्ञान	minimum	यूनतम
metanalysis	पूर्वोत्तर विश्लेषण	— free form	यूनतम स्वतंत्र रूप
metaphony	अव्युत्ति	minor sentence	युनाग वाक्य/अल्पाग वाक्य/असंपूर्ण वाक्य
metaphor	रूपक	— set	अल्पव्याप्त समुच्चय
metaphoric meaning	लाक्षणिक अर्थ	minuent	अवरोही
metaphrase	यथाशब्द भाषांतर	minus feature	वर्णनाप
metaphysical language	तात्त्विक भाषा/सूक्ष्म भाषा	mispronunciation	अशुद्धोच्चारण
metaplasm	शब्द निरूपण	mixed conjugation	मिश्र त्रियाह्व
metasemantic evolutive	अवपरिवर्तन का विवात	— declension	मिश्र शब्दरूप
— substitutive	अवपरिवर्तन का आदेश	— language	मिश्र भाषा/संकर भाषा
metathesis	विपयास/विषय/व्यत्यास	— relational concept	मिश्रत संघातक मवल्लना
metecemic	अवारोप	— — deriving language	मिश्रित शब्दा नव व्युत्पादी भाषा
metonymy	1 उपरूपण 2 शब्दादेश	— — nonderiving language	मिश्रित संघातक ज्युत्पादी भाषा
metonymic	मातृपक्षीय नाम	mobile articulator	गतिशील वर्ण
microlinguistics	सूक्ष्म भाषाविज्ञान	— shwa	चर श्वा
micro phoneme	सूक्ष्म स्वनिम		
micron	ह्रस्व चिह्न		
microsegment	सूक्ष्म परिच्छेद		

modal auxiliary verb	वृत्तिवाचक सहायक क्रिया	mood	वृत्ति/अव
modality	प्रकारता	—, cohortative	उद्बोधक वृत्ति
mode of speech	वाग्नेति/बोलेन वा ङम (हि दी)	—, conditional	हुतुमत् वृत्ति
modification	विवृति	—, energetic	अवधारणबोधक वृत्ति (see emphatic mood)
modifier	विशेषक	—, exhortive	उत्बोधक वृत्ति (=exhortative mood)
modulation	बलाघात परिवर्तन/ भ्रवाघात परिवर्तन	—, fact	निश्चयाथ वृत्ति (see indicative mood)
modulus category	परिवर्तन कोटि	—, finite	1 पुरुषनिमित्त वृत्ति 2 विधेय वृत्ति
molar line	चक्रात् रेखा	—, hortatory	उद्बोधक वृत्ति (=cohortative mood)
molecule	अणु	—, imperative	आज्ञायक/आज्ञापक वृत्ति
momentary aspect	क्षणिक पक्ष	—, impersonal	भावार्थक वृत्ति
mongrel word	मकर शब्द	—, indicative	निश्चयाथक वृत्ति
monitoring	मानीटर करना	—, infinite	1 अनिमित्त वृत्ति 2 अधिवेय वृत्ति
monogenesis of speech	एकोत्पत्ति सिद्धांत	—, jussive	आज्ञायक/आज्ञापक वृत्ति
— theory	एकोपनिवाद	—, non committal	अनिबद्ध वृत्ति
monoglot	एकभाषी	—, optative	इच्छायक वृत्ति
monolingual	एकभाषी	—, permissive	अनुज्ञापक वृत्ति
monomorphemic	एकरूपिमिक	—, potential	विशेषक वृत्ति
monomorphous	एकरूपार्थक	—, precative	अनुनय वृत्ति
monopersonal verb	एकपुहयक क्रिया	—, thought	समावनायक/समावनाथक (=subjunctive mood) वृत्ति
monophone	एकस्वन	—, will	आज्ञायक/आज्ञापक वृत्ति (=imp rative mood)
monophonematic	एक इनिमिक	mora	मात्रा
monophthong	एकस्वरक	morph	रूप
monophthongization	एकस्वरोत्करण	morpheme	रूपिम
monosemantic word	एकार्थक पद	— alternant	(see allomorph)
monosemy	एकार्थता	— class	रूपिम-वर्ग
monosyllabic language	एकान्तर भाषा		
monosyllabism	एकान्तरता		
monosyllable	एकान्तर		
monotone speech	एक गान भाषा		
monotony test	एकगान परीक्षण		
monumental writing	द्वन्द्वीय लेखन		

morpheme sequence	रूपिम अनुक्रम
— unit	रूपिम एकक
— word	रूपिम शब्द
morphemic	रूपिमिक
morphemically conditioned alternation	रूपिमाश्रित परिवर्तन/ रूपिमाश्रित विकल्पन
morphemics	रूपिमविज्ञान
morphographemic rule	रूपलेखिम नियम
morpholexical	रूपशब्द-
morphological accent	शब्दरूपात्मक आघात
— assimilation	1 रूपप्रक्रियात्मक समी भवन/रूपगत समीभवन 2 रूपप्रक्रियात्मक समी करण/रूपगत समीकरण
— doublets	रूप-युग्म
— extension	रूपात्मक विस्तरण
— form class	शब्दगत रूपवर्ग
— marking	रूपप्रक्रियात्मक चिह्नन
— process	शब्दरूपात्मक प्रक्रिया
— structure	रूपप्रक्रियात्मक संरचना
— word	रूपप्रक्रियात्मक शब्द
morphologic construction	शब्दगत रचना
— sandhi (= internal sandhi)	आन्तरिक संधि
morphology	शब्दरूपप्रक्रिया/रूपप्रक्रिया
morphom	sec morpheme
morphomatics	sec morphemics
morphonemic	रूपस्वनिमिक
morphophonemic writing	रूपस्वनिमिक लेखन
morphophoneme	रूपस्वनिम
morphophonology	रूपस्वनिमप्रक्रिया

morphophonemics	रूपस्वानिमिकी/रूपस्वनिम विज्ञान
morpho semantic (field)	रूप शब्दावय (क्षेत्र)
morphoseme (or linguistic centre or linguo centre)	रूपावयसमम
morphotonemics	रूपतानिमविज्ञान
mother tongue	मातृभाषा
motion	गति
motivated word	अभिप्रेरित शब्द
motivation	अभिप्रेरण
motor context	प्रेरक प्रसंग
— nerve	प्रेरक तंत्रिका
— phonetics	गनिक स्वनिविज्ञान
mouth tracing	मुख आरेखण
mucous membrane	श्लेष्मल कला
muffled vowel	अवरुद्ध स्वर
multilateral opposition	बहुविध प्रतियोग/बहुविध विरोध
multilingual (= plurilingual/ polylingual)	बहुभाषी
multilingualism	बहुभाषिता
multilingualist	बहुभाषाभाषी
multilateral transcrip- tion	बहुवर्णितमक लिखन
multiple complementa- tion	बहुविध पूरण
— meaning	बहुवचन/बहु-अर्थ
multiplicative numeral	गुणन सख्यावाचक/गुणा- त्मक सख्यावाचक
multisyllable (= polysyllable)	बहु-अक्षर

murmur	ममर	mute (plosive/ explosive/occlusive/ stop)	स्पश
murmured vowel	ममर स्वर	mutual intelligibility	पारस्परिक बोधगम्यता
musical accent (=pitch accent/tonic accent)	स्वराघात	mutually exclusive — inclusive	परस्पर व्यावृत्तक परस्पर अव्यावृत्तक
mutation	1 विभार 2 उत्परिवर्तन	mylohyoid muscle	चिबुक कठिका मेशी
mutative	विभारमूचक कारक		

N

name giving (= onoma thesia by transference)	नामकरण	nasal concha	नासा शुक्तिवा
— study	नामविज्ञान/नाम अध्ययन	nasalization	1 नासिकपरजन 2 अनुनासिक
— transfer (= transfer of name)	नामांतरण	nasal passage	नासा भाग
— word (= proper name)	व्यक्तिवाचक नाम	— plosion	नासिक स्फोटन
naming word	अभिधान शब्द	— tracing	नासिकयानुरक्षण
narrative sentence	विवरणात्मक वाक्य	— twang (= nasal vibration)	नासिकपरजन
narrowed meaning	संकुचित अर्थ	nasopharynx	नासाग्रसन्धि
narrowing	संकोचन	native language	देशीय भाषा
narrow static alterna- tion (= automatic alternation)	स्वाश्रित परिवर्तन/स्वाश्रित विकल्पन	— speaker	देशीय भाषा भाषी
— transcription	सूत्र लिप्यन्त	— word	देशीय शब्द
— vowel (= tense vowel)	दृढ स्वर	nativistic theory (Max Muller)	वागथवाद
nasal	नासिक	natural category	प्राकृतिक बोटि
— bone	नासास्थि	— gender	प्राकृतिक लिंग
— cavity	नासा विवर/नासा गुहिका	— — system	प्राकृतिक लिंग-व्यवस्था
		naturalist	जनियमवादी
		(= nominalist)	
		naturalized word	देशीय शब्द

near minimal pair

near minimal pair	अल्पदेशीय युग्म/युनकम्प युग्म
neatness of pattern, principle of	अभिरचना मोण्डव मिदाल
necessitative aspect (=obligatory aspect)	अवश्य पक्ष
need filling motive	अभावपूरन प्रयोजन
negative aspect	निषेध पक्ष
— conjugation	निषेधात्मक त्रियारूप
— conjunction	नास्तिवाचक समुच्चय बोधक/निषेधवाचक समुच्चयबोधक
— particule	निषेध निपात/नास्तिवाचक निपात
negligent assimilation	1 प्रमादज समीभवन 2 प्रमादज समीकरण
neogrammarian	नव्यवैयाकरण
neolinguist	नव्यभाषाविज्ञानी
neologism	1 नवनिमित्त शब्द 2 शब्दशब्द निर्माण/अभिप्राय प्रयोग
neophyte	नवशिष्य
neurologist	तन्त्रियाविज्ञानी/यूरोलॉजिस्ट
neuromuscular pattern	तन्त्रियापक्षीय अभिरचना
neuron	तन्त्रिया-कोशिका
neurosis mental	मानसिक विभक्ति
neuter	नयुनकत्व
neutralization	निर्वैषम्य/निदिपमीकरण
neutral verb	भाववाचक त्रिया
— vowel	उदासीन स्वर/उभयनिष्ठ स्वर
nen word	नवनिमित्त शब्द

non conclusive verb

nexus	1 (व्याकरण) विधेय संबध 2 (स्वनविज्ञान) मन्त्रध
—, close	दृढ संबध
—, loose	निमित्त संबध
non word	अस्तीत शब्द
noeme	सूचितिम/गोशिम
noise	रव
nomen actionis (=nomen acti)	भाव नाम
nomenclature	नाम पद्धति
nominal phrase	नामिन वाताघात/नाम विपयी वाताघात
— compound	नामिक समास
— definition	अभिधा परिभाषा
nominalist	नाममात्रवादी
nominalization	नामिणीकरण
nominal language (=noun language)	नामभाषा
— predicate attribute	नाम विधेय विशेषण
— sentence	नाम वाक्य
nominate	कर्ता/प्रथमा विभक्ति
— absolute	अद्वित कर्ता
non Aryan	आर्येतर
— aspirate	अल्पप्राण
— aspiration	अल्पप्राणत्व
— automatic alternation	परान्त परित्यज/परान्त विषम्य
nonce form	सद्य प्रयुक्त रूप/तात्कालिक रूप
— word	सद्य प्रयुक्त शब्द/तात्कालिक शब्द
non-committal mood	अनिश्चय बुधि
— -compound	अयमन्त्र
— conclusive verb	नामात शब्दानी त्रिया

non contiguous

notional category

— contiguous (= remote)	असंनहित/व्यवहित	non sentence	अवाक्य
— contrastive distribution	अद्विपम वितरण/वपरय रहित वितरण	nonsequitur	नानुमिति
— — — pair	अद्विपम युग्म	non significant	असाधक
— -deriving language	अव्युत्पादी भाषा	— -simulative language	अछदम भाषा
— distinctive	अपरिच्छेदक	— -speech environment	वागितर परिमर
— — — feature	अपरिच्छेदक अभिलक्षण	— — — sound	वागितर स्वन/ अव्यवत चार्
— final	अनतिम	— standard	मानकेतर
— finite verb	अविधेय क्रिया/पुण्य अनियत क्रिया	— suspicious pair	अयन्निध युग्म
— — — form	अविधेय क्रिया रूप/पुण्य अनियत क्रिया रूप	— -syllabic	अनाक्षरिक
non flap	अनुस्मित	— synaesthetic (group)	सहमवेदनाहीन (समूह)
— fluctuating suspicious pair	अनुच्चावच मदिध युग्म	— synonymic (association)	अपद्यिवाची (माहवय)
— -frictional	घषण रहित	— -systematic sign	अव्यवस्थित संकेत
— -intersection	अप्रतिच्छेद	— temporal tense	समयनिरपेक्ष काल
— linear	अरेखिक	— -verbal device	अवाचिक मुक्ति/रागात्मक मुक्ति
— -linguistic	भाषेतर	— -vocalid	स्वरेतर छत्रि/अस्वरक
— -minimal contrast	अल्पदेशीय वैपम्य/ यूनकल्प द्वैपम्य	norm	मानक/आदर्श
— — — pair	अल्पदेशीय युग्म/ यूनकल्प युग्म	normal articulation	सामान्य उच्चारण
— -nucleus	अकेन्द्रक	normalization	सामान्यीकरण
— -perceptible	अप्रत्यय	normal meaning	सामान्य अर्थ
— -phonemic stress	अन्वनिमित्तक बलापात	— quantity	सामान्य मात्रा/सामान्य परिणाम
— -prominent syllable	अप्रधान अक्षर	normative approach	मानकीय उपपम/आदर्शक उपपम
— -restrictive adjunct	अप्रतिबंधक विशेषक	— grammar	मानकीय व्याकरण/ आदर्शक व्याकरण
— root	धातुवितर	nostril	नासाद्धार
nonce formation	तात्कालिक रचना	notation	अंकन
nonsense form	अयहीन रूप	notional category	अभिप्रायात्मक बौद्धि
— syllable	अयगत अक्षर		
non-canonical sentence	निरपम्य वाक्य		

- noun
 —, abstract
 —, action
 —, agent
 —, collective
 —, common
 (= appellative noun)
 —, countable
 —, function
 —, gender
 —, genderless
 —, high caste
 (= caste noun)
 —, participial
 —, predicate
 —, proper
 —, propiote
 —, strong
 —, verbal
 —, weak
 —, mass (= uncountable noun)
 — base
 — equivalent

अभिप्रायात्मक परिभाषा/
 बोधात्मक परिभाषा

सज्ञा/नाम
 भाववाचक सज्ञा/
 भाववाचक नाम
 क्रियावाचक सज्ञा/
 क्रियावाचक नाम
 कृत् सज्ञा/साधक सज्ञा
 कृत् नाम/साधक नाम
 समुदायवाचक सज्ञा/
 समुदायवाचक नाम
 जातिवाचक सज्ञा/
 जातिवाचक नाम

मरयेय सज्ञा
 प्रकाय सज्ञा/प्रकाय नाम
 लिंग सज्ञा
 लिंगरहित सज्ञा
 महत्वाची सज्ञा/महत्वाची
 नाम (तलुगु)
 नियायक सज्ञा/क्रियायक
 नाम

विध्य सज्ञा/विध्य नाम
 व्यक्तिवाचक सज्ञा/
 व्यक्तिवाचक नाम
 वतिसूचक सज्ञा
 अनियमित सज्ञा
 क्रियायक सज्ञा/हृदय भाव-
 नाम

नियमित सज्ञा
 राशिवाचक सज्ञा/अपमय
 सज्ञा/सहतिवाचक सज्ञा
 प्रातिपदिक
 सज्ञा मन्-२२

— language

(= nominal language)

— of quality

nuance

nucleus

nuclear

nucleus ambiguous

number

—, collective

—, dual

—, generic

—, plural

—, quateral

—, singular

—, trial

— concord (= number agreement)

numeral

—, auxiliary

—, cardinal

—, distributive

—, iterative (= multi-
 pliative numeral)

—, multiplicative

—, ordinal

—, partitive

—, adjective

—, classifier

—, noun

—, pronoun

numerative compound

— classifier

नाम भाषा

गुणवाचक सज्ञा

अवच्छाया

केन्द्रक

केन्द्रीय

सद्विज्ञ केन्द्रक

वचन

समुदायवाचक वचन

द्विवचन

जातिवाचक वचन

बहुवचन

चतुर्वचन

एकवचन

विवचन

वचनानुविति

महारावाचक

सहायक मख्यावाचक

गणनामूलक मख्यावाचक

विचरक सख्यावाचक

गुणन सख्यावाचक/गुणात्मक

मख्यावाचक

गुणन मख्यावाचक/गुणात्मक

सख्यावाचक

प्रथमसूचक मख्यावाचक

त्रिभाजक सख्यावाचक

महारावाचक विद्यारण

मख्या वगव

मख्यावाचक सज्ञा

सख्यावाचक सज्ञान

द्विगु समाम

मख्या वगव

numerical metanalysis
numerical metanalysis
nutation

वचन पुनविभेदपण
नून-योजन (अरबी)

nursery form
— language

बालालाप
गिगु भाषा

O

object

—, direct

—, indirect

objectal

object expression

objectival

objective (= manifest)

— complement

object language

— of reference

— word

obligatory aspect

(= necessitative aspect)

oblique case

— question

obscene form

obscure vowel

observational

adequacy

obsolescent

obsolete

obstruant

वचन

उक्त वचन

अनुक्त वचन

वचन-संबन्धी

वचन अभिव्यक्ति

वचन-संबन्धी

अभिव्यक्त

पूरक वचन

वस्तुपरक भाषा

अनुक्त वचन

वस्तुपरक शब्द

आवरण पक्ष

1 इतर वारक

2 विकारी वारक/तियक्

वारक

वचन प्रश्न

अरलील रूप/अगिष्ट रूप

अस्पष्ट स्वर

प्रेक्षणमात्मक पर्याप्ति

लुप्तप्रायो मुख

लुप्त/अप्रचलित

स्वरा

obliteration

obviative

occasional meaning

— order

occlusive (= stop/

mute/plosive/

explosive)

off-glide

official language

ominous form

omission

omohyoid muscle

one diamentional

(vowel system)

on glide

onomancy

onomasiology

(= onomastics/

onomatology)

onomathesia

onomatopoeia

onomatopoeic theory

— word (onemato

poetic)

द्वितीय अनुपुण्य भेद

द्वितीय अनुपुण्य

प्रामाणिक अर्थ

प्रामाणिक शब्द

स्वरा

परशुनि

राजभाषा

अनुपुण्य रूप (शब्द)/अमंगल

रूप (गण)

स्वरा

असकटिका पत्ती

एक विम (स्वर-व्यवस्था)

पुनश्चुनि

अक्षर-शुद्धि

नाम-अव्ययन

नामकरण

अनुकरण शब्द रचना

अनुकरणवाद/अनुकरणवाद

अनुकरण शब्द/अनुकरण

शब्द

onset	प्रारम्भ	—, logical	लॉजिकल क्रम
orthogeny, linguistic	भारतीय संस्कृत संविधान	—, occasional	आवृत्त क्रम
ontological	महात्म्यात्मिक	—, oratorical	वाचनिक क्रम
open	खुला	—, psychological	मानसिक क्रम
—, half	आधा खुला	—, structural	मानसिक क्रम
opening	खुला	—, usual	सामान्य क्रम
open juncture	खुला	ordered	क्रमिक क्रम
— lip rounding	जुलाई, विनयक मन्त्र	ordering	क्रमिक
— syllable	खुला ट यन्त्र	order of words	क्रम
— transition	क्रम १ अ २	(= word order)	शब्द क्रम
— vowel	निर्दिष्ट मन्त्र	ordinal numeral	क्रमसूचक मन्त्रावली
operational approach	खुला संस्कृत	organ	अवयव
(= operationalism)	मन्त्रात्मक उपक्रम	organic	मातृका अवयवी
operator	1 प्रयोग	— language	मातृका भाषा
opposite	2 विना (Ullmann)	organ of Corti	कर्णिका
opposition	प्रतिपक्ष	orthoepic	शुद्ध उच्चारण
opprobrious name	प्रतिपक्ष, विना	orthoepist	शुद्ध उच्चारण
optative mood	मन्त्रोपयोग	orthocopy	शुद्ध उच्चारण-व्यवस्था
option	मन्त्रोपयोग	orthographic procedure	यन्त्रिक मातृका प्रविष्टि, वण
optional sandhi	मन्त्रोपयोग	orthography	संयम प्रविष्टि
— variant	विकल्प	orthophonic	1 वचनी
(= free variant)	अभिप्रेत मन्त्र/विकल्प मन्त्र	(= orthoepic)	2 शुद्ध-वचन
oral cavity	वचनिक मन्त्र	orthophony	शुद्ध उच्चारण
(= oral chamber)	मुद्रा संस्कार/मुद्रा मुद्रिका	oscillogram	दोलनचित्र/आसित्वाग्र
instruction	मौखिक विना	oscillograph	दोलनचित्र/आसित्वाग्र
oratorical order	वाचनिक क्रम	osseous cochlea	कर्णिका अस्थि
orbicularis oris	वक्त्र मन्त्रिका	outer form	बाह्य रूप
order	क्रम	output string	निर्गत माला
—, descriptive	व्यवनात्मक क्रम	overall pattern	संयममावेदी अभिरचना
—, emphatic	अवधारक क्रम	overcorrection	अतिशोधन श्रेय
—, grammatical	व्यवहारिक क्रम	(= hyper correction)	
—, habitual	स्वाभाविक क्रम	over differentiation	अतिशोधन
—, inverse	प्रतिलोम क्रम/क्रम विपर्यय		

overlapping

overlapping

— distribution
over long

- 1 (adj) अक्षपाती/अति
व्यापी
2 (n) अतिव्यापन
अक्षपाती वितरण
अति दीर्घ/प्लुत

overt

— category

overtone

oxytone

oxytone

प्रकट

प्रकट वाटि/प्रकट मवग

अतिम्बरव/अतितान

अतोदात्त

अतोदात्त

P

pair

—, analogous

(=subminimal pair)

—, contrastive

—, minimal

—, noncontrastive

—, nonsuspicious

—, subminimal

—, suspicious

palatal

—, medio

palatalization

palatalized

palatal law

— vowel

(=front vowel)

palate

—, false

(=artificial palate)

—, hard

—, soft

युग्म

अल्पदेशीय युग्म/यूनवन्ध

युग्म

द्विपम युग्म

अल्पतम युग्म/यूनतम युग्म

अद्विपम युग्म

अमदीर्घ युग्म

अल्पदेशीय युग्म/यूनवन्ध

युग्म

सदिग्ध युग्म

ताल य

मध्यताल य

ताल यरजन

ताल यरजित

ताल य नियम

अत्र स्वर

तालु

कृत्रिम तालु

बडोर तालु

मृदु तालु/कीमल तालु

palatine arch

palato alveolar

palatoglossal arch

(=palatine arch)

palatogram

palatography

paleography

paleontology, linguistic

(=linguistic

paleontology)

pan affective

panchronic

(=panchronistic)

panchronistic

approach

pandiachronic

(=pandiachronistic)

pansynchrone

(=pansynchronistic)

paradigm

paradigmatic

paradigm model

तालु चाप/तालु प्रदक्ष

तालु-वर्त्य

तालु चाप

तालुचित्र/तालुलेख

तालुलेखन

पुरालेखविद्या

भाषाविषयक प्रतलविद्या

सबप्रभावी

सावकालिक

सावकालिक उपगम

सबकालक्रमिक

सबसमकालिक

रूपावली

रूपावली मबधी

रूपावली प्रतिरूप

past participle	भूतकालिक कृदन्त विशेषण
— perfect	पूण भूत
— tense	भूतकाल
pathology, semantic	अवविकृति
—, verbal	शब्दविकृति
patois	जवभाषिका
patronymic	पैतृक नाम
pattern	अभिरचना
—, predominant	प्रधान अभिरचना
— congruity	अभिरचना अति
patterning	अभिरचन
patternment	अभिरचन
pattern sound	स्वरे phoneme
pause	विशाम
pause, external	बाह्य विराम
—, internal	आन्तरिक विराम
— pitch	विराम स्वराघात
peak, complex	समिश्र शिखर
—, simple	सरल शिखर
—, syllabic	अक्षर शिखर
pedagogical grammar	शिक्षण व्यकरण
pedigree theory	वशानुक्रमवाद
pejoration	अपकव
pejorative change	अपकवक परिवर्तन
— suffix	अपकवक परप्रत्यय
pendant	पुच्छ
penult	उपात्य/उपधा
penultimate	उपात्य/उपधा
perceptible	प्रत्यक्ष
perception	प्रत्यक्षण
preceptual phone	प्रत्यक्ष गहीत स्वन
— segment	प्रत्यक्ष गहीत खंड
— shift	प्रत्यक्ष अर्थ परिवर्तित
— syllable	प्रत्यक्ष गहीत अक्षर

percipient	परिग्राहक
percussion mechanism	आहनन यंत्र
percussive jumble	आहत रणन
— transition	आहत सक्रमण
percussor	आहनक
peregrinism (= foreignism)	विदेशी रूप
perfect infinitive	पूण भावायक मत्ता/पूण तुमथ
perfective aspect	पूणतावाची पक्ष
perfectivation	पूर्णाकरण
perfectum	पूणतावाची काल
performance	निष्पादन
pericardium	हृदयावरण/परिहृद
period	पूण विराम
periodic sentence	उत्तरप्रधान वाक्य
peripheral language	परिधीय भाषा
periphrasis	विस्तरण
periphrastic	1 विस्तरित 2 समुक्त
— conjugation	समुक्त नियामन
— declension	समुक्त मत्ताहप
— future	समुक्त भविष्य
— plural	समुक्त बहुवचन
— tense (= phrasal tense)	समुक्त काल
persuasive aspect	स्यायित्व पक्ष
— present	स्यायित्व वर्तमान
permissive mood	अनुनापक वृत्ति
person	पुरुष
person, first	उत्तम पुरुष/प्रथम पुरुष
—, second	मध्यम पुरुष
—, third	तृतीय पुरुष

personal affix	व्युत्पत्तिक अक्षर
personal affix	व्युत्पत्तिक अक्षर
— ending	व्युत्पत्तिक अक्षर
— infinitive	व्युत्पत्तिक अक्षर
person concord	व्युत्पत्तिक अक्षर
personal pronoun	व्युत्पत्तिक अक्षर
— suffix	व्युत्पत्तिक अक्षर
— verb	व्युत्पत्तिक अक्षर
perturbation of tonemic	स्वनिमिष
petitionary sentence	व्युत्पत्तिक अक्षर
petrograph	पत्थर लेखन
petrogram	पत्थर लेखन
phantom word	पत्थर लेखन
(= ghost word)	
pharyngeal (= also	
pharyngeal)	
— cavity	घण्टा
pharyngealization	घण्टा नुस्त्रिया
pharyngopalatine	घण्टा नुस्त्रिया
arch	घण्टा-नाडु वाग
pharynx	घण्टा
phase	प्रकृति
phatic communion	प्रार्थना
pbeme (= ec discent)	सांज्ञिक मन्त्र
phememe	श्रीम/स्त्रियति
phenomenological	विधायक
phenomenology	घटनाविज्ञान
phenomenon word	घटनाविज्ञान
phenotype	अव्ययि युलसक
philologist	नाम प्ररूप/दण्ड प्ररूप
philology	वाक्यशास्त्र
philosophical grammar	वाक्यशास्त्र
— semantics	वाक्यशास्त्र
phonaesthetic function	समाप व्याकरण द्वाारा सांज्ञिक गणनायिका/गणनायिका अक्षर अक्षर

phonation	स्वनिमिष	phonetic alphabet	1 स्वरालिपि
phonatory	स्वनिमिष	phonetic alphabet	2 स्वरालिपि
phone	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phonematic	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phonematic stamp	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phoneme	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
— assimilated	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
— assimilatory	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
bridge	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
extrasytematic	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
— linear (= sermen	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
ts' p' oneme)	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phoneme, segmental	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
— suprasegmental	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phonemically condi	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
tioned alternation	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phonemic alphabet	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
— analysis	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phonemicist	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phonemic phrase	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phonemics	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phonemic stress	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
— transcription	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phonesis	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phonetic	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
— evolution	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phonetically condi	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
tioned	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष
phonetic alphabet	स्वनिमिष	phonetic alphabet	स्वनिमिष

phonetic alternant

phonetic writin

phonetic alternant	स्वनिक परिवर्तन/स्वनिक विकरण	phonetics, auditory	श्रवणात्मक स्वनविज्ञान
— associative inter- ference	स्वन मत्कारी यतिकरण	—, diachronic	कालक्रमित स्वनविज्ञान
— change	स्वनिक परिवर्तन	—, experimental	प्रायोगिक स्वनविज्ञान
— —, dependent	सोपाधिक स्वनिक परिवर्तन/पराश्रित स्वनिक परिवर्तन	—, general	सामान्य स्वनविज्ञान
— —, gradual	क्रमिक स्वनिक परिवर्तन	—, genetic	जननिक स्वनविज्ञान (उच्चारणात्मक स्वन विज्ञान)
— —, independent	निर्वाधिक स्वनिक परिवर्तन/स्वाश्रित स्वनिक परिवर्तन	—, genemic (see acoustic phonetics)	जननोत्तर स्वनविज्ञान/ उच्चारणोत्तर स्वन- विज्ञान
— —, sudden	अक्रमिक स्वनिक परिवर्तन	—, historical	ऐतिहासिक स्वनविज्ञान
— complement	स्वन पूरक	—, instrumental (= experimental phonetics)	प्रायोगिक स्वनविज्ञान
— correspondence	स्वन मबादिता	—, laboratory	प्रायोगिक स्वनविज्ञान
— description	स्वनिक वर्णन	(= experimental phonetics)	
— element	स्वनिक तत्त्व	—, motor	गनिक स्वनविज्ञान
— etymologizing	स्वनिक व्युत्पत्ति निष्पादन	—, physical (= acoustic phonetics)	भौतिक स्वनविज्ञान
phonetic evolution	स्वनिक विकास	—, physiological (= articulatory phonetics)	उच्चारणात्मक स्वनविज्ञान
— expressiveness	स्वनिक अभिव्यञ्जना	—, synchronic	एककालिक स्वनविज्ञान
— fraction	स्वनिक प्रभाग	phonetic script	स्वन लिपि
— harmony	स्वन सगति	— similarity	स्वन मान्य
phonetician (= phone ticist)	स्वनविज्ञानी	— space	स्वनिक अवकाश
— indicator	स्वन-पूरक	— spelling	स्वनिक वर्तनी
phoneticization (pho netic transcription)	स्वनिक लिपिकन	— substitution	स्वनिक आश्रय/स्वनादा
phonetic law	स्वन नियम	— subterfuge	स्वनिक व्यपदेश
— modification	स्वन विवृति	— symbol	स्वन प्रतीक
— motivation	स्वन अभिप्रेरण	— system	स्वन व्यवस्था
— pattern	स्वनिक अभिरचना	— transcription	स्वनिक लिप्यवहन
phonetics	स्वनविज्ञान	— writing	स्वनिक लेखन
phonetics acoustic	भौतिक स्वनविज्ञान		
— articulatory	उच्चारणात्मक स्वनविज्ञान		

phonetic word	स्वनिक शब्द	pitch, fundamental	मूलभूत स्वरापात
phonetic word	स्वनिक	—, high level	उच्च (स्तर) स्वरापात
phonic	स्वनविधान	—, low level	निम्न (स्तर) स्वरापात
phonics	फोनोग्राम	—, mid level	मध्य (स्तर) स्वरापात
phonogram	फोनोग्राफ	—, rising	आरोही स्वरापात
phonogram	स्वनप्रक्रियात्मक प्रक्रम	—, rising falling	आरोही अवरोही स्वरापात
phonograph	स्वनप्रक्रियाज्ञान गद्य	—, suspension	विराम स्वरापात
phonological process	स्वनप्रक्रिया	(=pause pitch)	
— word	स्वनयात्रिकी	— frequency	स्वरापात-आवृत्ति
phonology	अमलीन मसाम	place	स्थान/स्थल
phonomechanics	समुक्त बाल	— name study	स्थलनाम-अध्ययन
phrasal compound	पदबंध/वाक्यवाद	plene writing	पूरा लेखन
— tense (=paraphrastic tense)	पदबंध रचनाग	pleonasm	अव्यय/अधिक पद/स्वातंत्र्य
phrase	पदबंध विचार	pleonastic	अधिक पद/स्वाधिक
— formative	पदबंध संरचना	plereme	स्वरेण
phraseology	मध्यच्छेद तत्विका	plethora	अतिवृत्त्य
phrase structure	जातिभूतीय परिवर्तन	pleura	परिष्कार/वृत्त/वृत्तानुसार
phrenic nerve	भाषित स्वनविधान	plexus	संघटन
phylogenetic change		plosion (=explosive)	स्फट
physical phonetics (=acoustic phonetics)	उच्चारण/वाक्य स्वनविधान	plosive	स्फट
physiological phonetics (=articulatory phonetics)	चित्र लेख	pluperfect	पुनर्भूत
pictograph	चित्रलेख	plural (r- er)	वृद्धवत्
pictogram	चित्रचित्र	— of approximation	समान्य
pictograph	चित्रलेखन	— majesty	अपमान/अपमान
pictorial writing	चित्र/चित्रित मान	— social frequen- ly	अपमान/अपमान
pidgin	स्वरापात	plurative	वृद्धवत्
pitch (=pitch accent)	निरत स्वरापात	plurilingual (— multi- lingual/polylingual)	वृद्धवत्
—, absolute	अवरोही स्वरापात	plurisegmental feature	वृद्धवत्
—, falling	अवरोही आरोही स्वरापात	plurivalence	वृद्धवत्
—, falling rising	अवरोही आरोही स्वरापात	plurivocality	वृद्धवत्
—, final	अवरोही स्वरापात	plurivocality	वृद्धवत्
		point	

pointer word (= demonstrative)	निर्देशक शब्द/सचेतवाचक शब्द	positive conjunction	अस्तिवाचक समुच्चयवाचक
point of articulation	उच्चारण स्थान	— degree	सामान्य वाटि
poлярity	ध्रुवता	positivist	प्रत्यक्षवादी
polychronistic	बहुकालिक	possessive	सम्बन्धवाचक
polyglot	बहुभाषी	— compound	संबन्ध तत्पुरुष समास
polylingual (= plurilingual/ multilingual)	बहुभाषी	post article	परस्थानीय उपपद/पर उपपद
polymorphemic	बहुव्युत्पिम्ब	post dental	दन्त पृष्ठीय
polymorphous	बहुरूपात्मक	— -determiner	पदच निर्धारक
polyphone	बहुस्वन	posterior	पर /पदच
polyphony	बहुस्वनता	postero lingual	पदच जिह्वीय
polysemantic	बहु-अर्थक	post final	अन्तिमोत्तर
polysemous	बहु-अर्थक	-- fix (= suffix)	परप्रत्यय
polysemy	बहु-अर्थता	— -palatal	पदचताल-य
polysyllable	बहु-अक्षर	postposition	परसग/अनुसग
polysynthesis	बहुसदनेपण	postpositive preposition	परसग
polysynthetic language	बहुसदनेपणात्मक भाषा	postsequential	अनुसमोत्तर
polytonic language	बहुस्वान भाषा	post velar	पदचशृङ्खलाय
pooh pooh theory	पूह पूह वाद	potential border	शक्य सीमा
popular etymology (= folk etymology)	लौकिक व्युत्पत्ति	— mood	विध्ययक (वक्ति)
— word	लौकिक शब्द	— subjunctive	विध्ययक सम्भावनायक
portmanteau word	समृज्जत शब्द	practical linguistics (= applied linguistics)	अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान
position	स्थान	practical phonetics (= applied phonetics)	अनुप्रयुक्त स्वनविज्ञान
—, anterior	पुर्व स्थान	pragmatics	संकेत प्रयोग विज्ञान
—, exterior	बाह्य स्थान	pragmatism	अर्थक्रियावाद
positional	1 स्थानीय 2 स्थानाश्रित	pre article	पुर्वस्थानीय उपपद/पुर्व उपपद
— variant	स्थानाश्रित परिवर्त	preaspirated stop	पुर्वमहाप्राणित स्पर्श
position analysis	स्थाननिष्ठ विश्लेषण	precative mood	अनुसय वक्ति
— of rest (= caesura)	यति		

predental	दन्तविह्वलश्रेण्य	prerequisite	पूर्वापत्ता	primary tense
pre-determiner	पूर्व निर्धारक	prescriptive	अनुपासनान्तक अनुपासन-	
predicate	विशेष्य	— grammar	अनुपासन-प्राकरण	
—, complete	पूर्ण विशेष्य	pre-sentence element	वाक्य पूर्वात्ता	
—, compound	समस्त विशेष्य	present participle	वननामतालिफ हृदन	
—, simple	असमस्त विशेष्य	— perfect	विशेष्य	
— adjective	विशेष्य-विशेषण	— tense	आमन भूत पूरा वनमान	
— nominal	विशेष्य-नामिक	pressure	वनमानकाल	
— noun	विशेष्य मत्ता/विशेष्य नाम	preferite (also	दाक	
predicate verb	विशेष्य क्रिया	preterit)	पूरा काट	
predicating word	विशेष्यक शब्द	— future (=future	पूरा भविष्यत	
predication	विशेष्य	perfect)		
predicative adjective	विशेष्य विशेषण	prevelar		
— root	विशेष्यवाचक धातु	pre verb	पूर्वकठय	
predictable	विशेष्यवाचक धातु	primary accent	पूरा क्रियापत्ता	
predictive future	पूर्वानुमेय	(=main accent)	मुख्य आघात	
(=predictive	भवितव्यत काल	— affix		
tense)		— articulator	हुत प्रयय	
— linguistics	प्रायुक्तिपरक भाषाविज्ञान	— derivative	भौतिक बरता प्राथमिक	
predominant pattern	प्रधान अभिरचना	— formation	वरण	
pre final	अतिमपूर्व	— language	हृत्	
prefix	पूर्वप्रत्यय	— morph	हृत्	
prefixation	पूर्वप्रत्यय याजन	— organ	भाग वात्समाया (मराठी)	
prehistoric age	प्रातिद्वानिक युग	— phoneme	मुक्त मय	
prehistory, linguistic	भाषा प्रागितिहास		मुख्य अक्षर	
premise	जाधार वाच्य	— root word	1 मूल स्थानिक	
prenasalized stop	पूर्वरक्त स्पर्श/पूर्व नासा- रहित स्पर्श	— structure	2 मूल स्थानिक	
prepalatal	अन्तर्नास्य	— stress	मूल धातु स्थान	
preposition	पूर्वनास्य	— suffix	भौतिक निहाय/दायनिक	
— group	पूर्वनास्य पञ्च	primary tense	निहाय	
(=preposition		(=simple tense)	प्राथमिक बलापत्ता	
phrase)			हुत प्र यय	
prepositional phrase	पूर्वसंग पञ्च		मत्तापत्ता	

primary word

primary word	1 मूल शब्द 2 स्या (Jesp sen)	pronominal root	संज्ञानाम् मूलरूप
— valvate structure	सुप्य खोरस्पयीं निबोत	pronoun	सर्वनाम
prime word	शब्द शब्द	—, conjunctive	संयोजक सर्वनाम
primitive language	आदिम भाषा	—, definite	निश्चयवाचक सर्वनाम
— semantics	आदिम शब्दावधिनाम	—, demonstrative	निर्देशक सर्वनाम/मन्त्रते वाचक सर्वनाम
principal clause	मुख्य उपवाक्य	—, disjunctive	वियोजक सर्वनाम
— word	मुख्य शब्द/प्रधान शब्द	—, incorporating	समावेशक सर्वनाम
principle of diversity of meaning	अन्यविध्य नियम/अन्य- विविधता नियम	—, indefinite	अनिश्चयवाचक सर्वनाम
— — economy	छात्रव नियम/साल्म्य नियम (क १८)	—, interrogative	प्रश्नवाचक सर्वनाम
— — least effort	प्रयत्न छात्रव नियम	—, personal	पुष्पवाचक सर्वनाम
privative	अभाव सूचक	—, reciprocal	पारस्परिक सर्वनाम
process model	प्रपञ्च प्रतिरूप	— reflexive	निजवाचक सर्वनाम/ आत्मावक सर्वनाम
proclisis	परचाथम	—, relative	संबन्धवाचक सर्वनाम
proclitic	पश्चाथयी	pronunciation (=articulation)	उच्चारण
procrustean attempt	बलात्कारोत्तरण	proparoxy tone	उपातपूर्वोदात्त (‘गन्’)/ उपधापूर्व तान
production drill	स्वनात्मनादन अभ्यास	proper noun	व्यक्तिवाचक मना/व्यक्ति वाचक नाम
productive affix	उत्पादक प्रत्यय	— triphthong	त्रित्तर
profile	परिच्छेदिका	propiate noun	वृत्तिमूचक स्या
progressive aspect	अनुगतकालिक पक्ष/घटमान पक्ष	proportional analogy	आनुपातिक साम्य/ समानुपाती सादृश्य
— assimilation	1 पुर समीभवन 2 पुर समीकरण	— opposition	आनुपातिक प्रतियोग/ आनुपातिक विरोध
— tense	घटमान काल	proposition	प्रतिज्ञप्ति
prohibitive	निषेधात्मक	propositional word	पूर्वसंग
prolative (= prosecu- tive)	सहसूचक कारक	propria	विशेष
prolepsis	पुरानिहिति	prop word	अश्लेषन शब्द
prominence	प्रधान	prosecutive (= prola- tive)	सहसूचक कारक
prominent syllable	प्रधान अक्षर	prosiopeis	बन्तु लोप
pronominal	संज्ञानामिक		
— adverb	संज्ञानामिक क्रियाविशेषण		

prosodeme

prosodeme	स्वनगुणिम
prosodic feature	स्वनगुणिमिक अभिलक्षण
— phoneme	गुण स्वनिम
— phonemics	गुणस्वनिमविज्ञान
prosody	स्वनगुण
prospective method	पुरोगामी रीति
— linguistics	भाषीकालापेक्षी भाषा विज्ञान/भविष्यतलक्षी भाषाविज्ञान
— subjunctive	भाव्य रूप सभावनावक अप्रमकाव
prosemic	हनुमन उपवाक्य
protasis	सरणी नाम
protective name	आदिनिहिति
prothesis	आदिनिहिति स्वर
prothetic vowel	आदिनिहित स्वनिम
— phoneme	आदि/आद्य
proto	आदि प्ररूप
— type	द्वुत्व
protracted	बहि मृत
protruded	बहिस्फरण
protrusion	प्रायोगिक रूप/प्रातीय रूप/ आचलिक रूप
provincialism	

qualitative gradation

provincial standard	प्रादेशिक मानक
pseudo diminutivisation	ह्रस्वाभास
— semantic	शब्दाभासिक
— synaesthesia	सहस्रवदनाभास
— synonym	पर्यायाभास
— word	शब्दाभास
psittacism	तोनास्टत/गुणपटन
psittacist	तोनास्टत/गुणपाठक
psycholinguistics	मनाभाषाविज्ञान
psychological order	मनावयानिक क्रम
pterygoid muscle	पगामिका पगी
pulmonic	पुष्फुमीय
pun	स्लेप
punctuation mark	विराम चिह्न
— word	विराम शब्द
pure synonym	तुद्ध पर्याय/तुद्ध समानार्थक
— vowel	तुद्ध स्वर
purism	तुद्धिवाद
purpose (=dative)	प्रयोजन चतुर्थी/तत्प
purposive conjunction	सप्रणय
putative aspect	उद्देश्यवाचक समुच्चयसोधक अभियुक्तीन पक्ष

Q

qualifier
qualisign
qualitative accent
— gradation

विशेषक
त्रिगुणमक
गुणमक आधा
गुणमक अवयुक्ति

quadrilateral of the
vowels
quadrissyllable
quadruplets

स्वर चतुर्गुण
चतुरांगर
चतुष्टय

quality
 quality
 quantifier
 quantitative
 — gradation
 quantity
 — mark
 quasi homonym
 (=paronym)
 — linguistic

(स्वर) गुण
 परिमाणवाचक
 मात्रात्मक आघात
 मात्रात्मक अवधृति
 परिमाण/मात्रा
 परिमाण चिह्न
 यमक
 जगत भाषाविषयक

quasi linguistic
 system
 quasi semantic
 quateral number
 question mark
 quite stress
 (=medium stress)
 quinquesyllable
 quinquesyllabic
 quotation mark

भाषावत् व्यवस्था/जगत
 भाषा-यवस्था
 जगत अर्थविषयक
 चतुर्वचन
 प्रश्नचिह्न
 मध्यम बलाघात
 पचाक्षर
 पचाक्षरीय
 उद्धरण चिह्न

radiation
 radical
 — flexion
 — language
 (=automatic
 language)
 raising
 ramification
 ramus mandibula
 range
 rank
 ranking
 rarefactive
 rate of speaking
 reactance

विकिरण
 1 जिह्वामूलीय
 2 मूल शब्द/घात्वश
 मूलव्ययोज्य विभक्ति
 मूलज भाषा

उत्थापन
 प्रशासन
 अधाहनु शाखा
 परास
 श्रेणी
 1 श्रेणी
 2 श्रेणीकरण
 विरलित
 भाषण गति/वाग्धेय
 प्रतिघात

R

real phone
 — segment
 — syllable
 reborrowing
 received pronunciation
 receptivity (to loan
 words)
 recessive
 reciprocal assimilation
 — pronoun
 — verb
 reconstruction


कणग्राह्य स्वन/श्रुतिग्राह्य
 स्वन
 कणग्राह्य खड/श्रुतिग्राह्य
 खड
 कणग्राह्य अक्षर/श्रुतिग्राह्य
 अक्षर
 पुनरादान
 शिष्ट उच्चारण
 ग्रहणशीलता
 पदचगामी
 1 अ-या य समीकरण
 2 ज-या य समीकरण
 पारस्परिक स्वनाम
 पारस्परिक क्रिया
 पुनरचना/पुननिर्माण

record			
record (of a gramophone)	रवाड	regionalism	प्रादेशिक रूप, प्रांतीय रूप/आञ्चलिक रूप
— player	रेसाड प्लेयर	(= provincialism)	उच्चारण म्यान्
rectangular vowel system	आयताकार स्वर व्यवस्था	region of articulation	
reception (government)	नियंत्रण/नियमन	(= point of articulation)	
recursive	पुनरावर्ती	register tone language system	सम्तान भाषा व्यवस्था
recutting	पुनर्विभजन/पुनर्विभाजन	regressive	
reduced grade	सप्रसारण	— assimilation	पदवर्गामी/पद्वच
reduction	ह्रास/ह्रसन	— method	1 पद्वच समीभवन
redundancy	समधिकता	regular	2 पद्वच समीकरण
redundant	समधिक/आधिक्यबोधक	— change of meaning	पदवर्गामा राति
— function	आधिक्यवाधक प्रवाप	— determiner	नियमित
reduplication	अभ्यास	regularist	नियमित अर्थ परिवर्तन
reduplicative	अभ्यस्त	regular sandhi	नियमित निर्धारक
— word	अभ्यस्त शब्द	— verb	नियमित सधि/सामाय मधि
reference	1 मवध निर्देश	reinforcement	नियमित क्रिया
— grammar	2 (i) प्रसंग/मदम	related languages	प्रयत्न
referend	(ii) समुद्देश्य	relating word	संरक्षित भाषाएँ
referent	सदम व्याकरण/निर्देश	relational case	समुच्चयशोधक "ह"
referential approach	व्याकरण	— concept	संरक्षित वारक
— similarity	समुद्देश्य	relation axis construction	संरक्षित "सं" संरक्षण
— symbolism	समुद्दिष्ट	relative adverb	संरक्षित "सं" संरक्षण
reflexive pronoun	समुद्दिष्ट उपगम	— clause	संरक्षित "सं" संरक्षण
— (reflective) verb	समुद्दिष्ट सामान्य	— pronoun	संरक्षित "सं" संरक्षण
regimentation linguistic	समुद्दिष्ट प्रतीक/भाषा/निर्वाचक मंत्रनाम/आत्मपद सब नाम	relaxed (state of pharynx)	संरक्षित "सं" संरक्षण
	कृत गामी क्रिया/निर्वाचक क्रिया	release	निर्वाचक
	भाषावैज्ञानिक नियमन/भाषावैज्ञानिक नियमन	relevant	संबंधित
		(= distinctive)	
		relic area	संरक्षित भाषा

relic form	अवशेष/अवशिष्ट रूप	retrospective linguistics	भूवलक्षी भाषाविज्ञान
reminiscent sandhu	रूपसादृश्य मन्त्रि	reversed mechanism	उत्क्रमित यत्न/उ प्रमा अवधव
remote (= non contiguous)	अभिन्हित/व्यवहित	rheme (see seme)	पशपद
— dissimilation	अभिन्हित विपमोभवन/ व्यवहित विपमोभवन	rhotacism	रेफण
repetitive compound	आम्बेडित ममाम	rhyme	ग्राम/तुक् (हिंवी)
replacement	1 प्रतिस्थापन 2 आदश (substitut on)	— word	ग्राम शब्द/तुक् शब्द
replace	आदश/आदिष्ट	rhythm (=cadence)	लय
representational (Trubetzkoy)	विषयबोधक	—, stress timed	बलाश्रित लय
reshaping	पुनर्विचन	— group	एक लयी वग
resonance	अनुनास	rib cage	पशुका पजर
— chamber	अनुनाद विवर/अनुनासकोष्ठ	rising	आरोही
resonant	अनुनादी	— clause terminal	आराही उपनासयान
resonator	अनुनासक	— diphthong	आराही सभ्यक्षर
respiration	स्वसन	— falling pitch	आराही अवरोही स्वराधान
responce sentence	उत्तरमूचक वाक्य	— pitch	आरोही स्वराधान
restrictive adjunct	प्रतिबंधक विशेषक	— tone	आराही तान
— relative pronoun	निदानक संबधवाचक संबधनाम/प्रतिबंधक मय वाचक संबधनाम	risorius muscle	नसनापकण्ठी पगो
— clause	निदानक उपवाक्य/ प्रतिबंधक उपवाक्य	rolled	लोलित
resultant	परिणामी	romanization	रोमनीकरण
resumptive negation	पुनस्वन निषेध	romic	रोमन लिप्यवन
refracted	प्रत्याकषिपत	root	1 धातु 2 मूल
refraction	प्रत्याकरण	—, attributive	विशेषणवाचक धातु/ गुणवाचक धातु
retroflex	प्रतिवेल्लित/मूधय	—, bound	बद्ध धातु
retroflexion	प्रतिवेल्लित/मूधपीकरण	—, denominative	नाम धातु
retroflex vowel	प्रतिवेल्लित स्वर	—, free	स्वतंत्र धातु
retrogressive (= r.gressive)	पश्चिमी/पश्च	—, predicative	विधेयवाचक धातु
		—, pronominal	संबधनाम मूलरूप
		—, secondary	द्वितीयक धातु
		—, significant	मूलवाचक धातु

root, verbal	(नियन्त्र) धातु
— base	धातु/धातु
— inflection	स्वनांतरण रूपसिद्धि
— of the tongue	शिवाभूत
rough breathing (=aspiration)	महाप्राणतर/महाप्राणता

rounded vowel	वर्तुलित स्वर
rounding	वर्तुलन
rune	रुन (वण)
rune form	रुन (वण) महद्वय
runicism	ग्राम्य रूप



S in the year 60/1983

sandhi	सधि
— form	सधि रूप
satellite	अनुपगी
— peak	अनुपगी शिखर
— word	अनुपगी शब्द
satem' language	'सतम' भाषा
saturated	घनीकृत/सतप्त
scala tympani	कर्णावत जघ कुल्या
— vestibuli	प्रघाण जघ कुल्या
schismeme	(see juncture)
scholasticism	स्कालस्टिकवाद/पाठित्यवाद
schwa (also shwa)	इवा
scraptive	तुरचित
scrapping mechanism	पुरचन यंत्र
script	लिपि
secondary accent	गौण आघात
— articulator	तामिदय करण/द्वितीयक करण
— derivative	तद्धितात
— language	1 लिखित भाषा 2 मन्कृति भाषा

— morpheme	(see allomorph)
— phoneme	(see suprasegmental phoneme)
— response	द्वितीयक अनुक्रिया
— root word	द्वितीयक धातु शब्द
— stress	द्वितीयक वलाघात/गौण वलाघात
— structure	नासिक्य निकास/द्वितीयक निमोच
— suffix	तद्धित प्रत्यय
— tense	सामान्यतर वाल
— word (=adjunct)	निशेषक
second future (tense)	द्वितीय भविष्यत (वाल)
— person	मध्यम पुरुष
secret dialect	दूट बोली
secretion	उत्सजन
segment	1 छड 2 परिच्छेद
—, binary	द्विचर छड
segmental phoneme	खंडरमक म्वनियम/ पनिश्चित स्वनिम

segmental phonemics

segmental phonemics

segmentation

segment of utterance

selection

selective category

— transmission

semanteme (= seme-
me)

semantic

— aphasia

— ataxic

— borrowing

— calques (= loan
translation)

— change

— complement

— congruence

— contagion

— differential

— extension

— field

— indicator

— innovation

— morphology

— overload

— pathology

— phenomena

— polygon

— range

प्रज्ञात्मत स्वरविभक्ति/परिच्छेद/स्वरविभक्ति

ग्रहोपगण/परिच्छेद

उच्चारण/ग्रह

वरण/व्यय

वरण/व्यय

वरणात्मक प्रेषण

अर्थिम

1 गन्धाय विषय

2 गन्धाय विषय

अवधिपथी वातापान

अव-योग्य/अव माध्य

अर्थोदान

आगत अनुवाद

अव परिवर्तन/अव विचार

अवपूर्व/संज्ञापूर्व

1 अथ-मवागसमता

2 अर्थानि

1 अथ-मसग

2 अथ सत्रमण

अथ अवक

अथ विस्मय

अथ-क्षेत्र/संज्ञाय तै

अथ-सूचन/संज्ञाय सूचन

नवत्रय प्रवृत्त

वाच्यगत रूपप्रक्रिया

वर्धनिभार

अर्थविहित

शब्दाद्य-घटना/गन्धाय-

व्यापार

शब्दाय बहुमुत्र

अथ परीस

semiotics

semantics

—, diachronistic

—, synchronistic

semantic shift (= se-
mantic change)

— space

semanticist (= se-
mantician)

semantic theory
(= semantic con-
ception)

— vagueness

— semasiography

— semasiology (= se-
mantics)

sematology

seme (rheme)

semeiology (= semi-
ology)

sememe
(= semanteme)

semi absolute

— articulate sentence

semicolon

semi consonant

— deponent verb

semiology (= semiology)

semiosis

semiotic

semiotics

1 अवविभागा/गन्धाय
विभागा

2 गन्धाय विभागा
(Ullmann)

तात्पर्यमिदं गन्धाय विभागा

गन्धाय विभागा गन्धाय विभागा

गन्धाय-परिवर्तित/अव

परिवर्तित/अव विचार

अवधिपथी अवकाश/अव

भेद व्यय

अव विधानी/गन्धाय विधानी

गन्धाय विज्ञान

अव अस्पष्टता

अव सूचक चिह्न

अव विधान/गन्धाय विज्ञान

अव विज्ञान/गन्धाय विज्ञान

सीम/व्यय

सन्धेय विधान

अर्थिम

अगत चिह्न

अवधिपथी

अवधिपथी

अवधिपथी

सेमीडेपोनेट क्रिया

सन्धेय विज्ञान

सन्धेय प्रक्रिया

सन्धेय विज्ञान सन्धेय

सन्धेय विज्ञान

semiplosive (= affricate)	स्पर्शसघर्षी/अनुसर्षी	sentence, response	उत्तर सूचक वाक्य
semi syntactic compound	अशत वाक्य समास	—, semi articulate	अर्धवाक्य
— - synthetic compound	अशत सद्विलिष्ट समास	—, stop short (= aposiopesis)	वाग्विच्छेद
— - vowel	अघस्वर	— grammar	वाक्य व्याकरण
sensationalist behaviourist theory	संवेदनवादी व्यवहारवाद	— harmony	वाक्यात मगति
sense (= meaning)	अर्थ/आशय	— phonetics	वाक्य-स्वनविज्ञान
— group	एक अर्थ का वर्ग	— stress	वाक्य बलाघात
— of position	स्थिति-बोध	— type	वाक्य प्रकार
sensical sentence	साथरू वाक्य	— word	वाक्य शब्द
sensorium	संवेदनतंत्र	separation (= detachment)	अपार्य
sentence, articulate	संवाग वाक्य	sequence	अनुक्रम
—, basic	आधार वाक्य	— class	अनुक्रम वर्ग
—, complete	पूर्ण वाक्य	— diagram	अनुक्रम आरेख
—, complex	मिश्र वाक्य	— of tense	काल अनुक्रम
—, compound	संयुक्त वाक्य/योगिक वाक्य	— utterance	अनुक्रम वाक्य
—, exclamatory	विस्मयादिवोचक वाक्य	serial (= coordinative)	समानाधिकृत
—, existential	अस्तित्ववाची वाक्य	seriation	पंक्तिबधन
—, favourite	बहुप्रचलित वाक्य	series	श्रेणी
—, imperative	आज्ञावाक्य वाक्य	set	समुच्चय
—, inarticulate (= minor sentence)	अल्पाग वाक्य/यूनाग वाक्य/असंपूर्ण वाक्य	—, major	संबन्धपूर्ण समुच्चय
—, interrogative	प्रश्नवाचक वाक्य	—, minor	अल्पबन्धपूर्ण समुच्चय
—, kernel	मूल वाक्य/आधार वाक्य	sex	स्त्रीपुंज्ञानि
—, loose	पूर्वप्रधान वाक्य	shift	परिवर्ति
—, major	संवाग वाक्य	— sign	परिवर्ति संकेत
—, minor	अल्पाग वाक्य/यूनाग वाक्य/असंपूर्ण वाक्य	shortening	ह्रस्वीकरण
—, nominal	नाम-वाक्य	—, compensatory	प्रतिपूरक ह्रस्वीकरण
—, periodic	उत्तर प्रधान वाक्य	short quantity	अल्प परिमाण
—, petitionary	अनुनय वाक्य	— segment	ह्रस्व खंड
		— vowel	ह्रस्व स्वर
		sibilant	ऋम
		side adjunct	पाद्व अनुबध

side chamber

side chamber

sigmate

sigmatic

sigmatism

sign

signal

sign commemorative

— demonstrative

signature (of the motto)

signifiant (name)

significant

signification

significative root

signifies

signisic (sense)

signified

signifier

sign language

— situation

silent

similar

similarity, affective

—, emotive

—, partial phonetic

—, phonetic

—, referential

—, substantial

simulative case

simultaneity

simple agglutinative language

— future

पादक कोष्ठ

'म' जाडाडा (हिन्दी)

'म' युक्त, गगन युक्त

उपमीकरण

संकेत

संकेत

स्मरण तात्

निर्देशक संकेत

लिह

संकेत

संकेत

संकेत

लक्षणसंकेत धातु

अभिव्यक्ति/व्यक्तिगत

वाच्य

उपेक्षित

संकेत

संकेत भाषा

संकेत-स्थिति

अनुच्चरित

संकेत

भावनात्मक सादृश्य

संकेत सादृश्य

जाणिक संकेत-सादृश्य

संकेत सादृश्य

समुद्दिष्ट सादृश्य

वस्तुगत सादृश्य

अनुपपत्ता

अस्मिन् योमात्मक भाषा/

प्रत्यय प्रधान भाषा

सामान्य भविष्यत्

simple paradigm

— peak

— phoneme

— predicate

— primary phoneme

— pure relational

language

— sign

— tense

— transcription

— vowel

— word

simulative language

simulfix (= suprafix)

simultaneity

simultaneous

— component

single rhyme

(= monosyllabic)

sing song theory

singular

— change of meaning

— number

singulative

sinus

—, frontal

—, maxillary

—, sphenoidal

sinus glossoepiglotticus

sinus glossoepiglotticus

सामान्य स्थापना

मरुत विद्युत

सामान्य स्थापना

अगम्य विद्युत

सामान्य मुख्य स्थापना

सामान्य विद्युत संस्थापना

भाषा

सामान्य संकेत

सामान्य शब्द

मरुत लिप्यंतर

मूल स्वर/सामान्य स्वर

(गुणगती)

सामान्य शब्द

उत्सव भाषा

सामान्य प्रत्यय/अंश

प्रत्यय

समकाल

समकाल/समकाल

समकाल घटक/समकाल

घटक

एकशरीर प्रास

सिंग सांग वाद

एक

विभिन्न अर्थपरिवर्तन

एकवचन

एकल सूचक

दृष्टि संकेत

विबर/घातिवा

ललाट विबर

ऊपरहनु विबर

जलूक विबर

निहोयनिहोय विबर

situation utterance (= complete sentence)	पूण वाक्य	sound attribute	स्वनगुण
skill drill	प्रवीणता अभ्यास	— box (= larynx)	वाकल/स्वरयंत्र
slang	शिष्टेतर प्रयोग	— change	स्वन परिवर्तन
slit spirant	फलक घर्षो/ईपद् त्रिवल घर्षी	— —, autonomus	निरर्पाधिक स्वनपरिवर्तन/ अनाश्रित स्वनपरिवर्तन
slur	विच्छलन	— —, conditional	सोपाधिक स्वनपरिवर्तन/ आश्रित स्वनपरिवर्तन
slurred	विच्छलित	— pattern	स्वन अभिरचना
slender vowel (= front vowel)	अग्र स्वर	— shift	स्वन परिवर्तित
smooth breathing (= non aspiration)	अर प्राणत्व	— spectograph	रजन स्वेवदोग्राफ
sociative	सहवाचक, सहायक	— substitution	स्वन आदेश
soft	मृदु	— type	स्वन प्ररूप/स्वन प्रकार
— consonant	मृदु व्यजन	— variation	स्वन विवक्ष्पा
softening (= palatalization)	तात्परजन	— wave	ध्वनि-तरंग
softness	मृदुता	span	विस्तृति
soft palate	मृदु तालु/कोमल तालु	spasmodic articulation	आकर्षी उच्चारण
— sign	मृदु चिह्न	spatio temporal (regularity)	दशकाऽ सापक्ष (नियमितता)
— stress	मृदु बलाघात	speaker	वक्ता
solecism	व्याकरण विरुद्ध प्रयोग/ च्युत सस्टृति	specialization of meaning	अर्थ सकोच
solidus (solidi)	वण/सॉलिडस	specialized meaning	सनुचितार्थ
sonant	1 सघोष 2 आक्षरिक	special sandhu	विशेष सधि
sonorant (= voiced)	सघोष	speech	वाक
sonority	श्रव्यता/श्रुतिगम्यता	— activity	वाक् क्रिया
sonorization (= voicing)	घोषीकरण	— apparatus	वाग्यंत्र
sonorous	श्रव्य/श्रुतिगम्य	— area	भाषा क्षेत्र
sonorousness	श्रवणीयता/श्रयता	— community	भाषा भाषी जनसमुदाय
sophist	सोफिस्ट	— content	वाक्-आदाय/वाक् विवक्षा/ वागध
		— context	वाक्-सदभ
		— habit	वाक् प्रयुक्ति
		— island	भाषा-द्वीप
		— mechanism	वाग्यंत्र/उच्चारण-यंत्र

speech perception	वाच प्रत्यक्षण	stem	1 अक्ष
— psychology	वाक् भा स्थिति	— base	2 प्रातिपत्ति
— situation	वाक् परिवेश	— compound	प्रकृति
— sound	वाक् स्वा	steno-sonograph	प्रकृति गुणग
— stretcher	वाच प्रसारक	sternohyoid muscle	स्टेना-जोनाग्राफ
— synthesis	वाच गहनयण	sternohyroid muscle	उर शक्तिवा पत्ती
speed (of utterance)	गति	sternum	उर अश्रुवा पत्ती
spelling	वर्ण	stimulus diffusion	उरोस्थि
— pronunciation	व्यंग्यवर्ण उच्चारण	stimulus response	प्रेरक विसरण
sphenoidal sinuses	जलन विवर	stod	उद्दीपन-अनुश्रिया
spiral ganglion	सर्पिल गण्डिका	stop (mute = plosive = explosive = oc clusive)	स्टोड
spirant (= fricative)	मधुर्घो/घर्षो	stopped beginning	रपा
—, groove	नलक घर्षो	stop short sentence (=aposiopesis)	जवरुद्ध आरम्भ
—, slit	फलक घर्षो/ईषद् अवृत्त घर्षो	stress (= stress accent)	वाग्विच्छेद
spirantization	सघर्षोकरण	—, bound (= fixed stress)	बलाघात
spoil word	भ्रष्ट शब्द	—, conditional	बद्ध बलाघात/नियत बलाघात
spontaneous sound change	स्वत स्वतपरिवर्तन	—, crescendo	सोपाधिक बलाघात
spoonerism	स्युनरता	—, diminuendo	आरोही बलाघात
sporadic sound change	वदाचनिक स्वतपरिवर्तन	—, double	अवरोही बलाघात
stammering	हृषलाना	—, even	द्विगुण बलाघात
standard language	मानक भाषा	—, expiratory	सम बलाघात
sturred form	ताराकृत रूप/तारकृत रूप	—, fixed	निश्वात बलाघात
static air	स्थिर वायु	—, free	बद्ध बलाघात/नियत बलाघात
— alternation	स्थिर विकल्पन	—, initial	स्वतंत्र बलाघात
— consonant (= continuant)	प्रवाही व्यञ्जन/गतत व्यञ्जन	—, innate	आद्य बलाघात
— diagram	स्थिर आरम्भ	—, primary	सहज बलाघात
— linguistics	स्थानिक भाषाविज्ञान		मुदय बलाघात/प्राथमिक बलाघात
statics	स्थितिशा		
static semantics	स्थानिक शब्दाविविनान		
statistical linguistics	माटिपनीय भाषाविज्ञान		
stative verb	स्थितिमूचक श्रिया		

stress, secondary

stress, secondary	गौण बलाघात/द्वितीयक बलाघात
—, strong	प्रबल बलाघात
—, terminal	अत्य बलाघात
—, weak	अल्प बलाघात/दुबल बलाघात
—, sentence	वाक्य बलाघात
—, word	शब्द-बलाघात
— accent	बलाघात
— accentuation	बलाघातन
stressed	बलाघातित
stress group	बलाघात समूह
— timed rhythm	बलाघातित लय
— unit	बलाघात एकक
structural function	निकोच प्रकाश
stridulation	घषण-ध्वनि
string	माला
—, input	निविष्ट माला
—, output	नियत माला
—, structured	सरचित माला
—, terminal	अत्य माला
strong conjugation	अनियमित नियारूप
— declension	अनियमित शब्दरूप
— noun	अनियमित सना
— stress	प्रबल बलाघात
— verb	अनियमित क्रिया
structural approach	संरचनात्मक उपगम
— class	संरचना-वर्ग
structuralism	संरचनात्मक विद्यान/ संरचनात्मकता
structuralist	1 संरचनात्मक 2 संरचनावादी
structural linguistics	संरचनात्मक भाषाविज्ञान
— meaning	संरचनात्मक अर्थ

subjunctive, concessive

structural order	संरचनात्मक क्रम
— pressure	संरचनात्मक प्रभाव
— semantics	संरचना मक सन्देशविज्ञान
— series	संरचना-श्रेणी
— set	संरचना समुच्चय
— system	संरचना व्यवस्था
— unit	संरचनात्मक एकक
structurally conditioned structure	संरचना-आश्रित संरचना
structured string	सरचित माला
stumbling (speech)	(वाक्-) स्थलन
stump word (= clipped word)	छिन शब्द
stuttering	हकाना
stylistic	1 शैलीगत 2 शैलीशास्त्र भवदी
stylistics	शैलीविज्ञान
styloglossus muscle	गरजिह्विका पेशी
stylohyoid muscle	शरकठिना पेशी
stylopharyngeus muscle	गरप्रमनिका पेशी
stylothyroid muscle	गरअवटुता पेशी
sub-category	उपवर्ग/उपवर्ग
subject	1 कर्ता 2 उद्देश्य
subjective	कर्तृ संबन्धी
subjectless genitive	कर्तृ संबन्धी
— sentence	कर्तृहीन वाक्य
subject word	कर्ता शब्द
subjunct	उपसर्ग
subjunctive	सभावनाशब्द/हेतुहेतुमत्/क्रियाविपत्ति
—, concessive	अनुमोदनाशब्द/समाधानाशब्द

subjunctive, deliberative	विचाराणावाचक सभाव- नाथक	subsidiary word (= accessory word)	गहायत गच्छ
—, exhortative	प्रोत्साहायक सभावनाथक/ उद्बोधक सभावनाथक	substandard speech	ग्राम्य भाषा
—, jussive	आज्ञायक सभावनाथक	substantival adjunct	गतायक विशेषण
—, potential	विध्यथक सभावनाथक	— similarity	सम्तुगत मादृ य
—, prospective	भाव्यथक सभावनाथक	substantive	1 मत्प्रवाचक/विज्ञेय 2 मना (as opposed to noun = नाम) (Jespersen)
—, volitive	मवलपनाथक सभावनाथक	— expression	वन्नि अभिव्यक्ति/विशेष्य अभिव्यक्ति
sublanguage	तल भाषा	— verb	मत्तावक क्रिया/सनाथक क्रिया
submember (of a pho- neme) (= allophone)	उपम्बन	substantivized	सनापरक/नामिक
subminimal pair	अपदेशीय युग्म/सूनवरूप युग्म	substitute	1 आदग 2 प्रतिनिधि
submorphemic (=allomorphic)	उपरूपिक/उपरूप	substitution	1 आदेश/प्रतिस्थापन 2 प्रतिनिधान
subnex	विधेय उपबध	— alternant	जादग रूप
subordinate	आश्रित/अधीन	— form	आदग रूप
— clause	अधीन उपवाक्य/आश्रित उपवाक्य	— frame	आदेश बध
— variant	अधीन परिवत/अधीन विकल्प	— item	आदेश पद
subordinating conjunc- tion	अधीनतासूचक समुच्चय बोधक/आश्रयसूचक समुच्चयबोधक	— list	आदेश सूची
subordination	अधीनता/आश्रितता	— sequence	आदेश अनुक्रम
subphonemic (=allophonic)	उपरवनिव	— type	आदेश प्रकार
subprimary	1 उपमुख्य 2 उपमौखिक	substratum	1 अद्यस्तल 2 अद्यस्तल भाषा
— articulator	उपमौखिक करण	sub subjunct	उपोपबध
subreption	अव-प्रक्षेप	subsystem	उपयवस्था
subselection model	उपवरण प्रतिरूप	subtractive	उन्/घटाया हुआ (हिन्)
		subvalvate	उपकीरस्पर्शी
		succession	1 अनुक्रमी अर्थों तरण (Ullmann)
		successive	अनुक्रमी/आनुक्रमित
		—sound	अनुक्रमी स्वन

suction stop

suction stop

sudden phonetic change

suffix

suffixing language

(= suffix agglutinating language)

sulcal position

superfix

superimposition

superior comparison

(= upward comparison)

superjunct

superlative degree

supernex

supernumary

super saturated word

superstratum

supine

suppletion

suppletive alternant

-- form

suppositive conjunction

(= hypothetical conjunction)

suppression

supra dental (= see

suprafix (= simulfix)

suprasegmental feature

-- phoneme

चूपण स्पर्श/चूपण व्यञ्ज

अत्रनिम्न स्वन परिवर्तन

परप्रत्यय

परप्रत्यय योजन भाषा

परिष्ठा द्विवृत्ति

1 अघिप्रत्यय 2 अघिषड्डीय रूपिम

अध्यातोषण

उपरिमुखी तुलना/श्रेष्ठता

बाची तुलना

मजिबिधेय

अनिसय वोटि/तम भाव

अधिविधेय सवध

अधिसट्ट/अधिसट्टय

अधिसतृप्त शब्द

1 उपरितल 2 उपरितल

भाषा

सुपाइन

मवादेन

सर्वादेशी विकल्प/मवादेशी

रूप

सर्वादेशी रूप

हेतुमत् गमुक्चयबोध

अत्रवागन

alveolar, retroflex)

समक्षरिणक प्रत्यय/अधिप्रत्यय

अधिषड्डीय अमिलक्षण/

अधिपरिच्छिन अमिलक्षण

अधिषड्डीय स्वनिम/अधि

परिच्छिन स्वनिम

supra sentence

grammar

suprasummative

surd

surface grammar

-- structure

surname

sursaturation

survival (fossil form)

suspension pitch

(= phrase pitch)

suspicious pair

-- , non fluctuating

sustained clause ter

minal

-- stress

syllabary

syllabation

syllabic

-- , tauto

syllabication (also

syllabification)

syllabic consonant

-- division

-- manipulation

syllabic peak

-- stress

syllabics

syllabic writing

syllabification

syllabigram

अधिवाक्य व्याकरण

अधिसवतनात्मक

अघोष

बहिस्तलीय व्याकरण

वाह्य सरचना

अभिजन नाम/कुलनाम/

अवटक (मराठी, गुजराती,

राजस्थानी)

अधिमवृत्ति

अवशेष/अवशिष्ट रूप

विराम स्वरवाचन

सदिग्ध युग्म

अनुच्चारण सदिग्ध युग्म

सम उपवाक्यात

सम बलाघात

अक्षरमाला

अक्षर विभाजन

आक्षरिक

समाक्षरिक

अक्षर विभाजन

आक्षरिक व्यञ्जन

आक्षरिक विभाजन

आक्षरिक हुरफेर (हिंदी)

अक्षर शिखर

आक्षरिक बलाघात

अक्षरविभाजन

आक्षरिक लेखन

अक्षर विभाजन

अक्षर लेख

syllable

synonymy

syllable	अक्षर
—, blocked (= closed syllable)	व्यजांत अक्षर
—, bridge	सेतु अक्षर
—, closed (= checked syllable)	व्यजनांत अक्षर
—, di-	द्वयक्षर
—, free	स्वतंत्र अक्षर
—, hetro	भिन्नाक्षर
—, light	शीलाक्षर
—, mono-	एयाक्षर
—, non prominent	अप्रधान अक्षर
—, nonsense	असंगत अक्षर
—, open	स्वरांत अक्षर
—, poly-	बहु अक्षर
—, prominent	प्रधान अक्षर
—, quadri	चतुराक्षर
—, quinque-	पचाक्षर
—, tri	त्रयक्षर
— phoneme	अक्षर स्वनिम
— sign	अक्षर चिह्न
— timed rhythm	अक्षराश्रित लय
syllabogram	अक्षर चिह्न
syllipsis	उभयावय
symbol	प्रतीक
— engram	प्रतीक स्मृत्यवचन/प्रतीक- मस्कारावचन
symbolic device	प्रतीकात्मक युक्ति
— metaphorical language	प्रतीकरूपात्मक भाषा
symbolization	प्रतीक प्रयोग
symmetric (= symmetrical)	सममित
symmetry	सममिति

symptomatology	सम्पत्तिविज्ञान
synaeresis (= synizesis)	मकोच
synaesthesia (= synesthesia)	सहजवेदना
synaesthesia	सहजवेदना
synaesthetic	सहजवेदनात्मक
syncategorematic word (= synsemantic word)	सापेक्ष शब्द/परन्तु शब्द
synchronic	एककालिक
— grammar	एककालिक व्याकरण
— linguistics	एककालिक भाषाविज्ञान
— phonemics	एककालिक स्वनिमविज्ञान
— phonetics	एककालिक स्वनिमविज्ञान
synchronistic semantics	एककालिक शब्दाविवेचन
synchysis	शब्दाप्रमत्ता
syncope	1 मध्यलोपीभवन 2 मध्यलोपीकरण
syncope	मध्यभाष
syncretic form	सम्मिश्रित रूप
syncretism	सम्मिश्रण
syndesis	समासयन
syndeton	समासित रचना
synecdoche	अभाषिवाचन (उपमादान रूपणा वा एक प्रकार)
syneresis	स्वरैक्य/स्वर मकोच
synesis	वर्थानुमारी अवयव
synizesis (= syneresis)	स्वरैक्य/स्वर मकोच
synonym	पर्याय/पर्याय पद/समानार्थक पद
synonymic analysis	पर्यायवाची विश्लेषण
synonymity	पर्यायस्व/समानार्थकता
synonymous	पर्याय /समानार्थक
synonymy	1 समानार्थकता 2 पर्याय विचार

syntactical (= syntactic)	1 वाक्यवि यास मन्त्रधी/ वाक्यविचार सन्धी
—aphasia	वाक्यविषयी वाचाघात
syntactic category	वाक्यात्मक कोटि
—compound	वाक्योपयुक्त समास
—construction	1 वाक्यवि यास 2 वाक्यात्मक रचना
—contamination	वाक्यात्मक समिश्रण
—device	वाक्यवि यास युक्ति
—form class	वाक्यगत रूप वर्ग
—morphology	वाक्यविशासात्मक रूपप्रक्रिया
—order	वाक्यवि यास क्रम
—phonetics	वाक्या वपन्धी स्वरविज्ञान
—regimen (= government)	वाक्यवि यासात्मक नियमन/ वाक्यवि यासात्मक नियमन

syntactics	1 वाक्यवि यासविज्ञान 2 संज्ञित सन्ध विज्ञान (ullmann)
syntagm (= syntagma)	1 संबन्धित 2 विपनासन्धी
syntagmatic	विपनासन्धी
syntagme	सि देगी
syntax	1 वाक्यवि यास 2 वाक्यविचार
synthesis	संश्लेषण
synthetic (= synthetic)	संश्लेषणी/संश्लेषणात्मक
—compound	संश्लेषण समास
—language	संश्लेषणात्मक भाषा
system	व्यवस्था
systematic sign	व्यवस्थित संज्ञित
systematization	व्यवस्थापन

T

table	सारणी/तालिका
taboo word	वर्जित शब्द
tachygraphy	गतिप्रलिपि
tactic form	पदिम विपनास
tactics	विपनासविज्ञान
tagmeme	1 प्रत्ययिम 2 वधिम/ देगीम
tap	ताडन
—recorder	टेपरेकार्डर
tapless	ताडारहित
tap sound	ताडित स्वन
triseme	बलाघान स्वनिम

tautological compound	पक्षिपद समास/पुनरुक्त समास
tautology	पुनरुक्ति
tautophony	स्वनावृत्ति
tautosyllabic	समासशिव
taxeme	पदिम
taxonomic category	वर्गीकी कोटि
technical term	पारिभाषिक शब्द
technique	तन्त्री/प्रविधि
teth ridge	दन्तकूट/वहस्य प्रन्थ
telescope word (= portmanteau word)	संगृह्य शब्द

telic aspect

telic aspect (= perfective aspect)	पूणनावाची पक्ष
tempo	गति
temporal	कालसूचक
— clause	कालसूचक उपवाक्य
— conjunction	कालवाचक समुच्चयबोधक
— muscle	पक्ष वेणी
— tense	समय सापेक्ष काल
tense	1 काल 2 दृष्ट
— epistolary	पत्रांतर काल
—, imperfect	अपूण काल
—, non temporal	समय निरपेक्ष काल
—, periphrastic (= phrasal tense)	समुक्त काल
—, phrasal	समुक्त काल
—, present	वर्तमान काल
—, primary (= simple tense)	सामान्य काल
—, progressive	घटमान काल
—, secondary	सामान्यतर काल
—, simple	सामान्य काल
—, temporal	समय सापेक्ष काल
—, phrase (= periphrastic tense)	समुक्त काल
— sequence	कालक्रम
— vowel (= fortis vowel)	दृढ स्वर
tenu s	अधोप रूपस
term	1 शब्द 2 पद
terminal contour	अंत्य परिरेखा
— stress	अंत्य बलाघात
— string	अंत्य माला
termination	विभक्ति प्रत्यय/अंत्य प्रत्यय
terminative aspect	समापक पक्ष

thyroepiglottic muscle

terminology	पारिभाषिक शब्दावली
ternary	त्रि भेगी/त्रयी
tertiary articulator	प्रथमचरण/तृतीय चरण
— response	तृतीय अनुक्रिया
— stress	तृतीय बलाघात
— structure	प्रथम तिनोड/तृतीय तिनोड
tertium comparationis	उपमानघम
tetanus	घनुस्तम्भ
tetraphthong	चतु स्वर
text	1 पाठ 2 उक्ति
— frequency	पाठमन वारवारता
thematic	विवरणायुक्त/मविवरण
— compound	सधिवरण समस्त
— flexion	विवरणयुक्त रूप
thematic morpheme	विवरण लक्षणे
theme (see stem)	
theory of definition	1 परिभाषा सिद्धांत 2 लक्षण सिद्धांत
— signs	संकेत चिह्नान
— types	प्रकार वाद
thesis	पक्ष
third person	अप्य पुरुष
thoracic breathing	वक्षीय श्वसन
— cavity	वक्ष गुहा
thorax	वक्ष
thought mood (= subjunctive mood)	संभावनायक
thought name	गुणवाचक मज्ञा/गुणवाचक नाम/भाववाचक सना/भाववाचक नाम
throat	कंठ
thyroarytenoid muscle	अवटुवर्धक पेशी
thyroepiglottic muscle	अवटु उपजिह्वा पेशी

thyroid cartilage	अवट्ट उपास्थि
tightness (of the pharynx)	दृढत्व/कसाव
til (tide)	तिल (तिरुदे)
timbre (also timber)	रणन
—phonemics (see segmental phonemics)	
time bulge	समयाश्रित उभार
tnesis	विच्छिन्न श्रम
tip (of the tongue)	जिह्वाग्र
token	टाकिन/यक्ति
tonality (= intonation)	अनुतान
tone, accentless	आधातहीन तान
—, paroxy	उपात्य आधातित (शब्द)/ उपातोदात्त (शब्द)
—language	तानभाषा
— —system, register	समतान भाषा व्यवस्था
—mechanics (= tonal morphophonemics)	तान रूप स्वनिम व्यवस्था
tonemic	तानिमिन्/तानस्वनिमिक
tone of voice	लहजा (हिन्दी)
—system, contour	परिरेखा तान व्यवस्था
— —, level	समतान व्यवस्था
toneme	तानिम/तान स्वनिम
tongue	जिह्वा/जीभ
—, root of the	जिह्वामूल
—, tip of the	जिह्वाग्र
tonic accent (= pitch accent)	स्वराघात
tooth	दत
toponomasiology (= toponomast cs/ toponomatology)	स्थलनामविज्ञान
toponymy	स्थलनामविज्ञान

toponymy	स्थलनामविज्ञान
total accountability	सबक्याप्ति
totemistic name	टोटमवाचक नाम
trachea (= wind pipe)	श्वासनली
transcription	लिप्यवन
—, broad	स्थूल लिप्यवन
—, comparative	तुलनात्मक लिप्यवन
—, complex	समिश्र लिप्यवन
—, exclusive	व्यावृत्तक लिप्यवन
—, impressionistic	प्रभावात्मक लिप्यवन
—, inclusive	अभ्यावृत्तक लिप्यवन
—, multilateral	बहुवर्णात्मक लिप्यवन
—, narrow	सूक्ष्म लिप्यवन
—, phonemic	स्वनिमिन् लिप्यवन
—, phonetic	स्वनिक लिप्यवन
—, simple	सरल लिप्यवन
—, unilateral	अल्पवर्ण लिप्यवन
transfer	अन्वरण/विपरिणाम
— grammar (= contrastive grammar)	व्यतिरकी व्याकरण
transferred adjective	विशेषण विषयय
— meaning	सश्रमिन् अर्थ/लक्ष्यार्थ
transformation	रचनांतरण
transformational	रचनांतरणपरक
— density	रचनांतरणपरक घनत्व
— grammar	रचनांतरण व्याकरण
transition	सक्रमण
—, close	दृढ सक्रमण
—, open	गिबिल सक्रमण
transitive verb	सक्रमक क्रिया
translation, machine	यांत्रिक अनुवाद/मशीनी अनुवाद
— compound	भाषांतरणद समास
transliteration	लिप्यवरण

transmutation	
transmutation (= functional change)	प्राय परिवर्तन
transposition	विषय/स्थान दिनिमय
tree stem theory	वगवृग्वाद
trema	स्वरविसर्ग चिह्न
trial number	त्रिचन
triangularis muscle	त्रिकोण पत्नी
triangular vowel system	त्रिआण स्वर व्यवस्था
trigeminal nerve	त्रिधारा तंत्रिका
trigger segment	मोचक खंड
trigraph	त्रिआक्षर
trilateral root (triconsonantal root)	त्रिव्यजन धातु
trilateralism	त्रिव्यजातमा
trill	कपन
trilled	कपित
trihization	आकपन

tripal	त्रि-
triphthong	त्रिस्वर सध्यक्षर/त्रिस्वरा
triplets	त्रि
triptote	त्रिरात्री
tritych, grammatical	व्याकरण त्रिपुटी
trisyllabic	त्र्यक्षरित
trisyllable	त्र्यक्षर
trope	अप्रस्तुतविधान
trough	चरमत्रिपुटि वि दु
tune	राग
turn (= voice)	प्रयोग/वाच्य
twang (= nasalization)	नासिकस्वरजन
two dimensional vowel system	द्विविम स्वर व्यवस्था
tympanum	मध्यकण
type	1 टाइप/जाति 2 प्ररूप
typology	प्ररूपविधान

U

ultimate constituent	चरम अवयव
— tagmeme	चरम वधिम
— taxeme	चरम पदिम
umlaut (= vowel mutation)	अभिधुनि
unaccented	अनाघातित/आघातहीन
unaspirated	अल्पप्राण
unassimilated	असमीभूत/असमीकृत
uncial	अशिदल
unconditioned	अनाश्रित
uncountable noun	राशि/वाचक सज्ञा
under differentiation (of phonemes)	विरल विभेदन/ धूनविभेदन

underlying form	मूलाधार रूप
— word	मूलाधार शब्द
undershort sound	ह्रस्वतर स्वन
unflapp d (non flapped)	धनुःक्षिप्त
unilateral	एकपार्श्विक
unilateral transcription	अक्षरवर्ण लिप्यन्वय
unintentional sign	अनभिप्रेत संकेत
unipersonal verb	एकपुरुषक क्रिया
unique constituent	एकल अवयव
— irregularity	एकल अनियमितता
— morpheme	एकल रूपिम
uniqueness	एकलता/अद्वितीयता
unitive (= sociative)	सहवाचक/सहायक

universal grammar	सबभाषा व्याकरण
universe of discourse	वाद क्षेत्र/विचार क्षेत्र
unmanifested	अनभिष्यक्त
unmarked	अचिह्नित
— member	अचिह्नित अवयव/अचिह्नित सदस्य/तक्षणरहित घटक
unproductive suffix	अनुत्पादक परप्रत्यय
unreal condition	अवास्तविक हेतु
unrounded vowel	अवतुलित स्वर
unrounding	अवतुलन
unstable	अस्थिर
unstressed	बलाघातहीन
unvoiced	अधोप
unvoicing	अधोपीकरण

upper jaw	ऊँच हनु
—language (= dominant language)	प्रभावी भाषा
—lip	ऊँच ओंठ
upward comparison (= superior comparison)	उपरिमुखी तुलना/थेपेटता वाची तुलना
urbanism	नागर रूप
usual order	प्रायित् नम
ultraquietic subterfuge	उभयाय व्यपदेश
utterance	1 उक्ति 2 उच्छ्वार
uvula	अलिजिह्वा/वाक्बल्ब
uvular	अलिजिह्वा/अलिजिह्वीय
—position	अलिजिह्वीय स्थान
—trill	अलिजिह्वा कपन

V

vagus nerve	वेगस तन्विना
valence	सामर्थ्य/संयोजन क्षमता
valvate structure	वीरस्पर्णी निरोधक
variant, combinatory (= conditional variant/positional variant)	सोपाधिक परिवर्त
—, conditional (combinatory variant/positional variant)	सोपाधिक परिवर्त
—, contextual (combinatory variant/positional variant)	सोपाधिक परिवर्त
—, free	स्वतन्त्र परिवर्त
—, optional	वैकल्पिक परिवर्त

variant, positional (combinatory variant/positional variant)	सोपाधिक परिवर्त
variant on	परिवर्तन/विवरलान/विचरण
variety	भेद, प्रकार
velar	1 मृदुताल/कामठ ताल 2 तडय
velaric	मृदु ताल/कामठ ताल
velarization	मृदु ताल/कामठ/कामठ ताल/कामठ
velarized consonant	मृदु ताल/कामठ/कामठ/कामठ
velar vowel (= back vowel)	कामठ/कामठ/कामठ/कामठ

verb classes			verb of complete predication
verb classes	कृत्‌वर्ग	- personal	वर्तमान कृत्‌वर्ग
velum	कृत्‌वर्ग के अन्तर्गत	- pres. str.	विगत कृत्‌वर्ग
verbal	कृत्‌वर्ग	verbal	वर्तमान कृत्‌वर्ग
verb class based	कृत्‌वर्ग	- verbal	वर्तमान कृत्‌वर्ग
verb class	कृत्‌वर्ग	(1 st str.)	विगत कृत्‌वर्ग
verb	कृत्‌वर्ग	- verbal	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- active	कृत्‌वर्ग	- non dependent	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- affective	कृत्‌वर्ग	कृत्‌वर्ग	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- auxiliary	कृत्‌वर्ग	- verbal	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- causal	कृत्‌वर्ग	- verbal	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- common	कृत्‌वर्ग	- impersonal	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- compound	कृत्‌वर्ग	- weak	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- defective	कृत्‌वर्ग	verbal adjunct	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- dependent	कृत्‌वर्ग	उपसर्ग	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- duplicated	कृत्‌वर्ग	- verbal	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- finite	कृत्‌वर्ग	- compound	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- frozen	कृत्‌वर्ग	कृत्‌वर्ग	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- frequentative	कृत्‌वर्ग	- deriv.	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- function	कृत्‌वर्ग	verb's class	वर्तमान कृत्‌वर्ग
helper (auxiliary verb)	कृत्‌वर्ग	verbal noun	वर्तमान कृत्‌वर्ग
impersonal	कृत्‌वर्ग	- past	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- locative	कृत्‌वर्ग	- prepositional	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- instrumental	कृत्‌वर्ग	- root	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- intradual	कृत्‌वर्ग	verb base	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- irregular	कृत्‌वर्ग	verbal	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- 1 st	कृत्‌वर्ग	verb language	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- monoperosnal (no personal verb/impersonal verb)	कृत्‌वर्ग	- noun	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- neutral	कृत्‌वर्ग	- of complete predication	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- non conclusive	कृत्‌वर्ग	- incomplete predication	वर्तमान कृत्‌वर्ग
- non finite	कृत्‌वर्ग		

61

verbomania	शब्दोमाद	voice, middle	भाववाच्य
verb phrase	सयुक्त क्रिया/क्रियावध	—, impersonal	भाववाच्य/भावे प्रयोग
—sentence	त्रियावाक्य/क्रियाप्रधान वाक्य	—, passive	कमवाच्य/कर्मणि प्रयोग
vernacular	1 अवभाषा 2 सपक भाषा	voiced	सधोप
vetative	निषेधात्मक	voiceless	अधोप
vibrating	कपमान/स्पदनशील	voice pitch	स्वरतंत्री कपन/घोषत्व
vibration	स्पदन/कपन	—quality modulation	वाग्गुण परिवर्तन
vibratory trill	स्पदनशील कपन/कपनयुक्त स्पदन	voicing	1 घोषीकरण 2 घोषत्व
visual morpheme	सकेतित रूपिम	voltive (voluntative)	इच्छायक
vocable	शब्द	—subjunctive	इच्छाबोधक सभावनायक
vocal apparatus (vocal organ)	वाग्ग्यन	voluntative (= optative)	इच्छायक
—feature	see sound	vowel, abnormal	मध्य स्वर
vocaloid	see semi consonant	(=central vowel)	
vocabulary	1 शब्द समूह 2 शब्द समूह	—, anaptyctic	विप्रकषक स्वर
vocal band	वाक्-पट्टी	—, back	पश्च स्वर
—cords	घोषतंत्री	—, bridge	सेतु स्वर
—, false	आभासी घोषतंत्री	—, cardinal	मान स्वर
—fold	घोषवली	—, central	मध्य स्वर
vocalic	स्वार/स्वरात्मक	—, close	सवृत्त स्वर
—consonant	see semi-consonant	—, consonantal	व्यजनात्मक स्वर
—element	स्वराग	— dark (back vowel/ deep vowel)	पश्च स्वर
vocalization	स्वरीकरण	—, front	अग स्वर
vocalism	स्वर-व्यवस्था	—, glide	विसर्ग स्वर/श्रुति
vocal ligament	वाक्-स्नायु	— high	उच्च स्वर
vocaloid	see semi consonant	—, inherent	अतनिहित स्वर
vocal organ	वाग्गवयव/वाग्ग्यन	—, labialized	ओष्ठ्यरजित स्वर
vocative	सबोधन	—, laryngealized	काण्ठ्यरजित स्वर
vocoid	स्वर-ध्वनि/स्वरक	—, lax	गिथिल स्वर
voice	1 घोष 2 वाच्य	— light	अनापानित स्वर
—, active	वतृ वाच्य/वतरि प्रयोग	(=unaccented vowel)	
—, inactive	अवतृ वाच्य/अवतरि प्रयोग	—, low	निम्न स्वर
		—, mid	मध्य स्वर
		—, murmured	ममर स्वर

—, obscure	अस्पष्ट स्वर
—, open	विवृत् स्वर
—, pure	धुद्ध स्वर
—, retroflex	प्रतिवेषित स्वर
—, slender (= front vowel)	अग्र स्वर
—, velar (= back vowel)	पदच स्वर
—beginning	स्वरारम्भ
—fracture	स्वर विभग
—gradation (= ablaut/apophony)	अवच्छ्रुति

vowel harmony	स्वर सगति
—mutation (=umlaut)	अभिभ्युक्ति
—quality	स्वर गुण
—system	स्वर व्यवस्था
—triangle	स्वर त्रिकोण
vow mbili	see phantom word/ghost word
vulgar	अगण्ट/प्राच्य
vulgarism	प्राच्यना

W

wave hypothesis	तरंग-पन्थिल्वना
—theory	तरंगवाद
—train	तरगावलि
weak conjugation	नियमित क्रियारूप
—declension	नियमित समाहार
—noun	नियमित सना
—stress	जल्प बलाघात/दुबल बलाघात
—verb	नियमित विधा
whisper	कुमकुसाहट/उपासु
whispered vowel	कुमकुसाहट-स्वर/उपासु स्वर
whispering	कुमकुसाहट/उपासु
whistle point	सीटी स्थान (हिंदी)
white noise	श्वेत रव
widened meaning	विस्तृत अर्थ
wide vowel (loose vowel or lax vowel)	किष्किष् स्वर
will mood (=imperative mood)	आपायक वृत्ति

wind pipe (= trachea)	श्वास नली/श्वाम प्रणाल
word	1 शब्द 2 पद
—, accessory	सहायक शब्द
—, action	प्रियावाचक शब्द
—, alien (= foreign word)	विदेशी शब्द
—, anaphoric	अवादेशक शब्द
—, associated	सहचारी शब्द
—, borrowed	आप्त शब्द/आगत शब्द/ स्वीकृत शब्द
—, clipped	छिन्न शब्द
—, coined	सष्ट शब्द/निर्मित शब्द
—, complex	मिश्र शब्द
—, composite	समस्त शब्द
—, compound	समास/समस्त पद
—, content	पूर्णार्थ शब्द
—, contextualized	संदर्भित शब्द
—, dead	मृत शब्द

word, derived

word, derived	व्युत्पन्न शब्द	word, derived	
—, domesticated	समादत्त शब्द	—, domesticated	
—, echo	प्रतिध्वनि शब्द	—, echo	
—, empty (=function word)	प्रकाय शब्द/रिक्त शब्द	—, empty	
—, form	स्वरूप	—, form	
—, full (=cont nt word)	पूर्णापि शब्द	—, full (=cont nt word)	
—, ghost (=phantom word)	आनक शब्द	—, ghost (=phantom word)	
—, governed	निराजित शब्द	—, governed	
—, governing	निराजक शब्द	—, governing	
—, head	प्रधान शब्द	—, head	
—, hypertrophied	अतिवृद्ध शब्द	—, hypertrophied	
—, hypocoristic	अल्पशब्द	—, hypocoristic	
—, imitative (=onomatopoeic, imitative)	अनुनासिक शब्द	—, imitative (=onomatopoeic, imitative)	
—, indigenous (=native or vernacular word)	देशीय शब्द	—, indigenous (=native or vernacular word)	
—, inflected	—	—, inflected	
—, key	मुख्य शब्द	—, key	
—, learned	विद्वान् शब्द	—, learned	
—, link (=con, action)	—	—, link (=con, action)	
—, living	व्यंजित शब्द	—, living	
—, mass	सामान्य शब्द	—, mass	
—, mimetic	महंनिवाचक शब्द	—, mimetic	
—, mongrel	अनुकरणा-शब्द	—, mongrel	
—, morphological	मातर शब्द	—, morphological	
—, name (=proper name)	स्वयन्क्रियारमक शब्द	—, name (=proper name)	
—, name	व्यक्तिवाचक नाम	—, name	
—, native	धर्मिजन शब्द	—, native	
—, native	देशीय शब्द	—, native	
		—, satellite	
		—, secondary (see adjunct)	
		—, sentence	
		—, simple	
		—, superlativized	
		—, tabular	

word, telescope

zygomatic muscle

word (expression), telescope (=portmanteau word)	संपृक्त शब्द	word grammar	पद-व्याकरण
—, underlying	आधार शब्द	— language (sec- analytical language)	स्वायत्तशब्द भाषा (विदलेषणात्मक भाषा)
—, autonomy	शब्द-स्वायत्तता/पद स्वायत्तता	— limit	शब्द सीमा/पद सीमा
—, category	शब्द श्रेणी	— marker	शब्द चिह्न
— class	शब्द वर्ग	— order	शब्द क्रम
— declination	शब्द परिसीमन/पद परिसीमन	— sentence	शब्द-वाक्य
— dependence	शब्द सापेक्षता	— sign	शब्द-संकेत
— family	शब्द कुल	— stress	शब्द बलाघात
— formation	शब्द रचना	— unity	शब्द एकता/पद-एकता
— freedom	शब्द निरपेक्षता	— writing	शब्द लेखन
		wrenched accent	भ्रष्ट आघात
		writing	लेखन

Y

yo dization	यकारकरण	yo he ho theory	यो ह हो वाद
-------------	---------	-----------------	-------------

Z

zero affix	शून्य प्रत्यय	— juncture	शून्य संहिता
— alternant	शून्य परिवर्त	— modification	शून्य विकृति
— article	शून्य उपपद	— morpheme	शून्य रूपिम
— change	शून्य परिवर्तन	— phoneme	अचिह्नित स्वनिम
— element	शून्य	— sound (s)	शून्य स्वन
— ending	शून्य प्रत्यय	zoomorphic (term)	जीवारीपित (शब्द)
— feature	शून्य	zygomatic muscle	गड़ पेसी

हिन्दी - अंग्रेजी

HINDI-ENGLISH

मानविकी-शब्दावली—V

भाषाविज्ञान

HUMANITIES GLOSSARY—V

LINGUISTICS

अ

अक्षर	notation	अतनिहित अक्षर	paragogic syllable
अग	crude base/stem	—स्वन	paragogic sound
अगविक्षेप भाषा	gesture language/pas- mology	—स्वनिम्न	paragogic phoneme
—वाद	gestural theory	अतनिहित	epithesis/paragoge
अगविक्षेप विज्ञान	kinemics (also kine- sies)	अत प्रत्यय	ending
अगागिशाचन (उपादान लक्षणा या एक प्रकार)	synecdoche	अन्तरण	transfer
अत केन्द्रित	endocentric	अतराक्ला श्वासद्वार	intermembranous glottis
—रचना	endocentric construc- tion	अतराक्षरिक्	1 intersyllabic 2 intrasyllabic
अन क्षेपक	injective	अतरापशुना पत्नी	intercostal muscle
अत छडित	intercepted	अतराभाषा (आगत शब्द)	interlinguistics (loan)
अत म्य	median (sound)	अतराभाषाविज्ञान	interlinguistics
अत स्फोटक	implosive	अतराभाषिणी (आगत शब्द)	interdialectal (loan)
—उच्चारण	implosive articulation	अतराय	interruption
अत स्फोटन	implosion	अतरायण	interruption
अत	1 ending 2 final 3 coda	अतरायिक विच्छलन अभ्यास	interrupted slur exercise
अतनिहित	epithetic/paragogic	अतरावाक्य मलगन	intersentential linkage
		अतरासंवेदना अन्तरण	intersensorial transfer
		अतरास्वर	intervocal (= intervocalic)

अंतरित समीकरण	distant assimilation	अगत धावय गमास	semi-syntactic	com
—समीभवन	distant assimilation	—सश्लिष्ट समाम	pound	pound
अंतरोपस्थि श्वासद्वार	interarticulaginous glottis	अगपाती	semi-synthetic	com
अतर्गामी विल्क रणन	ingressive click timbre	—वितरण	pound	pound
—धायुप्रवाह	ingressive air stream	अगमूचक आटिनल	overlapping	overlapping distribution
अतदतीय	inter dental	अशियल	overlapping	overlapping distribution
अतदत्य	inter dental	अगोद्वरण	partitive article	partitive article
अतनिविष्ट उपवाक्य	inserted clause	असकठिना पेगी	uncial	uncial
अतनिहित अभिलक्षण	inherent feature	अरतरि प्रयोग	hypostasis	hypostasis
—स्वर	inherent vowel	अकृत वाच्य	omohyoid muscle	omohyoid muscle
अतराष्ट्रीय भाषा	interlanguage	अरमक श्रिया	inactive voice	inactive voice
—स्वन वणमाला	International Phonetic Alphabet (I P A)	अनेद्रक	inactive voice	inactive voice
अतर्वाक्य सलगन	intrasentential linkage	अनमिक स्वन परिवतन	intransitive verb	intransitive verb
अतर्वेधी	intrusive		non nucleus	non nucleus
अतिमूचक	pre final		sudden phonetic change	sudden phonetic change
अतिमोत्तर	post final	अक्ष	axix	axix
अतोदात्त	oxytone	अक्षतनु	axon	axon
अतोदात्त	oxytonic	अक्षर	syllable	syllable
अत्य	final	—चिह्न	syllabogram/syllable	syllabogram/syllable
—आघात	final accent	—माला	sign	sign
—परिरेखा	terminal contour	—लेख	syllabary	syllabary
—प्रत्यय	desinence/termination	अक्षरविधान	syllabigram	syllabigram
—बलाघात	terminal stress	अक्षर विभाजन	syllabics	syllabics
—माला	terminal string		syllabation/syllabication	syllabation/syllabication
—लोप	apocope	—गुण	tion/syllabification	tion/syllabification
—विसर्प	final glide/off glide	—गिखर	onomancy	onomancy
—स्वराघात	final pitch	—स्वनिम	syllabic peak	syllabic peak
अक्ष	element	अक्षराधित लय	syllable phoneme	syllable phoneme
अगत अक्षविषयक	quasi semantic	अक्षबारी भाषा	syllable timed rhythm	syllable timed rhythm
—निरपेक्ष	semi absolute	अप्र कृ तक रेखा	journalese	journalese
—भाषाविषयक	quasi linguistic	अप्रताल्य	frontal incisorline	frontal incisorline
—भाषा व्यवस्था	quasi linguistic system	अप्र ल'	prepalatal	prepalatal
			clear 'l'	clear 'l'

अग्र स्वर			
अग्र स्वर	front vowel (bright vowel/palatal vowel/slender vowel)	अतिव्यापन	overlapping
अग्रोक्तरण	fronting	अतिव्यापी	overlapping
अग्रोद्धृत	fronted	अतिशय कोटि	superlative degree
अघोष	unvoiced/voiceless/surd/breathed	अतिशयवाचक समास	intensive compound
—आरम्भ	breathed beginning	अतिशयोक्ति	hyperbole
—स्वन	breathed sound	अतिशोधन दोष	hypercorrection/over-correction
—स्पृण	tenuis	अतिशोधन रूप	hyper form/hyper urbanism (overcorrectness)
अघोषोक्तरण	devoicing/unvoicing	अतिसमिध (केन्द्र)	hyper complex (nuclei)
अघोषोद्धृत	devoiced	अतिसवेदन	hypraesthesia
—स्पृण	devoiced plosive	अतीतायक वतमान	historical present
अचिह्नित	unmarked member	अतुल्यकालिकता	asynchronism
—सदस्य	unmarked member	अद्वितीयता	uniqueness
—स्वनिम	zero phoneme	अघर उ नमनिका पेशी	mentalis muscle
अचेतन	inanimate	अघरोष्ठ	lower lip
—लिङ्ग	inanimate gender	अघस्तल	stratum
अद्धदम भाषा	non simulata e language	—भाषा	stratum language
अणु	molecule	अधिक पद	pleonastic
अतितान	overtone	—पदत्व	pleonasm
अतिदीघ	overlong	अधिकार क्षेत्र	domain
अतिनागरता	hyper urbanism (overcorrectness)	अधिवरण उपवाक्य	locative clause
अतिनागर रूप	hyper urbanism (overcorrectness)	—कारक	locative case
अतिबाहुल्य	plethora	—निपात	locative particle
अतिभाषिक वृत्ति	hyperdialectism	अधिकोक्त बहुवचन	generous plural
अतिभाषिका वृत्ति	hyperdialectism	अधिक्रम	hierarchy
अतिवर्धित शब्द	hypertrophied word	अधिशो स्वन	exponential sound (suprasegmental)
अतिवाचक समास	intensive compound	अधिखडात्मक अभिव्यक्ति	suprasegmental feature
अतिविभेदन	over-differentiation	—स्वनिम	suprasegmental phoneme
अनिबुद्धि	hypertrophy	अधिखडीय अभिव्यक्ति	suprasegmental feature
		—रूपिम्	superfix

अधिपरिच्छिन्न अभिलक्षण

अधिपरिच्छिन्न अभिलक्षण
—स्वनिम

अधिप्रत्यय

अधिवाक्य व्याकरण

अधिविधेय-सम्बन्ध

अधिविशेषक

अधिसर्वस्वनात्मक

अधिमध्य

अधिसतृप्त शब्द

अधिसतृप्ति

अधिस्वरक

अधीन

—उपवाक्य

—परिवत

—विकल्प

अधीनता

अधीनतामूकक समुच्चय

बोधक

अधोनिह्न तयिका

अधोमुखी तुलना

अधोविषय

अधोहनु

—नाया

अष्टमारोपण

अष्टमाहार

अनतिम

अनवयवक

अनवितकर्ता

आभिप्रेतक

suprasegmental feature

suprasegmental

phoneme

suprafix/suprafix

(=simulfix)

supra sentence

grammar

supernex

superjunct

supra summative

supernumary

super saturated word

sursaturation

overtone

subordinate

subordinate clause

subordinate variant

subordinate variant

subordination

subordinating conjunc-

tion

hypoglossus nerve

inferior comparison

(downward compar-

ison)

down glide

mandible (lower jaw)

ramus mandibula

superimposition

ellipsis

non-final

verbal proposition

nominative absolute

unintentional sign

अनभिव्यक्त

अनाक्षरिक

अनाघातित

—स्वर

अनावयवक अद्य

अनाश्रित

—स्वनि परिवर्तन

अनित्य सधि

अनिबद्ध वृत्ति

अनियत वृत्ति

—शब्द-क्रम

—शब्दाघात

अनियमवादी

अनियमित त्रिया

—त्रियारूप

—परिवत

—रूपवय

—विरूप

—शब्दक्रम

—सपा

—मधि

अनिदृष्ट गाल

—नपुंसकलिङ्ग

अनिर्घातता (स्वान)

अनिवाय

अनिदृष्टायक सम्बन्ध

अनिदृष्टायक आटिकल

—उपपद

unmanifested

asyllabic/non syllabic

unaccented

unaccented vowel

(=light vowel)

floating element

unconditioned

autonomous sound

change

optional sandhi

non committal mood

infinite mood

free word order

free word accent

naturalist/anomalist

irregular verb/strong

verb

strong conjugation

irregular alternant

irregular form class

irregular alternant

strong declension

strong noun

irregular sandhi

norist

unspecified neuter/

conceptional neuter

(area of) indetermi-

nancy

compulsory

indefinite pronoun

indefinite article

indefinite article

अनुकरण	imitation/mimicking/ mimicry	अनुज्ञापक वृत्ति अनुतान —विच्छेद —स्वनगुणिम	permissive mood intonation (= tonality) intonation break intonational prosodeme intonational intonetional intonational contour irreversibility (of coal- scence)
अनुकरणवर्ती	imitator	अनुतानात्मक अनुतानिक — परिरेखा (सधि) अनुक्रमणीयता	unflapped (non flapped) unproductive suffix grave accent petitionary sentence precative mood resonance resonance chamber resonance chamber resonator resonance nasalization expletive applied meaning applied linguistics (practical linguistics) applied phonetics (practical phonetics) application alliteration empiricist empirical concessive subjunctive concessive conjunction inference
अनुकरणवाद —शब्द	onomatopoeic theory	अनुक्षिप्त अनुपादान परप्रत्यय अनुदात्त अनुनय वाक्य —वृत्ति अनुनाद —कोष्ठ —विवर अनुनादक अनुनादी अनुनासिका अनुपूरक अनुप्रयुक्त अर्थ —भाषाविज्ञान —स्वनविज्ञान	
— — रचना	onomatopoeia		
अनुकरणात्मक	imitative		
—लेबल प्रविधि	imitation label tech- nique		
अनुकारक	imitator		
अनुकूलन	adaptation		
—सिद्धांत	adaptation theory		
अनुकूल परिवर्तन	adaptive change		
अनुक्त कर्म	indirect object/object of reference		
अनुक्रम	1 sequence 2 succession		
—आरेख	sequence diagram		
—वर्ग	sequence class		
—वाक्य	sequence utterance		
अनुक्रमी	successive		
—अर्थांतरण	succession (Ullmann)		
—स्वन	successive sound		
अनुक्रमोत्तर	post sequential		
अनुघर्षी	affricate/semi plosive		
अनुचिताय (प्रयोग)	catachresis		
अनुच्चरित	silent		
—भाषण	endophasia		
—स्वन	inarticulate sound		
अनुच्चावच सदिग्ध युग्म	non fluctuating suspi- cious pair		

अनुमिति पक्ष	inferential aspect (putative aspect)	अवादेश	anaphora
अनुमोदनायक सभावनायक	concessive subjunctive	अवादेशक	anaphoric
अनुरणन वाद	onomatopoeic theory	—शब्द	anaphoric word
—शब्द	onomatopoeic word (onomatopoeic word)	अचित विन्यास	collocation
अनुरूप स्वन	corresponding sound	अचिति	1 accord/agreement/ concord 2 congruence
अनुरूपता	similitude	अवेपणात्म्य	heuristic
अनुलेखन	citation	अपक्व	pejoration
अनुगासनमूलक व्याकरण	prescriptive grammar	अपक्वक परप्रत्यय	pejorative suffix
अनुगासन व्याकरण	prescriptive grammar	—परिवर्तन	pejorative change
अनुगासनात्मक	prescriptive	अपक्वण	abstraction
अनुपगा	satellite	अपक्वर्षि	decadent
—शब्द	satellite word	अपक्षय	decrement
—शब्द	satellite peak	अपक्षे-द्री	centrifugal
अनुसग	postposition	अपगामी	aberrant
अनकविध पूरण	multiple complementa tion	अपघटन	decomposition
अनवायना	plurivalence	अपरचना	malformation
अय पुरुष	third person	अपरिच्छेदक	non distinctive (irrelevant)
अ यथा उच्चारण वतनी	heterographic spelling (= heterography)	—अभिलक्षण	non distinctive feature
अ योक्ति रूपन	allegory	अपर्यायवाची (सहचय)	non synonymic (association)
अ यो य श्वाप्ति	interanimation	अपसरण	divergence
—सदभ	cross reference	अपसामान्य	abnormal
—समीकरण	reciprocal assimilation	—उष्म	abnormal sibilant
—समीभवन	reciprocal assimilation	अपादा	1 ablative 2 ablation
अयो साश्रय	correlation	अपाय	detachment/separation
अयो साश्रित	correlative	अपिनिहिति	epenthesis/excrement
—समुच्चयवाचक	correlative conjunction	अपूर्ण अनुकरण	imperfect imitation
अश्रय	concordance	—अवरोध	incomplete closure
अश्रयार्थ	paraphrase	—उच्चारण	imperfect articulation/ incomplete articula tion
अश्रयार्थपण	attraction	—शब्द	imperfect tense

अपूर्णकालिक पक्ष

अपूर्णकालिक पक्ष	progressive aspect
अपूर्ण वृद्धत विशेषण	imperfect participle
—पक्ष	imperfecture aspect (=atelic aspect)
—रूप निया	incomplete verb
—विधेय क्रिया	verb of incomplete predication/incomplete verb
—सवार	incomplete closure
अपूर्वकारणीय	inseparable
अप्रकट	covert
—सरचना	covert structure
अप्ररटावय	asyndetism
अप्ररटावित	asyndetic/paratactic
अप्रकाशन	suppression
अप्रचलित	fossilized/obsolete
अप्रतिच्छेद	non intersect on
अप्रतिबंधक विशेषण	non restrictive adjunct
अप्रधान अक्षर	non prominent syllable
अप्रत्यक्ष	non perceptible
—उद्धरण	indirect quotation
—रथन	indirect discourse
—प्रश्न	indirect question
अप्रस्तुत विधान	trope
अत्रेरणाथक (क्रियाहृत्)	incausal
अभावपूरक प्रयोगन	need fillin _g motive
अभावसूचक	privative
अभिनेत्री	centripetal
—सद्यप्रश्नर	'centring diphthong
अभिप्रेत पक्ष	putative aspect
अभिजा नाम	surname
अभिधा परिभाषा	nominal definition
—पद	naming word
अभिधेय नाम	christian name

अभिन्न प्रयोग	neologism
अभिनिधान	imperfect articulation/ incomplete articula- tion
अभिनिघम	canon
अभिनिघारण	identification
अभिप्राय	intension (intention)
अभिप्रायात्वरु टोटि	notional category
— परिभाषा	notional definition
अभिप्रेत सन्त	intension of sign
अभिप्रेरण	motivation
अभिप्रेरित पद	motivated word
अभिमुख्य कारक	aditive case
अभिरचन	patterning/patternment
अभिरचना	pattern
— अविति	congruently patterned/ pattern congruity
—समता	congruently patterned/ pattern congruity
—सौष्ठव सिद्धांत	principle of neatness of pattern
अभिरक्षण	feature
अभिरद्धत तर	accretive element
अभिवान्त फारक	allative case
अभिविहित पुरूपयाचक	inclusive personal pro noun
सवगाम	attitude measurement
अभिवृत्ति मापन	accretion
अभिवृद्धि	manifesting
अभिव्यञ्जक	objective (= manifest ted)
अभिव्यक्त	express on
अभिव्यक्ति	umlaut (= vowel mu tation)

अभिसारी	convergent	अथ परिवर्तन वा आदेश	metasemic substitute
अभिहित	marked	— वा विकास	metasemie evolutive
— लक्षण	marked feature	— पूरक	semantic complement
अभ्यस्त	reduplicative	प्रथ-प्रक्षेप	subreption
— गल	reduplicative word	अथ भेद बोधि	semantic space
अभ्यागत लिप्यवन	inclusive transcription	अथ माध्य	semantic average
— वितरण	inclusive distribution	— मावन	measuring (meaning)/
अभ्याग	reduplication (extrusion)	प्रथवह अनुरणन	semantic measurement
अभ्युपगम	concession	अथ विचार	phonaesthetic function
अमगलसूचक रूप (शस्त्र)	— ominous form	— विकृति	semantic change
अमहद्वाची सना (तलुयु)	casteless noun	अथ विज्ञान	(= semantic shift)
अमृत भाषा	displaced speech/abstract speech/abstract language	अथ विज्ञानी	semantic pathology
अयुग वारलक	azygos uvulae	अथ विपरिणाम	semantics (semasiology
अयोगात्मक भाषा	isolating language	— विविधता नियम	/sematology/significs)
अष्टपात्मक भाषा	formless language	अथ वैचिन्त्य नियम	semanticist (= semantician)
अरैचिन	non linear	— सवाच	displacement of meaning
अथ	1 meaning/sense/import 2 mood	— एकमण	principle of diversity of meaning
— अवल	semantic differential	— गमण	semantic space
— अस्पष्टता	semantic vagueness	— सूचक	semantic aphasia
— अोगत	semantic average	अथसूचक लिति	semantic extension/
— अिवाग	pragmatism		ecsemic/extension of meaning
— क्षेप	semantic field		principle of diversity of meaning
— गुह्य सिद्धांत	esoteric doctrine of meaning		prosemic/specialization of meaning
अथच्छाया	nuance		semantic contagion
अथ पराग	semantic range		semantic contagion
— परिवर्तन	semantic change (semantic shift)/alteration of meaning		semantic indicator
			semasography

अर्थ स्फुरण

अर्थ स्फुरण

—सर्वांगसमता

अर्थहीन रूप

अर्थतिम्भार

अर्थादान

अर्थदेश

अर्थानुसारी अवयव

अर्थरिरोप

अर्थी वृत्ति

अर्थिम

अर्थोत्कष

अर्थोत्कर्षक

—परप्रत्यय

—परप्रत्ययविधान

अधवाक्य

अधविराम

—विद्वृत

—व्यञ्जन

—सबूत

—स्वर

अधोक्ति

अलकार

अलिग

अलिजिह्व

—कम्पन

अलिजिह्वा

अलिजिह्वीय

—स्थान

असुब समास

अल्पतम

—युग्म

—वैषम्य

flash of meaning

semantic congruence

non sense form

semantic overload

semantic borrowing

displacement of meaning

synesis

metecemie

semantic congruence

sememe (semanteme)

melioration/amelioration

meliorative

meliorative suffix

melioration

semi articulate sentence

semi colon

half open

semi consonant

half close

semi-vowel

anacolouthon

figure

genderless

uvular

uvular trill

uvula

uvular

uvular position

improper compound

minimal

minimal pair

minimal contrast

अल्पदेशीय युग्म

—वैषम्य

अल्प परिच्छेद

—परिमाण

अल्पप्राण

अल्पप्राणत्व

अल्प बलाघात

अल्पवण लिप्यङ्कन

अल्पविराम

अल्पव्याप्त समुच्चय

अल्पग वाक्य

अल्पायक

—परप्रत्यय

अवगम मिद्धात

अवग्रह

अवटक

अवटु उद्बध

—उपजिह्वा पेशी

—उपास्थि

—दर्वीन रूप पेगी

अवधारण

—उच्चारण

—क्रम

—नमास

—सवनाम

अवधारण

—पक्ष

analogous pair (= subminimal pair/non-minimal pair/near minimal pair)

non minimal contrast

microsegment

short quantity

unaspirated/non aspirate

non aspiration

(= smooth breathing)

weak stress

unilateral transcription

comma

minor set

inarticulate sentence/

minor sentence

diminutive

diminutive suffix

information theory

open juncture/disjuncture

surname

adam's apple

thyroepiglottis

muscle

thyroid cartilage

thyroarytenoid muscle

intensive (= emphatic)

emphatic articulation

emphatic order

intensive compound

intensive pronoun

emphasis

intensive aspect

—वृत्ति

अवधि

अवनमन

अवपाती वारक

अवभाषा

अवभाषिना

अवमिथित

अवयव

अवयवी

अवरोध धारम्भ

—स्वर

अवरोध

अवरोधन

—खड

—वक्ष स्पद

—व्यजन

—स्पद

अवरोहो

— आरोहो तान

— - —स्वरापात

—उपवायात

—बलापात

—मयन्तर

अवतुलन

अवतुलित स्वर

अवलवन शब्द

अवसिद्ध क्षेत्र

energetic mood/emphatic mood

energetic mood/emphatic mood

duration

lowering

delative case

vernaacular

patois

corrupt

1 constituent

2 mechanism

3 organ

1 constitute

2 organic

stopped beginning

muffled vowel

closure

arresting

arresting segment

arresting chest pulse

arresting consonant

arresting pulse

falling/minuent

entering tone

falling rising pitch

fading clause terminal

diminuendo stress/cadent stress

falling diphthong

unrounded

unrounded vowel

prop word

relic area

अगित् रूप

अक्षय

अश्रुति

असाक्ष्य

असाक्षि युक्ति

असाक्षि वस्तु

अविनरण

—रचना

—ममात

अविवारी

—वास्व

—परिवतन

अविच्छेद्य

अविधेय क्रिया

—क्रिया रूप

अविधेय वृत्ति

अविभाज्य

अवियोज्य तवध

अविषम युग्म

—वितरण

अव्यक्त यात्र

—स्व

अव्युपागी भाषा

अव्यय

अव्यवधान

अव्यवस्थित सहेत

अव्यवस्थित सहेत

relic form/fossil form/survival

relic form/fossil form/survival

apophony/metaphony/vowel gradation/ablaut

non sentence

non verbal device

unreal condition

athematic

athematic formation

athematic compound

indeclinable/invariable/immutable/inflexible

direct case

invariable alternation

inseparable

non finite verb

non finite verb form/infinite form

infinite mood

inseparable

inalienable possession

non contrastive pair

non contrastive distribution

non speech sound

articulate sound

non deriving language

indeclinable/invariable/inflexible/immutable

contiguity

non systematic sign

अव्यवहित

अव्यवहित	contiguous/immediate
—घटना	immediate constituent
—विपमीकरण	contact dissimilation
—विपमीभवन	contact dissimilation
—समीकरण	juxtapositional assimilation/contiguous assimilation
—समीभवन	juxtapositional assimilation/contiguous assimilation
अगिष्ट	vulgar
—रूप	obscene form
अशुभ रूप (शब्द)	ominous form
अश्लिष्ट योगात्मक भाषा	simple agglutinative language
अश्लील रूप	obscene form
—शब्द	non word
असंग्रहेय मना	mass noun (= uncountable noun)
अमगत	1 anomalous
	2 nonsense
—अक्षर	nonsense syllable
असंगति	1 incongruity
	2 anomaly
असंचयन	discontinuation
असंचायक	discontinuous
असतत	discontinuous
—रूपिम	discontinuous morpheme
असदिग्ध युग्म	non-suspicious pair
असनादी वाद	inharmonic theory
असंपूर्ण वाक्य	inarticulate sentence (minor sentence)
अमत्रदालाप	gallimatias

असलीन समास

असलम्न

असवादिता

असति नहित

— विपमीकरण

— विपमीभवन

— समीकरण

असम रूप

— लेख बतनी

अगमानताबोधक बहुवचन

असमीत्रत

असमीभूत

असमस्त

— विवेय

असम्पूर्ण वाक्य

असवण

असातदय

असंग्रहेय

अस्ति

अस्तिवाची वाक्य

अस्तिवाचक

— समुच्चयबोधक

अस्थायी गुणवाचक

अस्थिर

— अग

अस्पष्ट

— विषयम

— स्वर

अस्वनिमिक बलाघात

phrasal compound

abrupt/detached

dissonance

non contiguous/remote

remote dissimilation

remote dissimilation

incontiguous assimilation/distant assimilation

heteroclit

heterographic spelling (=heterography)

plural of social

inequality

unassimilated

unassimilated

non compound

simple predicate

inarticulate sentence/minor sentence

heterorganic

discontinuation

non significant

affirmation

existential sentence

affirmative

positive conjugation

phenomenon on word

unstable

floating element

ambiguous

dystasy

obscure vowel

non phonemic stress

आचलित रूप

आतर अवष्टम्भन

— वण

— रूप

आतरायिक स्पश

आशिव

— त्रिया

— पूरण

— समीकरण

— स्वन सात्पर्य

आकपन

आनर्पी उच्चारण

आकृति

आक्षरिक

— बलाघात

— लेखन

— विभाजन

— व्यजन

— हेरफेर (हिले)

आरपाता

आग्नेय

आगतुक् स्वन

आगत अनुवाच

regionalism/provin-
cialism

inner censorship

inner ear

inner form

intermittent stop

partial

verbid

partial complementation

accomodation

partial phonetic simi-
larity

frillization

spasmodic articulation
form

(1) syllabic

(2) sonant

syllabic stress

syllabic writing

syllabic division

syllabic consonant

syllabic manipulation

designans

designatum

adventitious sound

semantic calques

(=loan translation)

आ

आगत अय परिवर्ति

— मिथ्र शब्द

— शब्द

आगम

आगमनात्मक सामा यो-
करण

आघात

— परिवर्ति

— स्वनिम

आघातन

आघातित

आघात लोप

आघातहीन

— तान

आनाथक

— तान

— तान

— तान

— तान

— तान

— तान

— तान

— तान

— तान

— तान

— तान

— तान

— तान

— तान

loan shift

loan blend

borrowed word/
loan word

augment

inductive

generalization

accent

accent shift

accentual phoneme

accentuation

accented

loss of accent

accentless/unaccented/
atonic

accentless tone

imperative mood

(=jussive mood/
will mood)

imperative sentence

imperative mood

(=jussive mood/
will mood)

jussive subjunctive

middle verb

reflexive pronoun

आदत्त शब्द	borrowed word	आद्यप्ररूप	archetype
आदराधिक	honorific	आद्यप्ररूपण	archetypation
आदेश	norm	आद्य विसर्ग	initial glide (=on glide)
आदेशक उपगम	normative approach	आयात्री	matrix
— व्याकरण	normative grammar	आधातु वाक्य	matrix sentence
आदान	borrowing	आधार	1 base 2 kernel 3 fundamentum
आदि	(1) initial (2) proto	— क्ल	basilar membrane
— आघात	initial accent	— रूप	base form/ underlying form
आदिनिहित स्वनिम	prothetic phoneme	— वाक्य	premise/basic sentence/kernel sentence
— स्वर	prothetic vowel	— — (प्ररूप)	basic sentence (type)
आदिनिहिति	prothesis	— शब्द	underlying word
आदि प्ररूप	proto type	आधारी परिवर्त	basic alternant
आदिम भाषा	primitive language	— विकल्प	basic alternant
— शब्दायविवान	primitive semantics	आधिव्यवाधक	redundant
आदि लोप	aphesis	— प्रकार	redundant function
— विभक्ति	initial inflection	आनन तत्रिका	facial nerve
— स्वनलोप	aphaeresis/apheresis	आनुक्रमिक	successive
आदिष्ट	replacive	आनुपातिक प्रतियोग	proportional
आदि स्वरलोप	aphesis	— विरोध	opposition
आदेश	replacive/replacement/ antique substitute/ substitution	— सादृश्य	proportional analogy
— अनुपम	substitution sequence	आनुक्रमिक वर्गीकरण	genetic classification/ geneological classifi- cation
— पद	substitution item	— सबंध	genetic relationship
— प्रकार	substitution type	आप्रवासो भाषा	immigrant language
— बंध	substitution frame	— घोषतंत्रो	false vocal cords
— रूप	substitution alternant/ substitution form	आभासी पक्ष	apparitional aspect
— सूची	substitution list		
आद्य	1 initial 2 proto		
— उत्परिवर्तन	initial mutation		
— बलाघात	initial stress		

प्राथमी त्रित्वर

आभाती त्रित्वर (सद्यशर)

आभ्यतर

- अवग्रह
- परिवतन
- पुनरचना
- प्रयत्न
- वितरण-वग

- विप्रवृष्ट संहिता
- विभक्ति
- विराम
- विसधि
- व्याकरण
- सधि

आभ्रडित समास

आपतावार स्वर व्यवस्था

आयाम
आरभमाण पक्ष

आरोही

- अवरोही स्वराघात
- उपवाचयात
- तान
- बलाघात

— सध्यशर
— स्वराघात

improper triphthong

interior (internal)

internal open juncture

internal change

internal reconstruction

internal effort

internal distribution

class

internal open juncture

internal flexion

internal pause

internal hiatus

internal grammar

internal sandhi

(= morphologic

sandhi)

iterative compound/

repetitive compound

rectangular vowel

system

amplitude

inceptive aspect/

inchoative aspect/

ingressive aspect

rising/crescendo

rising falling pitch

rising clause terminal

rising tone

crescendo stress/

levant stress

rising diphthong

rising pitch

आर्कीट्पिम

आर्कीस्वनिम

आटिक्क

आयेंतर

आय

आलवारिक

आवधिक्

आवर्ती विचार

आवद्य पक्ष

आवत्ति

— बड

— वक्

आद्य

आशयसूचक (तन्त्र)

आशयसूचक समुच्चयबोधक्

आश्रयावय

आश्रित

— आद्य

— उपवाचय

— परिवत

— परिवतन

— बलाघात

archimorpheme

archiphoneme

article

non Aryan

archaic

figurative

durative

leitmotive

necessitative aspect

obligatory aspect

frequency

formant

frequency curve

sense (= meaning)/

intension (intention)

import/content

contentive

subordinating

conjunction

hypotaxis

1 subordinate/

dependent

2 conditioned

dependent substitute

subordinate clause/

dependent clause/

hypotactic clause

conditional variant

conditioned change

(= heteronomous

change)

conditional stress

प्राश्रित स्वन परिवर्तन

आश्रित स्वन परिवर्तन	<i>dependent sound change/conditional sound change/conditioned sound change/dependent phonetic change/heteronomous sound change</i>
आश्रितता	<i>subordination</i>
आसत्ति	<i>juxtaposition</i>
आसन	<i>adjacent</i>
— भविष्यन्	<i>immediate future tense</i>

आस न भूत
— मस्पर्श
आसिलोग्राफ
आसिलोग्राम
आस्थानिक स्वन
आह्न रणन
— सनमण
आहनक
आहनन यत्न
आहार नाल

present perfect
close contact
oscillograph
oscillogram
adventitious sound
percussive timbre
percussive transition
percussor
percussion mechanism
food passage/oeso-phagus

इय

इयिताभिव्यक्ति	<i>pasimology</i>
इच्छावाचक सभावनाथक	<i>voltive subjunctive</i>
इच्छाथक	<i>desiderative/optative/voltive (voluntative)</i>
— वृत्ति	<i>optative mood</i>
इतर कारक	<i>oblique case</i>
— यण	<i>exotic letter</i>
— विषयी भाषाविज्ञान	<i>metalinguistics</i>

इतिहासनाली काल
इ टरनेशनल फोनटिक
एरवावट
इटरालमुआ
इप्टाय

historical tense
International Phonetic Alphabet (I P A)
interlingua
intension (intention)/intentional meaning/ connotation

इय

इयन् विवृत धर्षी

slit spirant

|

उपास्थि	<i>cartilage</i>	उभयाय व्यपदेश	<i>utraqustic</i>
उपोपवध	<i>sub junct</i>		<i>subterfuge</i>
उभयनिष्ठ अक्षर	<i>common syllable</i>	उभयोष्ठय	<i>bilabial</i>
— स्वर	<i>neutral vowel</i>	— घर्षी	<i>bilabial spirant</i>
उभय प्रत्यय	<i>ambifix</i>	— सघर्षी	<i>bilabial spirant</i>
— लिंग	<i>common gender</i>	— स्पश	<i>bilabial stop</i>
उभयलिङ्गिता	<i>hermaphroditism</i>	उरोस्थि	<i>sternum</i>
उभयलिङ्गी	<i>epicene</i>	उर अवटुका पगी	<i>sternothyroid muscle</i>
उभयाक्षरी	<i>ambisyllabic</i>	— बठिका पगी	<i>sternohyoid muscle</i>
उभयाचय	<i>syllipsis</i>		

ऊ

ऊन	<i>subtractive</i>	उम	<i>subant</i>
ऊपर ओष्ठ	<i>upper lip</i>	— स्वन	<i>hissing sound</i>
— हनु	<i>upper jaw/maxillary</i>	ऊष्मीकरण	<i>assibilation/sigmaton</i>
— — विवर	<i>maxillary sinuses</i>	उष्मीकृत स्पश	<i>assibilant</i>

ऋ

ऋजु वारक | *direct case*

ए

एक | *singular*
— अथ ना वग | *sense group* | एकक लिङ्ग | *achronistic/synchronic*
— भाषाविज्ञान | *synchronic linguistics*

संकालिक व्याकरण	synchronic grammar	एकवचन	singular number
— शब्दाय विज्ञान	synchronistic semantics	एक विम (स्वर-व्यवस्था)	one dimensional (vowel system)
— स्वनविज्ञान	synchronic phonetics	— द्वाम वा वग	breath group
— स्वनिमविज्ञान	synchronic phonemics	— द्वामी वग	breath group
एकतान परीक्षण	monotony test	एकस्यानीय	homorganic
— भाषा	monotone speech	एकस्वन	monophone
एकभाषी	monoglot/monolingual	एकस्वनिमिक	monophonematic
एकपादिक	unilateral	एकस्वरक	monophthong
एकपुरुषक त्रिया	monopersonal verb/uni- personal verb/imper- sonal verb	एकस्वरीकरण	monophthongization
		एकाक्षर	monosyllable
एकमूल शब्द	doublets	— भाषा	monosyllabic language
एकरूपता	identity (identity of form)	एकाक्षरता	monosyllabism
		एकाक्षरी प्रास	single rhyme (= monosyllabic rhyme)
एकरूपात्मक	monomorphous	एकादश	crasis (cras s)
एकरूपिमिक	monomorphemic	एकाधिकरणक	consubstantial
एकल अनियमितता	unique irregularity	एकायक पत्र	monosemantic word
— अवयव	unique constituent	एकायता	monosemy
एकलता	uniqueeness	एकीकरण	integration
— अभिनियम	canon of sigularity	एकीत्वसि वाद	monogenesis theory
एकल प्रतिपोग	isolated opposition	— सिद्धांत	monogenesis of speech
एकलयी वग	rhythm group	एगिजे आघात	accent aiguse
एकल रूपिम	unique morpheme	एपिलग्मा	epilegma
— विरोध	isolated opposition		
एकलसूचक	sigulative		

ऐ

historical linguistics
(evolutionary linguis-
tics/linguistic phylo-
geny)

ऐतिहासिक व्याकरण
— शब्दाय विज्ञान

historical grammar
historical semantics

ऐतिहासिक सरचनात्मक दृष्टिकोण

ऐतिहासिक सरचनात्मक दृष्टिकोण	historico structural view	एप्रेक्सिया ऐलोजिज्म	apraxia alogism
— स्वनविज्ञान	historical phonetics		

5630 -

ओ

ओष्ठ	lip (lips)	ओष्ठ वतुलन	lip rounding
— तालव्य	labio palatal	ओष्ठ्य	labial
— तालव्यरजन	labio palatalization	— विल्व	labial click
— तालव्यरहित	labio palatalized	ओष्ठ्यरजन	labialization
— प्रस्तार	lip retraction (lip- spreading)	आष्ठ्यरजित	labialized
— मृदु तालव्य	labio velar	— स्वर	labialized vowel

औ

औचित्य	fit	औपचारिक वाक्	formal speech
औपचारिक भाषा	formal language		

क

कंठ	throat	कंठोष्ठ्य	labio velar
— अबटु कला	hyothyroid membrane	कंठोष्ठ्यरजन	labio velarization
— मणि	adam's apple	कंठ्य	faucal/guttural/velar
कठिनाम्बि	hyoid bone		

114

कपन	1 trill 2 vibration	कत -कम नामिक — वारक	factive nominal direct case/agential case/active case
कपनयुक्त स्पन्दन	vibratory trill	— त्रिया	active verb
कपनावृत्ति	frequency of vibration	— - - -कम	actor action goal
कपमान	vibrating	कत गामी त्रिया	reflexive verb (=reflective verb)
कपिन	trilled	कत नाम	agent noun
कठोर तालु	hard palate	— नामिक	agentive nominal
कथन	discourse	— लोप	prostopeis
कदाचनिक स्वन परिवर्तन	sporadic sound change	कन वाचक रचना	active construction
कपोल सपीडनी पगी	buccinator muscle	कतु वाच्य	active voice
करण	articulator	— आनाथक	active imperative
— वारक	instrumental case (instrumentative/ mediative case)	— रचना	active construction
— त्रियाविशेषक	instrumental adverbial	कत विभक्ति	agential case/ active case
करणात्मक त्रिया	instrumentative verb	— मा	agent noun
कण	1 ear 2 solidus	— सब्ज	subjective genitive
कणग्राह्य अक्षर	real syllable	— सबधी	subjective
— खट	real segment	कत हीन वाच्य	subjectless sentence
— स्वन	real phone	कम	object
कणपट	ear-drum	— वारक	accusative
कणादित अद्य मुल्या	scala tympani	कमणि अभिव्यक्ति	object expression
— अस्थि	osseous cochlea	— प्रयोग	passive voice
कनरि अभिव्यक्ति	substantive expression	— भूतकालिक कृदन विशेषण	passive past participle
— प्रयोग	active voice/agent- action	कमधारय समास	attributive compound
कर्त्ता	1 agent 2 subject 3 nominative	कमवाच्य	passive voice
— कारक	agential case/ nominative case	— जोनाथक	passive imperative
— ण्द	subject word	— निदचयाथक	passive indicative
कन	agent	— विधि	passive imperative
		— सभावनाथक	passive subjunctive
		कम मवधी	objectal/objectival
		कलन	calculus

वर्णित भाषा	artificial language	कालक्षेत्र परिवर्तना	age area hypothesis
कसोम	tightness (as of pharynx)	— मिद्धान	age and area theory
काइमाशाफ	kymograph	कालमापन	measurement of time
काइमोग्राम	kymogram	वाक्यावच समुच्चयवाचक	temporal conjunction
कावल	larynx (= sound box)	कालसूचक	temporal
कावलक	usula	— उपवाचक	temporal clause
कावलदर्शी	laryngoscope	कालानुक्रम	chronology/sequence of time
कावलरजित स्वर	laryngealized vowel	कालानुक्रमिक विकास	chronological development
कावलीय	laryngeal (also laryngeal)	विगोरामस्या	adolescence
— अनुरेखण	larynx tracing	कीलाक्षर	uniform
काकल्पजन	laryngealization	कुचिका शब्द	key word
कातावाना	katakana	कुत्साय परप्रत्यय	deteriorative suffix
कान	ear	कुल	family
काना	kana	कुलनाम	surname
कानामाजीरी	kana majiri	कूट बोली	argot/secret dialect
काँमा	comma	— रव	code noise
कारक	1 case	कृतक	incisor
— विषय	2 case form	कृतक वाणी	ventriloquism
कारणवाचक समुच्चयबोधक	hyallage	कृत प्रत्यय	primary affix/ primary suffix
कृष्ण	causal conjunction	कृत्रिम काकल	artificial larynx
— अनुक्रम	tense	— तालु	artificial palate/ false palate
— क्रम	chronology/sequence of time	— भाषा	artificial language/ constructed language
काल्पनिक	tense sequence	— स्वरयत्न	artificial larynx
— भाषाविज्ञान	diachrome	कृदन्त	primary derivative/ primary formation
— रूपप्रक्रिया	diachronic linguistics	— नामिक	gerundive nominal
— व्याकरण	diachronic morphology	कृदन्तपरक	participial
— शब्दाद्यविज्ञान	diachronic grammar	कृदन्त नाम	participial noun
— स्वनप्रक्रिया	diachronistic semantics	— पदव्यय	participial phrase
— स्वनविधान	diachronistic phonology		
	diachrome phonetics		

क्रिया प्रारंभ पक्ष

क्रिया-प्रारंभ पक्ष

— वध

— भाषा

क्रिया रूप

— बताना

क्रियायुक्त नाम

— यना

क्रिया वाक्य

क्रियावाचक नाम

— शब्द

— सना

क्रिया विधि

क्रियाविशेषण

क्रियाविशेषण

— उपवाक्य

क्रियाविशेषणात्मक

ingressive aspect

(= inceptive aspect/
inchoative aspect)

verb phrase

verb language

conjugation

conjugate

action noun/action

nominal/participial
noun

action nominal/action

noun/verbal noun/
verb noun/gerund/
participial noun

verb sentence

action noun

action word

action noun

mechanism

adverb

adverbial

adverbial clause

adverbial

क्रियाविशेषणात्मक

अभिव्यक्ति

— विशेषक

क्रिया-युक्तान

— भाषित

क्रिया

— रणन

कलीश

क्षणिक पक्ष

क्षिप्त उपवाक्य

— वाक्य

प्रतिप्रोच्चारण

क्षीण स्वर

क्षीणगार

क्षेत्र

— अध्ययन

— परिस्थिति

— सिद्धान्त

क्षेत्रीय अध्ययन

— भाषाविज्ञान

adverbial expression

adverbial modifier

deverbative

deverbative

click

click timbre

cliche

momentary aspect

inserted clause

inserted clause

rapid form

(of pronunciation)

light vowel

light syllable

field

field study

field condition

field theory

areography

areal linguistics

(= linguistic
geography)

ख

खड

β खड

खडात्मक स्वनिम

— स्वनिमविज्ञान

खंडीकरण

segment

β segment

segmental phoneme

segmental phonemics

segmentation

खडोष्ठ

खातिबा

खुरचित

खुरचन यंत्र

hare lip

sinuses

scrapping

scrapping mechanism

गड डगी	zygomatic muscle
गनव्यवाची वारव	destinative case
गणनासूचक मरुडवाचक	cardinal numeral
गणितीय भाषाविज्ञान	mathematical linguistics
गति	1 motion
	2 speed (of utterance)
	3 tempo
गतिव	dynamic
— भाषान	dynamic accent (=stress)
— डाय	dynamic action
— डरिवतन	dynamic alternation
— वाडू मीमासक	dynamic philologist
— वाडू मीमासा	dynamic philology
— विवल्पन	dynamic alternation
— मड्र-यायक	dynamical interpretant
— रवनविज्ञान	motor phonetics
गतिडी	dynamics
गतिडोडक	kinesthetic
गतिविज्ञान	dynamics
गतिगीत वरण	mobile articulator
गडणीय नाम	opprobrious name
गलवाय	fauces (=palatine arches)
गलवापीड	faucal
गलवापीडवरण	faucalization
गलनोरिडिडा मकाणडड	isthmus faucium
गडन डडाकडड	deep grammar

ग

गुडिडा अडगेड	velic closure
गुडड	cluster
(स्वर) गुण	quality
गुण	attribute
गुणनखड विरुतेडण	factor analysis
गुणन मरुडवाचक	iterative numeral/multiplicative numeral
गुणवाडव	attribute/ adjective/abstract
— धातु	attributive root
— नाम	abstract noun (=thought name)
— विडेडण	attributive adjective
— मण	abstract noun/ abstract name (=thought name)/ noun of quality
गुणस्वरिड	prosodic phoneme
गुणस्वरिड विज्ञान	prosodic phonemics
गुणरुडक डवडुडि	qualitative gradation
— भाषान	qualitative accent
— मरुडवाचक	iterative numeral multiplicative numeral
गुणर	connotation
गुणरिड	cavity/chamber
— डडण	cavity friction
— निडर	cavity stricture
गुड	covert
— डरुड	cryptotype

गूढ शब्दाय विज्ञान	crypto semantics	प्रसंग्य करण	tertiary articulator
गोचर प्ररूप	phynotype	प्रसंग्य निक्च	tertiary structure
गोण आघात	secondary accent	प्रमिषा	esophageal cavity
— उपवाचय	collateral clause/ subordinate clause	प्रहणगीयता	receptivity (to loan words)
— वम	indirect object	प्राथिव भाषा (तलुगु)	literary language
— बलाघात	secondary stress	प्राय नली गुहिका	esophageal cavity
प्रथि	gland	प्राभ्य	vulgar
प्रसनी	pharynx	प्राभ्यता	vulgarism
— गुहिका	pharyngeal cavity (also pharyngeal cavity)	प्राभ्य भाषा — रूप	substandard speech rusticism
— तालु चाप	pharyngopalatine arch	प्रिम नियम	Grimm's law
प्रसनीरजन	pharyngealization	ग्लामीम	glosseme
प्रसंग्य	pharyngeal (also pharyngeal)	ग्लामीमविवान	glossematics
		ग्लामीमभिक्षम	glossematics

घ

घटक	1 component 2 constituent 3 member	घपरजित	frictionalized
घटमान बाल	progressive tense	घपण रहित प्रवाही	frictionless continuant
— पक्ष	progressive aspect	— स्वन	friction sound
घटकीय विन्नपण	componential analysis	घर्षी	1 spirant/fricative 2 frictional
घटनाविज्ञान	phenomenology	घाप	voice
घटनाविज्ञान सबधी	phenomenological	— तत्री	vocal cords
घटाया हुआ	subtractive	घोषत्व	voicing/voice pitch
घनीकृत	saturated	घोषवली	vocal fold
घषण	friction	घोषीकरण	sonorization (= voicing)
— श्रवनि	stridulation		

च

चक्रवृत्ति	frequency of cycles	चित्रलेख	1 pictogram/ pictograph
चतु स्वरक	tetraphthong	चित्र लेखन	2 hieroglyph pictorial writing
चतुराक्षर	quadri syllable	चित्र-स्वन प्रयोग	acrophony
चतुर्थी	dative	— — लेखन	acrophonetic writing
चतुर्वचन	quateral number	चिबुक-कठिका पेशी	mylohyoid muscle
चतुष्क	quadruplets	— जिह्विका पेशी	genioglossus muscle
चयन	selection	चिह्न	1 mark
चरण	foot	चिह्नक	2 signatue (of the modulus)
चरम अवयव	ultimate constituent	चिह्नित	1 marker
— पदिम	ultimate taxeme	चूपण व्यजन	2 alogism
— दधिम	ultimate tagmeme	— स्पश	marked
— विवृति बिन्दु	trough	चेतन	suction stop
चरमसूचक प्रकार्य	culminative function (=demarcative function)	— लिग	suction stop
चवणक रेखा	molar line	चेष्टित अक्षमता	animate
चवणिका पेशी	masseter muscle	च्युत मस्वृति	animate gender
चल श्वा	mobile shwa		apraxia
चालकता	conductivity		cacology/solecism
चित्रलिपि	1 pictography 2 hieroglyphic writing		

छ

छदन	velum	छाया	colour
छद्म भाषा	simulative language	छिन शब्द	stamp word/clipped word
छद्मावरण (गमन)	camouflage (term)		

जटिल वाक्य सरचना

जटिल वाक्य सरचना
जठर नाल
जड
जतूक विवर
जननिक स्वनविज्ञान

जननोत्तर स्वनविज्ञान
जनभाषा
जमनीकरण
नालक
जाति
जातिवाचक नाम

— वचन
— शब्द
— मना

जातिवृत्तीय परिवर्तन
जातीय (तेलुगु)
जानीयम् (तेलुगु)
जालिका
जिह्वा
जिह्वाकृत्रिया गणी
जिह्वाग्र
जिह्वाय —
— उच्चारण

involution
digestive canal
inanimate
sphenoidal sinuses
genetic phonetics
(articulatory phonetics)
genemic phonetics
demotic language
germanism
plexus
type
common noun/
appellative noun/
generic name
generic number
generic term
common noun/
appellative noun
phylogenetic change
idiomatic
idiom
plexus
tongue
hyoglossus muscle
apex/tip of the tongue
apical
apical articulation

ज

जिह्वाग्र सम्पर्क
जिह्वाग्रमनी तत्रिका

जिह्वातालु चाप
जिह्वा परच

— फलक
जिह्वाफलकीय
— उच्चारण

जिह्वा मध्य
जिह्वामूल
जिह्वामूलीय
जिह्वा-संचलन
जिह्वीय

जिह्वोपजिह्वा पुटक
— विवर

जिह्वोपाग्र
जिह्वोपाग्रीय
जीम

जीवभाषाविज्ञान
जीवारोपित (शब्द)
जीवित भाषा
— व्याकरण
— शब्द
जेमोद्भवन
जवभाषाविज्ञान
पानमाभासा
नेपाथ

apical contact
glossopharyngeal
nerve
glossopalatine arch
back of the tongue
blade of the tongue
coronal
coronal articulation
centre of the tongue
root of the tongue
radical
lingual movement
(1) lingual
(2) linguo
glossoepiglottic fold
sinus glossoepiglot-
ticus
front (of the tongue)
laminal
tongue
biolinguistics
zomorphie (term)
living language
living grammar
living word
gemmation
biolinguistics
epistemology
cognitive import

क

संस्कृत-विज्ञान-शब्दावली | ethmoidal air cell

ख

टाइप	type	टोकन	token	
टपरेकोर्डर	tape recorder		टोटमवाचक नाम	totemistic name
टैगमीम	tagmeme			

ग

डाइक्रिटिक चिह्न	diacritic mark (=graphic accent)	डिगामा	digamma	
दायकाम	diaphragm		डीलोम	delome (=argument)
डार्मिस्टेटर नियम	Darmesteter's law		डेपोन-ट प्रिया	deponent verb
डाल नियम	Dhal's law		डेसिबल	decibel
डिंग-डोंग थ्योरी	ding dong theory		डश	dash

घ

तंत्रवाह्य स्वनिम	extra systematic pho- neme	तंत्रिकापनीय अभिरचना	neuromuscular pattern	
तंत्रिका कोशिका	neuron		तंत्रिकाप्ररण	innervation
तंत्रिकाक्ष	axon		तंत्रिकाविज्ञानी	neurologist
		तकनीक	technique	

तस्फाल सप्रत्यायक

तस्फाल सप्रत्यायक
तत्पुरूप समाप्त

तत्त्व
तदनुभूतिवादो
तदथ सप्रदान
तदेव
तद्धर्मायक
— वतमानकाल
तद्धित
— प्रत्यय
तद्धितात
तद्रूप
तद्रूकृत
तम भाव
तरयग्राह
तरग परिकल्पना
— लेख
— लेखन
— वाद
तरगावल
तर-तम भाव
तर भाव
तरल स्वन
तकसगत क्रम
तक व्याकरण सवादितता

तल भाषा
ताडन
ताडनरहित
ताडित स्वन
तात्कालिक रचना
— रूप
— गब्द

immediate interpretant
determinative com
pound
element
empathist
purpose/dative
ditto
gnomic
gnomic present tense
secondary derivative
secondary suffix
secondary derivative
identical
diluted
superlative degree
kymograph
wave hypothesis
kymogram
kymography
wave theory
wave train
degree of comparison
comparative degree
liquid
logical order
logico grammatical pa
rallelism
sublanguage
tap
tapless
tap sound
nonce formation
nonce form
nonce word

तात्त्विक भाषा
तान भाषा
तानरूपस्वनिम व्यवस्था

तानस्वनिम
तानस्वनिमिक
तानिम
— क्षोभ
तानिमि
तारकित रूप
ताराचिह्न
ताराक
ताराकित रूप
तात्त्विक
— भाषा
— वाक्यविद्याम
— व्याकरण
तालव्य
— नियम
तालव्यरजन
तालव्यरजित
तालिका
तालु
— चाप
— चित्र
— प्रदेश
तालुलेख
तालुलेखन
तालु वत्सम
तिथक कारक
तिल (तिल्डे)

metaphysical language
tone language/poly
tonic language
tone mechanics (tonal
morphophonemics)
toneme
tonemic
toneme
perturbation of toneme
tonemic
starred form
asterisk
asterisk
starred form
dialectician
logistic language
logical syntax
logical grammar
palatal
palatal law
palatalization
(= softening)
palatalized
table
palate
palatine arch/pala o
glossal arch
palatogram
palatine arch
palatogram
palatography
palato alveolar
oblique case
til (tılde)

द

दत	tooth	दु श्रवण	cacophony
दनकूट	teeth ridge	दुष्प्रयोग	malapropism
दत जिह्वाग्राय	pre-dental	दृढ	tense/fortis
दतपालो	gums	—वचन	asseveration
दत पृथोय	post dental	दृढत्व	tightness (of pharynx)
— वल्ग्व	denti alveolar	दृढ सञ्चरण	close transition
२तोष्ठय	labio dental	—गद्य	close nexus
दस्य	dental	—स्वर	tense vowel (= fortis vowel/nar row vowel)
—घर्षी	dental spirant		
—व्यजन	dental consonant	देशकालसापक्ष (नियमितता)	spatio temporal (regu- larity)
—सघर्षी	dental spirant	देशीकृत शब्द	naturalized word
—स्पर्श	dental stop	देशीय भाषा	native language
दवी कठच्छद पुत्र	aryepiglottic fold	—भाषाभाषी	native speaker
दवीवल्ग्व	arytenoids	—शब्द	native word
—उपास्य	arytenoid cartilage	देशी शब्द	indigenous word (po- pular or vernacular word)
—पगी	arytenoid muscle		
दाव	pressure	देश्य शब्द	indigenous word (po- pular or vernacular word)
दानान्व शब्दायविधान	philosophical semantics		
दीघ यड	long segment	दीर्घलेख	oscillogram
—घटव	long component	दीर्घलेखी	oscillograph
दीघता	length	द्योत	exponent
दीघताचिह्न	macron	—शब्द	propositional word
दीघ परिमाण	long quantity	—स्वन	exponential sound (Firth School)
—मात्रा	long quantity		
—स्वर	long vowel	दृशोच्चारण	fast form (of pronun- ciation)
दीर्घांतरण	lengthening		
दु श्रव	dissonance		
दुष्भाषिदा	interpreter		
दुष्भाषी	interpreter		
दुबल मलापाते	weak stress		
दुर्लभता	cacography		
		द्रव्यायक नाम	concrete name

ध

धनुस्तम्भ	tetanus	ध्वनिक् छाया	acoustic colouring
धम नम भाषा	liturgical language	—प्रविधि	acoustic technique
धातु	root/verbal root/verb base/root base	—रजन	acoustic colouring
धात्वग	root base	ध्वनि तंत्रिका	acoustic nerve
धात्वश	1 key 2 radical	— तरंग	sound wave
धास्वितर	non root	— लेख	acoustic record
ध्रुवता	polarity	ध्वनिविज्ञान	acoustics
ध्वनिक्	acoustic	ध्वनिविज्ञानी	acousticist
—ऊर्जा	acoustic energy	ध्वनि स्पेक्ट्रम	acoustic spectrum
		ध्वानिकी	acoustics

न

नञ द्वय	double negative	नव्य भाषाविज्ञानी	neolinguist
नपुंसकलिङ्ग	neuter (gender)	—वैयाकरण	neogrammarian
नम्यता	flexibility		(Junggrammattker)
नलज्ज करण	grooved articulator	नागर रूप	urbanism
—घर्षी	groove spirant	नानाय काग	functional dictionary
नव अथ प्रवतन	semantic innovation	नानुमिति	nonsequitur
नवनिमित रूप	paraplastic form/neolog- ism	नाम	noun
—गर्भ	paraplastic form/neolog- ism/new word	— अध्ययन	name study/onomasio- logy/onomastics/ono- matology
नवप्रवतन	innovation	नामकरण	name giving/onomathesia
नव रूप प्रतिस्थापना	paraplastm	नामजात	denominative
नवदाह निर्माण	neologism	नामधातु	denominative root
नवगिद्य	neophyte	नाम पद्धति	nomenclature
नवस्थापित गर्भ	paraplastic form (neologism)	—भाषा	nominal language (= noun language)

नाममात्रवादी	nominalist	निश्चयन	expiration/exhalation/
नामरूप	declension	निश्वास बलाघात	breath out
—बनाना	decline	निश्चल बलाघात	expiratory stress
नामवाक्य	nominal sentence	निश्चल	adstratum
नामविज्ञान	name study	—भाषा	adstratum language
नाम विधेय विशेषण	nominal predicate attribute	निश्चलवाची वाक्य	adessive case
नामविषयी वाचाघात	nominal aphasia	निश्चल प्रकाय	structural function
नाम संबन्धी	adnominal	निश्चलवाचित उच्चार	bulge of structure
नामांतरण	antonomasia/name transfer (transfer of name)	निश्चल	parenthesis
नामिक	nominal/substantivized	निश्चित उपवाक्य	parenthesis/parenthetic clause
—वाचाघात	nominal aphasia	—पदबन्ध	parenthetical phrase
—समास	nominal compound	—पद	parenthetical word
नामिकीकरण	nominalization	निश्चोपीकरण	devoicing
नामिकीकरण	hypocoristic form/ hypocoristic word	निश्चलवाचक क्रिया	reflexive verb (reflective verb)
नासा गुहिका	nasal cavity	—संबन्ध	reflexive pronoun
नासाग्रमनी	nasopharynx	नित्य मधि	compulsory sandhu
नासाद्वार	nostril	निपात	particle/operator (Ullmann)
नासामाग	nasal passage	निर्मायिका	idelect
नासाविवर	nasal cavity	निमित्तवाची वाक्य	directive case
नासा गुहिका	nasal concha	निम्न	low
नासास्थि	nasal bone	—तान	low tone
नासिक्य	nasal	—(स्तर) स्तराघात	low level pitch
—करण	secondary articulator	—स्वर	low vowel
—निश्चल	secondary structure	—स्थिति में लाना	lowering
नासिक्यरजन	nasalization (nasal twang)	—हनु	lower jaw
नासिक्य स्फोटन	nasal plosion	नियन्त्रक शब्द	governing word
नासिक्यानुसंधान	nasal tracing	नियन्त्रण	government (=rectron)
नासिक्याचर निपात	negative particle	—करना	govern
—समुच्चयबोधक	negative conjunction	नियन्त्रित शब्द	governed word

नियत बलाघात	fixed stress (=bound stress)	निरपेक्ष स्वरघात	absolute pitch
— गणन क्रम	fixed word order	निरपेक्षिक क्रियाय	absolute mood
नियमन	government (rection)	निरयक वाक्य	nonsensical sentence
— धरना	govern	निरवयव भाषा	inorganic language
नियमवादी	analagist/conventionalist/regularist	निराघात	atonic
		— रूप	atonic form
नियमित	regular	निराघातिय स्वतः परिवर्तन	independent phonetic change/autonomous sound change
— अय परिवर्तन	regular change of meaning	निरूपक भाषा	metallanguage
नियमित क्रिया	regular verb (= weak verb)	निरोष्ठवरजन	deblabialization
		नियत माला	output string
नियमित क्रिया रूप	weak conjugation	निगम गुहिका	escape cavity
— निर्धारक	regular determiner	निर्घोषीकृत	devoiced
— गणन	weak declension	— स्वश	devoiced plosive
— लता	weak noun	निर्देशक	declarative/indicative
— गणन रूप	weak declension	— विशेषण	demonstrative adjective
— मधि	regular sandhi	— गणन	pointer word (demonstrative)
नियामक	director	— संकेत	sign demonstrative
— उपवाक्य	restrictive clause	— मवनाम	demonstrative pronoun
— गणन	governing word	निर्देशन संबध	definitive genitive
— गणन वाक्य सवनाम	restrictive relative pronoun	निर्देशन व्याकरण	reference grammar
		निर्धारक	1 determinant/determiner 2 determinative
निरक्षर	illiterate	— उपवाक्य	determinative clause
निरनुनासिकीकरण	denasalization	निर्धारण	1 determining 2 determination
निरपेक्ष	absolute	निर्धारित	determined
— उपादान	absolute ablative/ablative absolute	निर्माण	invention (of linguistic form)
— पारक	absolute case	निर्मित गणन	coined word
— रचना	absolute construction	निर्मित	coinage
— रूप	absolute form		
— गणन	autosemantic word/categorematic word		
— स्थिति	absolute position		

निवचन	interpretation	निष्किय कोष्ठ	passive chamber
निर्विपमीकरण	neutralization	निहिताव	implication/implied
निर्वैपम्य	neutralization		meaning/internal
निलयित रणन	drone		meaning
निलय	ventricle	नून योजन (अरवी)	nunation
—पट्टी	ventricular band	नोईम	noeme
निविष्ट माला	input string	नूनकरण युग्म	analogous pair/sub
निदक्षवाचक	definite		minimal pair/near
—सवनाम	definite pronoun	8630	minimal pair/nor
निश्चयाश्च वृत्ति	indicative mood		minimal pair
	(= fact mood)		non minimal contrast
निश्चायक	definite	नूनकरण वैपम्य	minimal/minimum
—आटिकल	definite article	नूनतम	minimal pair
—उपपद	definite article	—युग्म	minimal contrast
निषेध क्रियाकृत	negative conjugation	—वैपम्य	minimum free form
— निपात	negative particle	—स्वतंत्र रूप	defective writing
— पक्ष	negative aspect	नून लेखन	under differentiation
निषेधवाचक समुच्चयबोधक	negative conjunction	—विभेदन	(of phonemes)
निषेधाकर्षण	attraction of negatives	नूनतम वाक्य	inarticulate sentence/
निषेधात्मक	prohibitive/negative		minor sentence
—त्रियारूप	negative conjugation	नूनरोलॉजिस्ट	neurologist
निष्पादन	performance		

प

पक्षिबधन	seriation	पत्रांतर काल	epistolary tense
पञ्चाक्षर	quinesyllable	पत्र	1 word/inflected word
पञ्चाक्षरीय	quinesyllabic		2 term
पक्ष	1 aspect 2 thesis	— एतना	word units
पञ्चपद	some (rhyme)	— निरूपण	parsing
पञ्चाभिरावणी	pterygoid muscle	— परिचय	parsing
पत्रकार शली	journalise	— परिसीमा	word delimitation

पदबन्ध	phrase	पर्याश्रित स्वनिव परिवर्तन	dependent phonetic change
पदबन्ध रचनाग	phrase formative	पराम	range
— सरचना	phrase structure	परिखा श्विति	sulcal position
पद विषय	hyperbaton	परिग्राह्य	perceptant
पद व्याकरण	word grammar	परिच्छिन्न स्वनिम	segmental phoneme
पदसमूह मबधनारक	group genitive	परिच्छेद	segment
पद सीमा	word limit	परिच्छेदन	distinctive/relevant
पद स्वायत्तता	word autonomy	— अभिलक्षण	distinctive feature
पदिम	taveme	— प्रवाय	distinctive function
— विद्याम	tactic form	— स्वन	distinctive sound (= phoneme)
पर	posterior	— स्वनिमविधान	segmental phonemes
परउपद	post article	परिच्छेदन	segmentation
परप्रत्यय	suffix/post fix	परिच्छेदिका	prone
परप्रत्यययोजक भाषा	suffixing language (suffix agglutinating language)	परिणामवाचक बोधक	illative conjunction
परधुति	final glide/off glide	परिणाम उपवाचक	apodosis/consequence clause
परमग	post position/post positive preposition	परिणामी	resultant
परस्थानोप उपपद	post article	परिधीय भाषा	peripheral language
परस्पर अभ्यावतक	mutually inclusive	परिकुष्कुम	pleura
— द्वापति	interanimation	परिभाषक	definiens
— द्वावतक परिसर	mutually exclusive environment	परिभाषा अभिनियम	canon of definition
परस्मै पथ	accommodative aspect/benefactive aspect/indirective aspect/applicative aspect	— सिद्धांत	theory of definition
परस शक्त शब्द	synategorematic word (= synsemantic word)	परिभाष्य (पद)	definiendum
पराश्रित परिवर्तन	non automatic alternation	परिमाण	quantity
		— चिह्न	quantity mark
		परिमाणवाचक	quantifier
		परिरखा	contour
		— तान व्यवस्था	contour tone system
		परिवर्त	alternant
		परिवर्तक काटि	modulus category

परिवर्तन

परिवर्तन	1 change/alternation, alternance/alteration
— वग	2 variation 3 conversion alternative class
— सीमा	margin of security
परिवर्त च्च	alternation morph
परिवार	family
परिवृत्ति	shift
— सरत	shift sign
परिष्कृत भाषा	cultivated speech
परिसर	environment
परिहृद	pericardium
पर्यापन	adequation
पर्याय	1 synonym 2 synonym-mous
पर्यायिता	plurivocite
पर्यायत्व	synonymity
पर्याय पत्र	synonym
— —समाप्त	tautological compound
पर्यायवाची विश्लेषण	synonymic analysis
पर्यायविचार	synonymy
पर्यायाभ्राम	pseudo synonym
पशु का पित्र	rib cage
पशु विराट	animal cry
पश्च	1 back/posterior 2 regressive/retrogressive
पश्चगामी	regressive/recessive (retrogressive)
— रीति	regressive method
पश्चजिह्वा	dorsum
पश्चजिह्वीय	dorsal/postero-lingual
— उच्चारण	dorsal articulation
— सस्पर्श	dorsal contact
पश्चतालम्ब	post palatal

पादिक मुद्रिकादिकका पगी

पश्च ध्वनि	after sound
— निघोरेव	post-determiner
— मुद्रु तालम्ब	post-velar
— ल'	dark 'l'
— समीकरण	regressive assimilation (=lag)
पश्च समीभवन	regressive assimilation (=lag)
— स्वर	back vowel (dark vowel)/deep vowel/velar vowel
पश्चाघात	back stroke
पश्चावतन	backing
पश्चाथय	proclisis
पश्चाथयो	proclitic
पाडित्यवाद	scholasticism
पाठ	text
पाठगन बारवारता	text frequency
पाठ	foot
पारस्परिक क्रिया	reciprocal verb
— बोधगम्यता	mutual intelligibility
— सवनाम	reciprocal pronoun
पारिभाषित शब्द	technical term
— शब्दावली	terminology
पायवय	isolation
(शब्द की) पायवयक्षमता	isolability (of words)
पादक अनुबन्ध	side adjunct
— बाण्ड	side chamber
पादिक	lateral
— दृ तप रखा	lateral incisorline
— क्षेत्र	lateral area (= marginal area)
— मुद्रिका दिकका पगी	lateral cricoarytenoid muscle

पाश्चिमी सकोचन	lateral contraction	पुरुषवाचक सवनाम	personal pronoun
विजिन	pidgin	पुरोगामी रीति	prospective method
पुजाति	male sex	पुरोनिहित	prolepsis
पुल्लिग	masculine gender	पूरुष	1 compliment 2 en- gagement
पुच्छ	pendant	—कम	objective complement
पुनरादान	reborrowing	—वितरण	complementary distri- bution
पुनरावर्ती	recursive		complementation
पुनरुक्त निषेध	resumptive negation		1 absolute 2 complete
—समाम	tautological compound	पूरण	preterite (also pret.rit)
पुनरुक्ति	tautology	पूरण	complete verb
पुनरिमाण	reconstruction	—बाल	perfectum
पुननिवेदा	feed back	—क्रिया	talic aspect
पुनरचना	reconstruction	पुणतावाची बाल	(= perfective aspect)
पुनविभजन	recutting	—पक्ष	completive interjection
पुनविभाजन	recutting		perfect infinitive
पुनविरचन	reshaping	—विस्मयान्बोधन	completive aspect
पुर समीकरण	progressive assimila- tion	पुण हुमथ	full rhyme
—समीभजन	progressive assimila- tion	—पक्ष	preterite future/future perfect/future ante- rior
पुरागल	archaic	—प्रास	perfect infinitive
—प्रयोग	archaism	—मविष्यत्	pluperfect/post anterior/ past perfect
पुरालेखविद्या	paleography	—भाववाचक रज्जा	plene writing
पुरुष	person	—भूत	present perfect
—अनियत क्रिया	non finite verb	—लेखन	complete sentence/full sentence (=situation utterance)
— — रूप	non finite verb form	—वतमान	complete predicte
—भक्ति	person concord	—वाक्य	verb of complete predication
पुरुषनियत वृत्ति	finite mood		full stop/period
पुरुषवाचक क्रिया	personal verb	—विषेय	
—हुमथ	personal infinitive	— — क्रिया	
—परप्रत्यय	personal suffix/perso- nal ending	—विराम	
—प्रत्यय	personal affix		
—भावाचक मना	personal infinitive		

पूण सम

पूण सम	absolute equivalent	पूह पूह वाद	pooh pooh theory
पूर्णार्थ शब्द	full word/content word	पृथक् स्वन गुच्छ	diverse cluster
पूर्णिकरण	perfectivation	पगोसमूह	mimic musculature
पूजउपपद	prearticle	पैतृव नाम	patronymic
पूवकठ्य	prevelar	पौन पुनि	frequentative
पूवजिह्वीय	anterolingual	—श्रिया	frequentative verb
पूवतावाची पश	perfective aspect	—पक्ष	frequentative aspect
पूवनासारजित स्पर्श	prenasalized stop	पौन पु य उच्चारण	iterative articulation
पूवनिर्धारक	pre determiner	—पक्ष	iterative aspect/fre- quentative aspect
पूवपद	antecedent	प्रवट	overt
पूवप्रत्यय	prefix	—बोटि	overt category
—याजत्र भाषा	juxtaposing language (= prefix agglutinating language)	—प्ररूप	phenotype
—योजत्र	prefixation	—सवग	overt category
पूर्वप्रधान वाक्य	loose sentence	प्रवरण	context
पूर्वमहाप्राणित स्पर्श	preaspirated stop	प्रवार	1 aspect 2 variety
पूर्वरक्त स्पर्श	prenasalized stop	प्रवारता	modality
पूर्ववर्ती	antecedent	प्रवारसूचक महायक श्रिया	modal auxiliary
पूर्वश्रुति	initial glide (on glide)	प्रनाय	function
पूर्वमग	preposition/preposi- tional word	—श्रिया	function verb
—पदबध	prepositional group/ preposition phrase	—नाम	function noun
पूर्वं स्थान	anterior position	—परिवर्तन	functional change/ transmutation
—स्थानीय उपपद	pre-article	—रूप	empty morph
पूर्वस्थिति	anteponition	—गठ	function word/function- al word (- empty word)
पूर्वाभुमेय	predictable	—मग	function noun
पूर्वावस्था	pre requisite	—और मरवा- रमन वा	functional and structur- al theory
पूर्वाश्रय	inclination (= enclis s)	प्रवादात्मक मापानिमान	functional linguistics
पूर्वाश्रयी	enclitic	प्रहृति	1 base stem base 2 etymon
पूर्वस्था	anticipation	—रूप सादृश्य	material formal analogy
पूर्वतर विश्लेषण	metanalysis		

प्रकृति समाप्त

प्रकृति समाप्त

प्रथम प्रतिरूप

प्रगल्ह

प्रधान अध कृत्वा

प्रचालन

प्रच्छन्न सुप्ता

—इवा

प्रजनक व्याकरण

पणोदित कपन

प्रतिज्ञप्ति

प्रतिपापक

प्रतिघान

प्रतिप्रति

—शब्द

प्रतिनाम

प्रतिनिघान

—परीक्षण

प्रतिनिधि

प्रतिपक्ष

प्रतिपूरक दीर्घानुनाद

—ह्रस्वीकरण

प्रतिपूरण

प्रतिपुति

प्रतिबधक उपराक्य

—विशेषक

—सवधवाचक मन्नाम

प्रतिमा

प्रतिमापरक

प्रतिमा मकेत

प्रतिमोग

stem compound

process model

hiatus

scala vestibuli

operator

latent comparison

latent schwa

generative grammar

forced vibration

preposition (pheme/
dicent)

enunciative

reactance

echo

echo word

antonomasia

substitution

commutation test

substitute

antithesis

compensatory length

ening

compensatory shorte

ning

compensation

restrictive clause

restrictive adjunct

restrictive relative

pronoun

icon

iconic

iconic sign

opposition

प्रतियोगी

प्रतिलोम श्रम

प्रतिवत विराट

प्रतिवेष्टन

प्रतिवेष्टन

—स्य

प्रतिमदभ

प्रतिमिमा

प्रतिस्थापन

प्रतीक

—प्रयोग

—रूपा मत्र भाषा

—सस्वारानुनाद

—स्मृत्यवन

प्रतीकामक युक्ति

प्रत्यक्ष

—बधन

—गहीन अक्षर

——खड

——स्वन

प्रत्यक्षण

प्रत्यक्ष नामांतरण

—(जय) परिवृत्ति

—प्रश्न

प्रत्यक्षवादी

प्रत्यक्ष वपम्प

प्रत्यक्षीकरण

प्रत्यनुनाद

opposite

inverse order

(= inversion)

reflex cry

retroflexion/cerebral
zation1 retroflex/cacuminal/
cerebral/domal

2 curled up

retroflex vowel

cross reference

antisigma

substitution/replace-
ment

symbol

symbolization

symbolic metaphorical
language

symbol engram

symbol engram

symbolic device

perceptible

direct discourse

perceptual syllable

perceptual segment

perceptual phone

perception

direct name transfer

perceptual shift

direct question

positivist

direct contrast

actualization

anti resonance

प्रत्यय

प्रत्यय	1 affix 2, formative	प्रत्यय	manner of articulation
प्रत्ययप्रधान भाषा	affixing language (= simple agglutinative language)	—लाघव	economy of effort
प्रत्यययाजन	affixation	— - - नियम	principle of least effort
प्रत्यय रूप सादृश्य	affix formal analogy	प्रयाग	1 experiment 2 turn (= voice)
प्रत्ययिम	tagmeme	—बाहृत्य	functional load/functional yield
प्रत्याक्चयण	retraction	प्रयोजन चतुर्थी	purpose/dative
प्रत्याकथित	retracted	प्रयोजनायक उपवाक्य	causal clause
प्रत्यावर्ती लेखन	boustrophedon	प्ररूप	type
प्रत्याम्य शकु	conus elasticus	प्ररूप वाद	theory of types
प्रथम पुरुष	third person	प्ररूपविधान	typology
—भविष्यत् (कार)	first future (tense)	प्रवाही	continuant/continuative
प्रथमा विभक्ति	nominative	—लेखन	curative writing
प्रधान	head	—ध्वजन	continuant (= static consonant)
—अक्षर	prominent syllable	प्रविधि	technique
—अभिरचना	predominant pattern	प्रवीणता अभ्यास	skill drill
—गद्द	head word/principal word	प्रवृत्ति	drift
प्रबल	loud	प्रगायन	ramification
प्रबलता	loudness	प्रश्न	interrogation
प्रबलन	reinforcement	प्रश्नचिह्न	mark of interrogation/question mark
प्रबल बलाघात	strong stress/loud stress	प्रश्नवाचक	interrogative
प्रभाग	fraction	प्रश्नवाचक प	interrogative substitute
प्रभावन	affection	—वाचक	interrogative sentence
प्रभावात्मन लिप्यवन	impressionistic transcription	—सवनाम	interrogative pronoun
प्रभावित भाषा	lone language	प्रश्लिष्ट वाग्वत्मन भाषा	polysynthetic language/holophrastic language
प्रभावी	effective		incorporating language/agglomerating language
—पक्ष	effective aspect		
—भाषा	upper language (= dominant language)		
प्रमादत्र समीकरण	negligent assimilation	प्रश्नर	inspiration inhalation/ breath in
—समीभव	negligent assimilation		

प्रश्वास

प्रश्वास	inhalation/inspiration	प्रारम्भ	onset
प्रसंग	context/reference	प्रारम्भव	initiator
प्रसरण	expansion	—निर्वाच	initiating structure
प्रसारण	expansion	प्रवस्था	phase
प्रहेलिका	enigma	प्रासंगिक अर्थ	occasional meaning
प्रांतीय रूप	provincialism/regionalism	—श्रम	occasional order
		—गठ	phenomenon word
प्राकृतिक कोटि	natural category	प्रास	rhyme
—लिंग	natural gender	—शब्द	rhyme word
— व्यवस्था	natural gender system	प्रेक्षणात्मक पर्याप्ति	observational adequacy
प्राक्षेपिक	ballistic	प्रेरक कारक	discriminative case
प्रागुक्तिपरक भाषाविज्ञान	predicative linguistics	—तंत्रिका	motor nerve
प्रागतिहासिक युग	prehistoric age	—प्रसंग	motor context
प्राणत्व	breathing	—विस्तरण	stimulus diffusion
प्रातिपदिक	stem (= noun base/base)	प्रेरणयंत्र	induction mechanism
		प्रेरणायक	causative/factitive
प्राथमिक वरण	primary articulator	—कारक	causative case
—निर्वाच	primary structure	—क्रिया	causative verb
—बलाघात	primary stress	—परप्रत्यय	causative suffix
प्रादेशिक मानक	provincial standard	—पूर्वप्रत्यय	causative prefix
—रूप	regionalism/provincialism	—मध्यप्रत्यय	causative infix
		—रूप	causative form
प्राघाय	prominence	—वृत्ति	causative mood
प्रायिक श्रम	usual order	प्रेरित कवित्र	induced vibrator
प्रायोगिक अनुकरण	experimental mimicry	प्रोत्साहनात्मक	exhortative subjunctive
—गठविज्ञान	experimental semantics	समावनात्मक	
—स्वनविज्ञान	experimental phonetics	प्लेरीम	plereme
	(= instrumental phonetics/laboratory phonetics)		

फ

फलक	blade	फुसफुसाहट	whisper/whispering
—घर्षी	slit spirant	—श्वर	whispered vowel
फिट	fit	फेफडे	lungs
फिमोम	phememe	फॉर्मॅट	formant
फीम	pheme (dicent)	फोनोग्राफ	phonograph
फुफ्फु	lungs	फोनोग्राम	phonogram
फुफ्फुमावरण	pelura	फाप आघात	accent frappe
फुफ्फुमीय	pulmonic		

व

वद्य	frame	वलाघातित	stressed
बधिम	tagmeme	वलात्मक एकक	stress unit
बधुना	affinity	वलादारोपण	procrustean attempt
बधुतावाची शब्दावली	kinship terms	वलाथिन लय	stress timed rhythm
बद्ध	bound	वस्व	alveolar/alveolus
—आघात	bound accent/fixed accent	— तालय्य	alveo palatal
—धातु	bound root	बहि करण	externalization
—बलाघात	bound stress/fixed stress	बहू केन्द्रिक	exocentric
—रूप	bound form	— रचना	exocentric construction
बलाघात	stress/stress accent/dynamic accent	बहि स्फोटक	explosive
बलाघातन	stress accentuation	— उच्चारण	explosive articulation
बलाघात परिवर्तन	modulation	बहि मृत	protruded
—समूह	stress group	बहिर्गामी विलक रणन	egressive click timbre
—स्वनिम	taseme	— वायु प्रवाह	egressive air stream
बलाघातहीन	unstre sed	बहिर्जात	exogenous
		बहिर्भवन	externalization
		बहिर्वाची वारक	elative case

बहिस्तलीय व्याकरण	surface grammar	बहुसंश्लेषण	1 polysynthesis
बहिस्तरण	protrusion		2 incapsulation
बहु अक्षर	multisyllable/ polysyllable	बहुसंश्लेषणात्मक भाषा	polysynthetic language/ incapsulating language
घट्टु-अर्थ	multiple meaning	बहुस्वर	polyphone
बहु अर्थक	polysemantic/ polysemous	बहुस्वरवन्तता	polyphony
बहु अर्थकता	polysemy	बहुव्यय	multiple meaning
बहुकालिक	polychronistic	गृह्य	macro segment
गृह्यशास्त्रिक लक्षण	plurisegmental feature	गृह्य खंड	macro segment
बहुतान भाषा	polytonic language (= tone language)	— परिच्छेद	macro-tagmeme
बहुभाषा-भाषी	multilingual	— बधिम	macro phoneme
बहुभाषाविद्	linguist	— स्वनिम	macrolinguistics
बहुभाषिता	multilingualism	बृहदभाषाविज्ञान	augmentative
बहुभाषी	multilingual/ polylingual/ plurilingual/ polyglot	बृहदभाषा	augmentative suffix
बहुपर्यायी (विषय वस्तु)	kaleidoscopic (subject matter)	— परप्रत्यय	binit (bit)
बहुरूपवर्ग प्रयोग	class cleavage	बाइट	bow bow theory
बहुरूपात्मक	polymorphous	बाउ बाउ वाद	cuneiform
बहुरूपमिव	polymorphic	बाणमुख	conversation
बहुवचन	plural (number)	बातचीत	alveolar
बहुवर्णात्मक लिप्यंकन	multiliteral transcription	बास्त्र	alveolar arch
बहुवाची	plurative	— चाप	alveolar region/ alveolar zone
बहुवचन पूरण	multiple complementation	— स्पश	alveolar stop
— प्रतिपक्ष	multilateral opposition	बाल भाषा	child language
— विरोध	multilateral opposition	बालालाप	nursery form
बहुब्रीहि समास	exocentric compound	बाह्य अवग्रह	external open juncture
		— ञण	outer ear
		— प्रवृत्ति	formal genius
		— प्रयत्न	external effort
		— रूप	outer form
		— वितरण वर्ग	external distribution class

बाह्य विभक्ति	external flexion	बोरातल का प्रयोग	colloquialism
— विराम	external pause	— की भाषा	colloquial (language)
— विरधि	external hiatus	री गैली	colloquial style
— व्याकरण	external grammar	बालन रा देव	mode of speech
— सरचना	surface structure	बोराभाषा (मराठी)	primary language
— रचना	exterior position	बोरी	dialect
बाह्याय	external meaning	जागा	dialect borrowing
बिगावाती कारर	abessive case	गटलस	dialect atlas
	caritive case	भद	dialectal area
रिभ्य प्रतिरिभ्वत्त्व (अग्नि- नाग्नि)	enantiomorphism	भूगाल	dialect geography
ब्रोंका	bronchus	— मान विज्ञावली	dialect atlas
ब्रोंकाओल	bronchiole	बोरीविज्ञान	dialectology
बोघ्रात्मन परिभाषा	notional definition	बालीविज्ञानी	dialectician
बोल्चाड	parlance	बोरी मरघी	dialectal

भ

भक्ति स्वर	anaptyctic vowel	भावयुग	feeling tone
भविष्यत	future	भाव-ज्ञान	hedonic tone
भविष्यत् काल	future tense/ predictive future/ predictive tense	भावना	feeling tone
भविष्यत्काली भाषाविज्ञान	prospective linguistics	भाव नाम	nomen actionis (nomen acti)
भार	emphasis	भावप्रधान	emotive
भारवाचक	intensive/emphatic	— भाषा	emotive speech
भाव	affect (intonation affective)	भावबोधक प्रकार्य	expressive function/ affective function
भाववाच्य	emotive import/ emotive meaning	भावलेख	ideogram/ideograph
		भावलेखन	ideographic writing/ ideography
		भाववाचक	abstracts

भाषाशास्त्र शिखा	neutral verb	भाषाई तुलना	linguistic comparison
— नाम	abstract noun/ abstract name (=thought name)	— नास्तिनाम	linguistic nihilism
— शब्द	abstract term	— बहुमत	linguistic majority
— सज्ञा	abstract noun/abstract name (=thought name)	— रूप	linguistic form
भाषावाच्य	impersonal voice/ middle voice/ medio passive voice	— लौकिकीकरण	linguistic democratization
— शिखा	impersonal verb	भाषा अटलस	linguistic atlas
भाषात्मक आघात	accent affectif	— कालक्रमविनान	glottochronology
भाषात्मक सादृश्य	affective similarity	— कुल	language family/ linguistic family
भाषानयन	abstraction	— शय	extinction of a language
भाषानुवाद	paraphrase	— क्षेत्र	linguistic area/ linguistic field/ speech area
भाषाशक्ति	impersonal mood	भाषागत अनुपात	linguistic ratio
— सज्ञा	infinitive	— रूप	linguistic form
भाषाकालापक्षी भाषा विनान	prospective linguistics	भाषा तल	linguistic stratum
भाषा प्रयोग	impersonal voice	— द्वीप	speech island
भाषाशक्ति सम्भावनाशक्ति	prospective subjunctive	— नवप्रवृत्तन	linguistic innovation
भाषण गति	rate of speaking	— परिपथ	language circuit
भाषांतरपद समास	translation compound	— परिवार	language family/ linguistic family
भाषाशा	gloss	— परिवृत्ति	language shift
भाषा	language/le langue (=primary language)	— प्ररूपविज्ञान	linguistic typology
— अधस्तल	linguistic substratum	— प्रागितिहास	linguistic prehistory
भाषाई	linguistic	— भाषी जनसमुदाय	speech community
— अपरिवर्तनशीलता	linguistic conservation	— भूगोल	linguistic geography (=areal linguistics)
— अर्थ	linguistic meaning	— मनोविनान	linguistic psychology
— अल्पमत	linguistic minority	— मानचित्र	linguistic map
— आदान	linguistic borrowing	— मानचित्र कला	linguistic cartography
		— मानचित्रावली	linguistic atlas
		भाषाशास्त्र शिखा	quasi linguistic system

भाषा वयस्क	linguistic adult	भाषिकाविज्ञानी	dialectician
भाषाविज्ञान	linguistics (linguistic science/glossology/glottology)	भाषिका व्यञ्जक	eye dialect
		— सबधी	dialectal
भाषाविज्ञानबाह्य गवशय विज्ञान	extra linguistic semantics	भाषेतर	non linguistic
भाषाविज्ञान सबधी	linguistic	भाषेक कालक्रमिक	idiodiachronic
भाषाविज्ञानी	linguist/linguistician	भाषेककालिक	idiochronic
भाषा-विश्लेषण	linguistic analysis	भिनस्वयानीय	heterorganic
भाषाविषयक अर्थ	linguistic meaning	भिन्नाक्षर	hetero syllable
— व्यक्तित्व	linguistic ontology	भूकेन्द्रिक	geocentric
भाषावैज्ञानिक नियमन	linguistic regimentation	भूकेन्द्रीय	geocentric
		भूत	past
— सुपर्याप्त	linguistic regimentation	भूतकाल	past tense
		भूतकालिक कृदन्त विशेषण	past participle
भाषा व्यवस्था	language system	— भावाथक मज्ञा	past infinitive
— व्यवहार	language transaction (= language communication)	भूतकृद्भाषी त्रिया	conclusive verb
— मदभ	language context	भूतलक्षी भाषाविज्ञान	retrospective linguistics
— सबधी	linguistic	भूताथक वतमान	historical present/ dramatic present
— सरचना	conformation (of a language)	भृशाथ-पक्ष	intensive aspect
— मस्कार	eugenics of language	भेद	variety
— समुदाय	linguistic stock	भेदक	distinctive
— सीमा	language boundary	— प्रकाय	distinctive function
भाषिक	linguistic	भौतिक ध्वनि परिणाम	acoustic impression
— अर्थ	linguistic meaning	— — लक्षण	acoustic feature
— रूप	linguistic form	— — मन्वार	acoustic impression
भाषिका	dialect	— म्यनविधान	acoustic phonetics/ physical phonetics
— आदान	dialect borrowing	भ्रष्ट	broken (as in broken English)/corrupt
— क्षेत्र	dialect area	— आघान	wrenched accent
— भूगोल	dialect geography	राष्ट्र	spoilt word
भाषिकाविज्ञान	dialectology	भ्रात द्युत्पत्ति	false etymology

भ्रामक व्युत्पत्ति

false etymology

भ्रामक शब्द

ghost word/
(phantom word)

म

मदाच्चारित रूप
मध्यlento form
1 centre/mid/medial
2 interlude

मध्य स्वर

mid vowel/central
vowel
(abnormal vowel)

— अनुव ध

centre adjunct

मध्य (स्तर) स्वराघात

mid level pitch

— आघात

medial accent

मध्योच्चारण अम्यास

bracketing exercise

मध्य कठय

medio velar

मनोभाषाविज्ञान

psycholinguistics

— षण

middle ear/tympanum

मनोरसायन

mental chemistry

मध्यच्छद तत्तिका

phrenic nerve

मनोवादविरोधी

antimentalist

मध्य जिह्वीय

medio lingual

मनोवादी

mentalist

— तालव्य

mid palatal/
medio palatal

मनोवैज्ञानिक क्रम

psychological order

— निहिति

apenthesis

ममर

murmur

— षट

diaphragm

— स्वर

murmured vowel

मध्यप्रत्यय

infix

मसीनी अनुवाद

machine translation

मध्यप्रत्यययोजन

infixation

मसूडे

gums

मध्यमपुरुष

second person

महत्तम

maximum

मध्यम बलाघात

medium stress/
quite stress

महत्वाची नाम (तलुगु)

high caste noun
(caste noun)

मध्यलोप

syncope

— सना

high caste noun
(caste noun)

मध्यलोपीकरण

syncope

महाप्राण

aspirate/aspirated

मध्यलोपीभवन

syncope

— षटव

aspiration component

मध्यव्यजनलोप

jamming

महाप्राणत्व

aspiration

मध्यस्तर बलाघात

mid level pitch

महाप्राणत्व

(=rough breathing)

मध्य स्थान

medial position

— लोप

aspiration

— स्वन

median sound

(=rough breathing)

deaspiration

महाप्राण प्रक्रिया	aspiration process	मिथ्या शब्द	ghost word/phantom word
— स्पर्श	aspirated stop	— सादृश्य	false analogy
— व्यंजन	aspirated consonant	मिश्र अंतरण	composite transfer
मानपक्षीय नाम	metonymic	— द्वियारूप	mixed conjugation
मातृभाषा	mother tongue	मिश्रण	blending
मातृत्व	chroneme	मिश्र भाषा	mixed language
मात्रा	duration/quantity/ mora	— रूप	complex form
मात्रात्मक अव्युत्पत्ति	quantitative gradation	— रूपावली	complex paradigm
— आघात	quantitative accent	— लिप्यंकन	complex transcription
मात्रिक	durative	— वाक्य	complex sentence
मानक	norm	— शब्द	complex word/blend
— भाषा	standard language	— शब्दरूप	mixed declension
मानकीय उपगम	normative approach	— गीयर	complex peak
— ध्याकरण	normative grammar	— स्वनिम	complex phoneme
मानकेतर	non standard	मिश्रित भाषा	pidgin
मानवजाति नामविज्ञान	ethnonymy	— सवधात्मक जव्युत्पादी	mixed relational
— भाषाविज्ञान	ethnolinguistics	भाषा	non deriving language
मानवनामविज्ञान	anthroponymy	— — व्युत्पादी	mixed relational
मानवविज्ञान	anthropology	भाषा	deriving language
मानवविज्ञानाश्रित	anthropological	— — सरूपता	mixed relational
भाषाविज्ञान	linguistics	मुक्त कपन	free vibration
मानवविघ्न (शब्द)	anthropomorphic (term)	मुख-आरेखण	mouth tracing
मानवारापित (शब्द)	anthropomorphic (term)	— गुहिका	buccal cavity/vocal cavity/oral cavity/ oral chamber
मान व्यंजन	cardinal consonant	मुख्य विवर	buccal cavity/vocal cavity/oral cavity/ oral chamber
मानसिक विभिन्न	mental neurosis	मुख्य अवयव	primary organ
मान स्वर	cardinal vowel	— आपान	primary accent/main accent
मानीटर करना	monitoring	— उपवाक्य	principal clause
माला	string		
मिथ्या (घोषनत्री) कपन	falsetoto		
— चिह्नक	impure marker		

सुर्य धाम

भ्रा	सुर्य धाम	direct object	मूल धातु शब्द	primary root word
भ्रा	— वारम्भार्थी निकोष	primary vibrate structure	मूलभूत स्तराभा	fundamental pitch
	— नाम	christian name	मूलभूतयोग्य रिमक्ति	radical flexion
	— वलाघात	primary stress	मूल वाच्य	kernel sentence
	— रूप	primary morph	— व्यति नाम	eponym
	— शब्द	principal word	— गद	1 primary word key (word)
	— स्वनिम	primary phoneme		2 radical
मद	सुर्याय	1 essential meaning/ central meaning	— स्वनिम	primary phoneme
मद		2 application (=denotation)	— स्वर	simple vowel
—	मुद्रिका उपास्थि	cricoid cartilage	मूलाग प्रतिष्ठा	element model
—	— दन्तिना वेदी	cricoarytenoid muscle	मूलाधार रूप	underlying form
मद	मुद्राचरा	idiom	— चार	underlying word
—	मुद्राचरेदार	idiomatic	मृत भाषा	dead language
मद	मृत शब्द	concrete term	— गद	dead word
मद	— मवल्पना	concrete concept	मदु	soft
—	मृति	icon	— चिह्न	soft sign
—	मृतिपरक	iconic	मृदुता	softness
—	मृति सवेत	iconic sign	मृदु तालय	velar/velaric
—	मूत्रय	domal/cerebral/retro flex/cacuminal	— तालयरजन	velarization
म		retroflexion	— तालयरजित व्यजन	velarized consonant
म	मूत्रयौकरण	cerebrum	— तालयरीत व्यजन	velarized consonant
म	मूर्धा	1 fundamental	— तातु	soft palate/elum
म	मूल	2 kernel	— यगघात	soft stress
		3 root	— यजन	soft consonant
म	— आवृत्ति	fundamental frequency	मैत्रो	macron
म	मूलज भाषा	radical language (=atomic language)	मदिसमल	maximal
म	मूल तान	fundamental	मोचक छड	trigger segment
			मोचन	release
			मौखिक करण	primary articulator
			— निकोष	primary structure
			— शिक्षण	oral instruction

य

यत्र	mechanism	युगपद घटक	simultaneous compo- nent
यत्रग्राह्य अक्षर	instrumental syllable	युग्म	1 pair
— उच्चारण प्रविधि	instrumental articulat- ing technique	युग्मक	2 doublets
— खड	instrumental segment	युक्त	dyad
— ध्वनिक प्रविधि	instrumental acoustic technique	युक्ति	clitic
— स्वन	instrumental phone	यूस्टकी नलिखा	delome (= argument)
यत्रवादो	mechanist	योगज उपवाक्य	custachin tule
यकारकरण	yodization	योगात्मक	additive clause
यति	position of rest/ cesura	— भाषा	agglutinative/ agglutinating
यदृच्छा यरणात्मक	eclectic		agglutinative language/ agglutinating
यथावत उद्धरण	direct quotation	योत्रय चिह्न	language
यथावननी उच्चारण	spelling pronunciation	— परप्रत्यय	hyphen/additive marker
यथापद भाषान्तर	metaphrase	— पूत्रप्रत्यय	agglutinating suffix
यमक	paronym (quasi homo- nym)	— स्वर	agglutinating prefix
यात्रिक अनुवाद	machine translation	योजन	connecting vowel
यादृच्छिक	arbitrary	यो ह हा वाद	agglutination
— सवेत	arbitrary symbol	योग्य	yo he lo theory
— सवध	arbitrary connection	योगिक	simultaneity
युगप्रामादिके	junggrammatiker	— वाक्य	compound
युगपत्	simultaneous		compound sentence

र

रघ	aperture	रिक्त शब्द	empty word
रचनाग	1 constituent		(function word)
	2 formative	रिक्ति	hole in the pattern
रचनातरण	transformation	रूढ	conventional
— कुल	family of transformation	रूढप्रयोगीविज्ञान	idiomatology (or language characterization)
रचनातरणपरक	transformational	रूढप्रयोगी शब्दशास्त्रविज्ञान	idiomatic semantics
— धारन	transformational density	रूढ शब्द	prime word
— व्याकरण	transformational grammar	— मकेत	conventional sign
रचनातरण व्याकरण	transformational grammar	रूढि	convention/conventionality
रचना	construction	रूढोक्ति	cliche
रचनात्मक समनामता	constructional homonymity	रून (वण)	rune
रचनात्मक समरूपता	constructional homonymity	रुन (वण) सद्ग	rune form
रचित भाषा	constructed language	रूप	1 form
रणन	timbre (=timber)	रूपक	2 morph
रदनय रेखा	canine line	रूपय समीकरण	metaphor
रव	noise	— समीकरण	morphological assimilation
राद्गनेर कला	membrane of Reissner	रूपतानिमेषितान	morphotouemics
राग	tune	रूपप्रशिया	morphology/accidence
रागात्मक युक्ति	non verbal device	रूपप्रशियात्मक चिह्न	morphological marking
राजभाषा	official language	— शब्द	morphological word
राशिवाचक शब्द	mass word	— सरचना	morphological structure
— भाषा	mass noun/uncountable noun	— समीकरण	morphological assimilation
रिक्त रूप	empty morph		

रूपप्रशियात्मक समीभवन

रूपप्रशियात्मक समीभवन

morphological
assimilation
morphological
doublets
morphographemic rule
form class
morpholexical
morpho semantic
(field)
formal analogy
reminiscent sandhi
inflection (flection/
inflexion)
morphophonology
morphophoneme
morphophonemics
morphonemic
morphophonemic
writing
morphophonemics
formal
formal unit
formal alternation
formal language
verbal device
formal alternation
morphological
extension
formal grammar

रूपाय गम

रूपावली

— प्रतिरूप

— मवधी

रूपिम

— अनुक्रम

— एकक

— रम

रूपिमशिपान

रूपिम गम

रूपिमाश्रित परिवर्तन

— विवन्त

रूपिमिक

रवाड

रवाड पदर

रेयिग

रय्यीय

रपण

रयिक

— निरूप

— सयन

— रूयिम

रानर र्क पदर

रानर रर

morphoseme (or ling
uistic centre or linguo
centre)

paradigm/accidence

paradigm model

paradigmatic

morpheme

morpheme sequence

morpheme unit

morpheme class

morphemes

morpheme word

morphemically condi
tioned alternationmorphemically condi
tioned alternation

morphemic

record (of a grammo
phon)

record player

barred

linear

shotacism

linear

linear representation

linear writing

linear phoneme

(— रूयिम अल र्क -
ररर)

recuse

re-accidence

वत्स्य

वत्स्य
 —चाप
 —तालव्य
 —प्रदेश

 —स्पष्ट
 वयस्य मिथ्याबोध
 वस्तुगत सादृश्य
 वस्तुपरक भाषा
 —शब्द
 वाक्

 —आशय
 —क्रिया
 —चिह्नित्वा
 —पट्टी
 —परिवेश
 —प्रत्यक्षण
 —प्रवृत्ति
 —प्रसारण
 —मन स्थिति
 वाक्यगत रूपप्रक्रिया
 —रूप बग
 —सगति
 वाक्य-सूची
 —प्रसार
 वाक्यबोध
 वाक्य बलाघात
 वाक्यविचार
 —सम्बन्धी
 वाक्यविभाग

 —प्रम

alveolar/gingival
 alveolar arch
 alveo palatal
 alveolar region/alveolar
 zone/teeth ridge
 alveolar stop
 adult misinterpretation
 substantival similarity
 object language
 object word
 speech (=le language/
 le parole)
 speech content
 speech activity
 linguistic therapy
 vocal band
 speech situation
 speech perception
 speech habit
 speech stretcher
 speech psychology
 syntactic morphology
 syntactic form class
 sentence harmony
 pre-sentence element
 sentence type
 discourse
 sentence stress
 syntax
 syntactical (=syntac
 tic)
 syntax/syntactic con-
 struction
 syntactic order

वाक्यवि यास मुक्ति
 वाक्यवि यासविधान
 वाक्यवि-यास सम्बन्धी

 वाक्यवि-यासा मक नियन्त्रण

 —नियमन

 —रूपप्रक्रिया
 वाक्यविषयी वाचाघात
 वाक्य व्याकरण
 —शब्द
 —स्वनविधान
 वाक्यप्रश
 वाक्यात्मक कोटि
 —रचना
 —शब्द
 —शब्दाभिव्यक्ति
 —सम्मिश्रण
 —सहलग्नता
 वाक्यानुपयुक्त समाम
 वाक्या-व्यबोधो स्वनविज्ञान
 वाक्योपयुक्त समाम
 वाक्-विवक्षा
 —सदभ
 —सन्लेपण
 —स्नायु
 —स्वन
 वागय
 —वाद

 वागवयव
 वागम

syntactic device
 syntactics
 syntactical (=syntac
 tic)
 syntactic regimen
 (= government)
 syntactic regimen
 (= government)
 syntactic morphology
 syntactical aphasia
 sentence grammar
 sentence word
 sentence phonetics
 phrase
 syntactic category
 syntactic construction
 holophrase
 holophrasis
 syntactic contamination
 syntactical linkage
 asyntatic compound
 syntactic phonetics
 syntactic compound
 speech content
 speech context
 speech synthesis
 vocal ligament
 speech sound
 speech content
 nativistic theory (Max
 Muller)
 vocal organ
 locution

वागितर परिसर	non speech environ- ment	वास्तविकता अभिनियम	canon of actuality
—स्वन	non speech sound	विकरणयुक्त	thematic
वाग्गुण परिवर्तन	voice quality modula- tion	—रूप	thematic flection
वाग्मिक क्रम	oratorical order	विकरण रूपिम	thematic morpheme
वाग्मत्र	vocal organ/vocal ap- paratus/speech appara- tus/speech mechanism	विकरणहीन	athematic
वाग्गीति	mode of speech	विकल द्रिया	defective verb
वाग्गिच्छेद	stop short sentence (apostopesis)	—रूपावली	defective paradigm
वाग्गिशेष	locution	—लेखन	defective writing
वाग्गिस्तार	circumlocution	—शब्द	defective word
वाग्गम्य	rate of speaking	विवल्प	1 alternant 2 option
वाग्गप्रवहार	parlance/language transaction/language communication	विवल्प	alternative
वाङ्भीमासक	philologist	विकल्पन	alternance/alternation/ variation
वाङ्भीमासा	philology	विवल्प सधि	optional sandhi
वाचक	significant (name)	विकार	mutation
वाचाधान	(verbal) aphasia	विकारसूचक (कारक)	factive (= mutative or translative)
वाचिक युक्ति	verbal device	विकारी वारक	oblique case
—वि्यास	verbal configuration	विक्राम	development (= evo- lution)
वाच्य	1 voice (= diathesis/ turn) 2 signifie (sense)	विक्रामक्रमिक भाषाविज्ञान	evolutionary linguistics
वाच्याय	denotation	विक्राम पक्ष	curive aspect
वाद क्षेत्र	universe of discourse	विकासवाद	evolution theory
वायु कोष्ठ	air chamber	विक्रियण	radiation
— प्रवाह	air stream	विकृति	modification
— - - यत्र	air mechanism/air stream mechanism	विक्षिप्त भाषा	glossolalia
वाघिक	incremental	विग्रह करना	decompound/expound
		विचर	alternant
		विचरण	alternance/alternation/ variation
		विचार क्षेत्र	universe of discourse
		विचारणावाचक सभावनाथक	deliberative subjunctive
		विच्छिन क्रम	tmesis
		विच्छलन	slur

विच्छलित	slurred	विधेय-सत्वा	predicate noun
विच्छिन्न	discontinuous	—-सबध	nexus
विच्छेदन	1 discontinuation 2 dissection	विध्यर्थक (वृत्ति)	potential mood/injunc- tive mood
विच्युति	barbarism	—-सभावनायक	potential subjunctive
विजैता भाषा	colonizing language	वि-यास	1 arrangement 2 fused configuration
वितरक	distributive	विन्यासक्रमात्मक	syntagmatic
—सख्यादायक	distributive numeral	वि-यासक्रमी	syntagm (syntagma)
वितरण	distribution	वि-यासविज्ञान	tactics
— नियम	Law of Distribution	विपथी	aberrant
— पक्ष	distributive aspect	विपरिणाम	transfer
— श्रेय	distribution class	विपरीत	antipode
— प्रणम	formational statement	—-नापण	inverted speech
वितारण्यकरण	depalatalization (hard- ening)	—-लक्षण	inverted speech
विदेशीयत्व	foreignism	विषय	metathesis/transposi- tion/anastrophe
विदेशी रूप	foreignism (= peregrini- sm)	विषयसिद्ध (गठन)	anagram
—-गठ	alien word/foreign word	विपर्यास	metathesis
विधि	injunctive mood	विप्रकष	anaptyxis
विधेय	predicate	विप्रकष स्वर	anaptyctic vowel
— अनुबध	adnex	विप्रकष प्रक्षेप	anaptyctic insertion
— उपबध	subnex	विप्रकृष्ट महिता	disjuncture/open junc- ture
विधेयक गठ	predicating word	विभक्ति	1 case/case form/case ending 2 (inflection/ flexion/flexion)
विधेय विद्या	finite verb, predicate verb	विभक्तिग्राही	flexible
—-विद्यारूप	finite form	विभक्तिप्रकारक जोडि	inflectional category
विधेयत	predication	—-सकष	inflectional category
विधेय नाम	predicate noun	विभक्ति प्ररय	case ending/inflectional affix/inflectional end- ing/termination
— नामिक	predicate nominal	विभक्तिप्रधान	inflectional
विधेयवाचक घातु	predicative root		
विधेय विशेषण	predicative adjective		
— वृत्ति	finite mood		

विभक्तिप्रधान भाषा	inflectional language/ flectional language/ inflective language	विरुद्धाथ विरुद्धाथक —शब्द	antimony antonym contraries (contrary term)
विभक्तिरूप	declension	विरोध	opposition
विभक्ति-रूप	deflexion	विरोधवाचक समुच्चयबोधक	adversative conjunction
विभक्त्यात्मक	flectional	विरोधात्मक शब्द (सन्ता री) विलयनक्षमता	contradictory term isolability (of words)
विभाजक प्रतियोग	disjunctive opposition	विलयन	absorption/merger
—विरोध	disjunctive opposition	विवक्षा	implication/import/ meaning
—सट्यावाचक	partitive numeral	विवक्षित अर्थ	implied meaning
—समुच्चयबोधक	disjunctive conjunction/ alternative conjunction	विवर	cavity/chamber/sinuses
—सवनाम	disjunctive pronoun	— घषण	cavity friction
विभाजन	disjunction	विवरणामक वाक्य	narrative sentence
—सट्यावाचक	partitive numeral	विवर-निकोच	cavity structure
विभाजनमूचक कारक	partitive case	विद्युत	open
विभाजित स्वनिम अनुक्रम	partitioned phoneme sequence (PPS)	—स्वर	open vowel
विभ्रममूलक	hallucinatory	विद्युति	opening
वियोजकता	isolatism	विद्युताष्ट बतुलन	open lip rounding
वियोजक समुच्चयबोधक	disjunctive conjunction/ alternative conjunction	विगिष्ट	(1) absolute (2) parti- cular
—सवनाम	disjunctive pronoun	—अतिगम्य वाटि	absolute superlative
वियोजन	disjunction/isolation	—अथपरिवर्तन	singular change of meaning
वियोज्य (सबध)	alienable (possession)	—तम भाय	absolute superlative
विरल विभेदन	under differentiation (of phonemes)	—सवेत	qualisign
विरलित	rarefactive	विगिष्टीकरण नियम	Law of Specialization
विराम	pause/cesura	विशेष	propria
विरामत व्यजन	arresting consonant	विशेषक	modifier/qualifier/ adjunct (- secondary word)
विराम चिह्न	(external) punctuation mark	—चिह्न	diacritic mark
— "१०"	punctuation word		
—स्वरापात	suspension pitch (= pause pitch)		

विशेषण

विशेषण

- उपवाक्य
 — शरक
 विशेषणवाचक धातु
 विशेषण विषय
 — विभक्ति
 विशेषणस्थानीय
 विशेषता
 विशेष सधि
 विशेष्य
 — अभिव्यक्ति
 विशेष्यभूत
 — विशेषण
 विशेष्य विशेषण
 विश्लेषण
 विश्लेषणात्मक
 — उपगम
 — भाषा
 विश्वकोश
 विषम
 — युग्म
 विषमरूप समलेख
 विषम वितरण
 विषमाक्षर
 विषमाक्षरिक
 विषमार्थ
 विषमीकरण
 विषमोपनयन
 विषमबोधक

- (1) attribute/adjective
 (2) epithet
 adjectival clause
 adjectival case
 attributive root
 transferred adjective
 adjectival case
 epithetologue
 characteristic
 special sandhi
 substantive
 substantive expression
 absolute
 absolute adjective
 attributive adjective
 analysis
 analytic/analytical
 analytical approach
 analytic language/
 analytical language
 (= word language)
 encyclopedia
 dissimilar
 contrastive pair
 (1) heteronymy
 (2) heteronym
 contrasting distributon
 heterosyllable
 heterosyllabic
 contrast meaning
 dissimulation
 dissimulation
 representational
 (Trubetzkoy)

- विषु स्वन
 विसनेतक
 विसनेतन
 विसनेतित्र
 विमधि
 विसदृग
 विसरण
 विमप
 — हरर
 विसर्पी तान स्वनिम
 — तानिम
 — स्वन
 विसार
 विस्तरण
 विस्तरित
 — क्रियारूप
 — भविरूप
 — शब्दरूप
 — सनारूप
 विस्तार
 विस्तारक
 विस्तारित रूप
 विस्तृत अर्थ
 विस्तृति
 विस्थापन
 विस्थापित भाषा
 विस्पदाघात
 विस्मयादिबोधक
 — चिह्न
 — पञ्चम
 — वाक्य
 — स्वराघात

- diaphone
 decoder
 decoding
 decoder
 hiatus
 dissimilar
 diffusion
 glide
 glide vowel
 gliding toneme
 gliding toneme
 gliding sound
 diffusion
 extension/periphrasis
 periphrastic
 periphrastic conjugation
 periphrastic future
 periphrastic declension
 periphrastic declension
 extension/enlargement
 amplificative
 extended morph
 widened meaning/
 extensional meaning
 span
 displacement
 displaced speech/
 abstract speech
 beat stroke
 interjection/exclamation
 exclamation mark
 interjectional phrase
 exclamatory sentence
 exclamatory pitch

विस्मयादि वाद	interjectional theory	व्यजनान अक्षर	closed syllable/checked
विहित रूप	canonical form		syllable/blocked syl- lable
वृत्ति	mood	व्यजनास	consonantic element
वृत्तिभाषा	jargon (= lingo)	व्यजनात्मक स्वर	consonantal vowel
वृत्तिवाचक सहायक त्रिया	modal auxiliary verb	व्यजनीकरण	consonantization/devo- calization
वृत्तिमूकक सज्ञा	propriate noun	वर्षाक्त	token
वृथालाप	galimatias	व्यक्तिबोली	ideolect
वेगस तन्त्रिवा	vagus nerve	व्यक्तिभाषा	ideolect
वैकल्पिक	alternative	व्यक्तिवाचक नाम	name word (=proper name/proper noun)
—परिवर्त	optional variant (=free variant)	—सज्ञा	proper noun
—वग	alternative class	व्यतिरेकी भाषाविज्ञान	contrastive linguistics
वैद्युत वाक्य पथ	electrical vocal tract	—व्याकरण	contrastive grammar (=or transfer gram- mar)
वैयाकरण	grammarian		metathesis
वैषम्य	contrast		distinctive opposition system
— अवधारण	emphasis for contrast (contrast emphasis)		intrasystemic
वैषम्यरहित वितरण	non contrastive distribu- tion		systematization
वपम्यात्मक बलाघात	contrasting stress		extra systemic
व्यग्य	irony		extrasytematic phon- eme
व्यग्योक्ति	irony		systematic sign
व्यजन	consonant		colloquial standard/edu- cated standard
व्यजनक	consonantoid/contoid		non contiguous (=re- mote)
व्यजन त्रिग्राफ	consonantal trigraph		mediated transfer/re- layed transfer
—त्रिवण	consonantal trigraph		remote dissimilation
—द्विग्राफ	consonantal digraph		remote dissimilation
—द्विवण	consonantal digraph		
—ध्वनि	consonantoid/contoid		
—प्रतीक	expressive symbolism		
व्यजनपूर्व (s)	ante consonantic (s)		
व्यजनभक्ति	consonantal anaptyxis		
व्यजनलोप	eclipsis (=ecthlipsis)		
व्यजन-व्यवस्था	consonantism		
		व्यवस्थित सकेत	
		व्यवहार मानक	
		व्यवहित	
		—अंतरण	
		—विषयीकरण	
		—विषयीभवन	

व्यवहित समीकरण	incontiguous assimilation (= distant assimilation)	व्याख्या	interpretation/epexegetis
व्यष्टिक उपगम	atomistic approach	व्याख्याता	interpreter
व्यष्टित्व अभिनियम	canon of individuality	व्याख्यारम्भक	epexegetical
व्यष्टि सञ्चेत	sign	—पर्याप्ति	explanatory adequacy
व्याकरण	grammar	व्याख्याप्रधान व्याकरण	explanatory grammar
व्याकरणगत रूप सादर्य	grammatical formal analogy	(वागवयव का) व्यायाम	gymnastics (of the vocal organ)
व्याकरण त्रिपुटी	grammatical triptych	व्यावृत्तक	distinctive
व्याकरणविरुद्ध प्रयोग	solecism	—प्रकाय	distinctive function
व्याकरणविषयक	grammatical	—लिप्यवन	exclusive transcription
व्याकरणिक	grammatical	—वितरण	exclusive distribution
—रचिति	grammatical agreement	व्यास शैली	circumlocution
—अथ	grammatical meaning	व्युत्पत्ति	derivation/etymology
—कोटि	grammatical category	—अनुपात	derivation ratio
—क्रम	grammatical order	—एकता	derivational unity
व्याकरणिकता	grammaticalness	व्युत्पत्तिमूलक	derivational
व्याकरणिक निकष	grammatical criterion	व्युत्पत्ति युग्म	etymological doublet
—परिवर्तन	grammatical alternation	व्युत्पत्तिविज्ञानी	etymologist
—पर्याय	grammatical equivalent	व्युत्पत्ति विमर्श	etymology
—चलाघात	grammatical stress	—विशेषण	etymologist
—रूप	grammatical form	व्युत्पत्तिविषयक	etymological
—लक्षण	grammatical feature	व्युत्पत्ति सक पना	derivational concept
—लिंग	grammatical gender	व्युत्प न कृदन्त	derived primary word
—व्यवस्था	grammatical gender system	—तद्धितात	derived secondary word
—विकल्पन	grammatical alternation	—विशेषण	derived adjective
—विश्लेषण	grammatical analysis	—शब्द	derivative term/derived word
—सवग	grammatical category	व्युत्पादी	derivative
		—प्रत्यय	derivational affix
		—समास	derivational compound

श

शब्द वेदी	temporal muscle	शब्दरूपात्मक आघात	morphological accept
शक्य सीमा	potential border	—प्रक्रिया	morphological process
'गतम्' भाषा	satem language	शब्द-लेख	logograph
शब्द	(1) word (2) term	— लेखन	word writing
— एवता	(3) vocable	— वय	word class
— युल	word unity	— वाक्य	word sentence/holo
— षोडि	word family		phrastic sentence
	word category/lexical	— विवृति	verbal pathology
	category	— -नियत	phraseology
शब्दकोश	lexicon/dictionary	— सत	word sign
शब्दकोशविज्ञान	lexicography	शब्दसमूह	vocabulary
शब्दक्रम	word order (order of	शब्द समूह	vocabulary
	words)	— -माद्यक	derivational
	lexical hierarchy	— -साधन	derivation
शब्दगत अधिपत्र	morphologic construction	— सापेक्षता	word dependence
— रचना	lexical morphology	— -सिद्धांत	doctrine of the logos
— रूपप्रक्रिया	morphological form	— सीमा	word limit
— रूपवग	class	— स्थलन	heterophemy
	logogram	— स्वायत्तता	word autonomy
शब्दचिह्न	word marker	शब्दाश्रयता	synchysis
शब्दचिह्नक	logography	शब्दाक्षरिक लेखन	logo syllabic writing
शब्दचिह्न-लेखा	word freedom	शब्दादेश	metonymy
शब्द निरपेक्षता	metaplasm	शब्दाधिक्य	pleonasm
— निरूपण	word delimitation	शब्दानुवाद	literal translation
— परिसीमन	word stress	शब्दाभास	pseudo word
— बलाघात	logophobia	शब्दाथ क्षेत्र	semantic field
— भीति	parts of speech	— -घटना	semantic phenomena
— भेद	word formation	— -परिवृत्ति	semantic shift (=
— रचना	(1) declension		semantic change)
शब्दरूप	(2) lexical form	— पूरक	semantic complement
शब्दरूपप्रक्रिया	morphology	— बहुभुज	semantic polygon

व्यवहित समीकरण	incontiguous assimilation (= distant assimilation)	व्याख्या	interpretation/exegesis
व्यष्टिक उपगम	atomistic approach	व्याख्याता	interpreter
व्यष्टित्व अभिनियम	canon of individuality	व्याख्यात्मक	exegetical
व्यष्टि संज्ञेय	sign	—पर्याप्ति	explanatory adequacy
व्याकरण	grammar	व्याख्याप्रधान व्याकरण	explanatory grammar
व्याकरणगत रूप सादृश्य	grammatical formal analog	(भागवयव का) व्यापार	gymnastics (of the vocal organ)
व्याकरण त्रिपुटी	grammatical triptych	व्यावहक	distinctive
व्याकरणविरुद्ध प्रयोग	solecism	—प्रकाश	distinctive function
व्याकरणविषयक	grammatical	—लिप्यवक	exclusive transcription
व्याकरणिक	grammatical	—वितरण	exclusive distribution
—अविति	grammatical agreement	व्यास शैली	circumlocution
—अर्थ	grammatical meaning	व्युत्पत्ति	derivation/etymology
—बोधि	grammatical category	—अनुपात	derivation ratio
—क्रम	grammatical order	—एकता	derivational unity
व्याकरणिकता	grammaticalness	व्युत्पत्तिमूलक	derivational
व्याकरणिक निवृत्त	grammatical criterion	व्युत्पत्ति युग्म	etymological doublet
—परिवर्तन	grammatical alternation	व्युत्पत्तिविपरीत	etymologist
—पर्याप्त	grammatical equivalent	व्युत्पत्ति विमर्श	etymology
—बलाघात	grammatical stress	—विशेषण	etymologist
—रूप	grammatical form	व्युत्पत्तिविषयक	etymological
—लक्षण	grammatical feature	व्युत्पत्ति सव-पना	derivational concept
—लिंग	grammatical gender	व्युत्पत्ति न हृदय	derived primary word
—व्यवस्था	grammatical gender system	—तद्धितात	derived secondary word
—विपर्यय	grammatical alternation	—विशेषण	derived adjective
—विरक्षेपण	grammatical analysis	—गद	derivative term/derived word
—सवय	grammatical category	व्युत्पादी	derivative
		—प्रत्यय	derivational affix
		—समाप्त	derivational compound

श

शत वेणी	temporal muscle	शब्दशास्त्रमय आघात	morphological recert
शतप गीमा	potential border	—प्रक्रिया	morphological process
'शतम्' भाषा	satem language	शब्द-लेख	logograph
शब्द	(1) word (2) term (3) vocable	— लेखन	word writing
—-एकता	word unity	— वग	word class
—-भुल	word family	— वाक्य	word sentence/holo phrastic sentence
—-बोधि	word category/lexical category	— विवृति	verbal pathology
शब्दकोश	lexicon/dictionary	— विचार	phraseology
शब्दकोशविज्ञान	lexicography	— सहेत	word sign
शब्दक्रम	word order (order of words)	शब्दसमूह	vocabulary
शब्दगत अधिक्रम	lexical hierarchy	शब्द समूह	vocabulary
—रचना	morphologic construction	—-माध्यम	derivational
—रूपप्रक्रिया	lexical morphology	—-साधन	derivation
—रूपवग	morphological form class	—-सापक्षता	word dependence
शब्दचिह्न	logogram	—-सिद्धांत	doctrine of the logos
शब्दचिह्नक	word marker	— गीमा	word limit
शब्दचिह्न-लेखन	logography	— स्थलन	heterophemy
शब्द निरपेक्षता	word freedom	— स्वायत्तता	word autonomy
—निरूपण	metaplasim	शब्दात्मता	synchysis
—परिसीमन	word delimitation	शब्दाक्षरिख लक्षण	logo syllabic writing
—बलाघात	word stress	शब्दादेग	metonymy
— भोनि	logophobia	शब्दाधिक्य	pleonasm
—-नेद	parts of speech	शब्दानुवाद	literal translation
—रचना	word formaton	शब्दामास	pseudo word
शब्दरूप	(1) declension	शब्दाश्र क्षेत्र	semantic field
शब्दरूपप्रक्रिया	(2) lexical form morphology	— घटना	semantic phenomena
		— परिवृत्ति	semantic shift (= semantic change)
		—पूरण	semantic complement
		—-बहुभुज	semantic polygon

व्यवहित समीकरण	incontiguous assimilation (= distant assimilation)	व्याख्या	interpretation/exegesis
व्यष्टिक उपगम	atomistic approach	व्याख्याता	interpreter
व्यष्टित्व अभिनियम	canon of individuality	व्याख्यात्मक	exegetical
व्यष्टि सचेत	insign	—पर्याप्ति	explanatory adequacy
व्याकरण	grammar	व्याख्याप्रधान व्याकरण	explanatory grammar
व्याकरणगत रूप सादश्य	grammatical formal analogy	(वागवयव का) व्यायाम	gymnastics (of the vocal organ)
व्याकरण त्रिपुटी	grammatical triptych	व्यावक्त	distinctive
व्याकरणविरुद्ध प्रयोग	solecism	—प्रकाय	distinctive function
व्याकरणविषयक	grammatical	—लिप्यवन	exclusive transcription
व्याकरणिक	grammatical	—वितरण	exclusive distribution
—अभिवृत्ति	grammatical agreement	व्यास शैली	circumlocution
—अर्थ	grammatical meaning	व्युत्पत्ति	derivation/etymology
—कीटि	grammatical category	—अनुपात	derivation ratio
—क्रम	grammatical order	— एकता	derivational unity
व्याकरणिकता	grammaticalness	व्युत्पत्तिमूलक	derivational
व्याकरणिक निष्प	grammatical criterion	व्युत्पत्ति युग्म	etymological doublet
—परिवर्तन	grammatical alternation	व्युत्पत्तिविनामी	etymologist
—पर्याय	grammatical equivalent	व्युत्पत्ति विमश	etymology
—बलाघात	grammatical stress	—विशेषक	etymologist
—रूप	grammatical form	व्युत्पत्तिविषयक	etymological
—लक्षण	grammatical feature	व्युत्पत्ति सक पना	derivational concept
—लिंग	grammatical gender	व्युत्प न वृद्धत	derived primary word
—व्यवस्था	grammatical gender system	—सद्धितात	derived secondary word
—विकल्पन	grammatical alternation	—विशेषण	derived adjective
—विरुद्ध	grammatical analysis	—शब्द	derivative term/derived word
—सवग	grammatical category	व्युत्पादी	derivative
		—प्रत्यय	derivational affix
		—समास	derivational compound

श

शत वेणी	temporal muscle	शब्दात्मिक भाषात	morphological recert
शक्य सीमा	potential border	—प्रक्रिया	morphological process
'शतम्' भाषा	satem language	शब्द वेद्य	logograph
शब्द	(1) word (2) term (3) vocable	—लेखन	word writing
—एकता	word unity	—वर्ग	word class
—सुल	word family	—वाक्य	word sentence/holo- phrastic sentence
—कोटि	word category/lexical category	—विवृति	verbal pathology
शब्दकोष	lexicon/dictionary	—विषय	phraseology
शब्दकोषविज्ञान	lexicography	—संज्ञ	word sign
शब्दक्रम	word order (order of words)	शब्दसमूह	vocabulary
शब्दगत अधिक्रम	lexical hierarchy	शब्द समूह	vocabulary
—रचना	morphologic construction	—माधव	derivational
—रूपप्रक्रिया	lexical morphology	—साधन	derivation
—रूपवर्ग	morphological form class	—सापेक्षता	word dependence
शब्दचिह्न	logogram	—सिद्धांत	doctrine of the logos
शब्दचिह्नक	word marker	—सीमा	word limit
शब्दचिह्न लेखन	logography	—स्वरूप	heterophemy
शब्द निरपेक्षता	word freedom	—स्वायत्तता	word autonomy
—निरूपण	metaplasms	शब्दाश्रयता	synchysis
—परिसीमन	word delimitation	शब्दाक्षरित लेखन	logo syllabic writing
—बलाघात	word stress	शब्दादेश	metonymy
—भीति	logophobia	शब्दाधिक्य	pleonasm
—भेद	parts of speech	शब्दानुवाद	literal translation
—रचना	word formation	शब्दाभास	pseudo word
शब्दरूप	(1) declension (2) lexical form	शब्दाय शेष	semantic field
शब्दरूपप्रक्रिया	morphology	—घटना	semantic phenomena
		—परिवृत्ति	semantic shift (= semantic change)
		—पूरण	semantic complement
		—बहूभुज	semantic polygon

शब्दायमीमांसा

शुद्धोच्चारण सभषी

शब्दायमीमांसा	philosophical semantics	सिधिल	(1) lax (lenis/loose)
शब्दायविज्ञान	semantics (semasiology /sematology)/lexicology /signifies)	सिधिल सप्रमण	(2) relaxed (state of pharynx)
शब्दायविज्ञानविषयक	semantic	—सबध	lenition
शब्दायविज्ञानी	semanticist (= semantician)	—सस्पद	open transition
शब्दायविषयक	semantic	—स्वर	loose nexus
शब्दाय व्यापार	semantic phenomena		loose contact
— सिद्धान्त	semantic theory (=semantic conception)	गिधिलीकरण	lax vowel (loose vowel)
	semantic indicator	गिरालेघ	lenition
शब्दायसूचक	pseudo semantic	गिधु भाषा	petrograph/petrogram
शब्दायभाषिक	glossary	—शैली	nursery language
शब्दावली	lexeme	सिष्ट उच्चारण	baby talk/lalling
शब्दिम	lexemic category	—भाषा	received pronunciation
— शोडि	verboiania	—शब्द	cultivated speech
शब्दोमाद	stylothyroid muscle	गिष्टेतर प्रयोग	learned word
शरअवटुका पेशी	stylohyoid muscle	गिष्टोक्ति	slang
शरकठिका पेशी	stylopharyngeus muscle	गीम्रलिपि	euphemism
शरप्रसनिचा पेशी	styloglossus muscle	शीस्कार	tachygraphy
शरगिहिका पेशी	anatomy	शीय	hushing sound
शरीररचनाविज्ञान	assibilation	शुक्पठन	head
शरुकरण	hushing sound/ich sound (c.)	शुनपाठक	psittacism
श-स्वन	lexical	शुद्ध उच्चारण	psittacist
	heteronym	—पर्याय	orthophony
शाब्दिक	lexical meaning	शुद्धलेखन	pure synonym
—अनुवाद	verbal approach	—समानाधिक	orthography
—अर्थ	verbal context	—स्वर	pure synonym
—उपगम	pedagogical grammar	शुद्धिवाद	pure vowel
—सदृश	educated standard	शुद्धोच्चारणविद	purism
गिक्षण व्याकरण	point	शुद्धोच्चारण व्यवस्था	orthoepist
शिक्षित वय मानक		शुद्धोच्चारण सभषी	orthoepy
शिक्षर			orthophonic (= or thoeptic)

शून्य	zero element (=zero feature)	श्रुतिप्राप्त	auditory
—उपपद	zero article	—अक्षर	real syllable
—परिवर्त	zero alternant	—उच्चारण प्रविधि	auditory articulation technique
—परिवर्तन	zero change	—खण्ड	real segment
—प्रत्यय	zero affix (= zero ending)	—ध्वनिक प्रविधि	auditory acoustic technique
—रूपिम	zero morpheme	—स्वन	real phone
— विकृति	zero modification	श्रुतिमधुर	euphonic
—सहिता	zero juncture	श्रेणी	1 rank/ranking 2 series
—स्वन	zero sound	श्रेणीकरण	ranking
श्रुत्खला	concatenation	श्रेष्ठताबोधक बहुवचन	plural of majesty
श्रुत्खलित उच्चारण करना	catenate	श्रेष्ठतावाची तुलना	superior comparison (= upward comparison)
श्रुती उपास्थि	corniculate cartilage	श्रोतृबोधक	appellative (Troubtkoy)
शैलीगत	stylistic	रिलेट योगात्मक भाषा	inflectional language (= flectional language/ inflective language)
शैलीविज्ञान	stylistics	श्लेष	pun
शैलीविज्ञान सबधी	stylistic	श्लेषमल कला	mucous membrane
श्रवण	hearing/audition	श्वसन	breathing/respiration
—अभ्यास	ear training	श्वसनिका	bronchiole
—सन्निवृत्त	auditory nerve	श्वसनी	bronchus
श्रवणात्मक	auditory	श्वमित घोष	breathy voice
—अभिरचना	auditory pattern	श्व	schwa (also shwa)
—स्वनविज्ञान	auditory phonetics	श्वस	1 breath 2 breathed
श्रवणीयता	sonorousness	श्वसकोश	lungs
श्रव्य	1 auditory 2 sonorous	श्वसद्वार	glottis
—खण्ड	audible segment	श्वसनद्वारीय	glottal
श्रव्यता	sonority/sonorousness	श्वसद्वारीय रूपन	glottal trill
—की पराकाष्ठा	crest of sonority	श्वसद्वारीयरजन	glottalization
श्रव्य भाषा	auditory language	श्वसद्वारीयरजित	glottalized
श्रुति	glide (= glide vowel)		
श्रुतिकट्टक	dissonance		
श्रुतिगम्य	sonorous		
श्रुतिगम्यता	sonority		
—की पराकाष्ठा	crest of sonority		

इनासद्वागीय स्वरा	glottal stop (= glottal catch/catch)	इनास प्रणाल इवेत रव	wind pipe (trachea) white noise
इनास मली	wind pipe (= trachea)		

स

संरक्षण	hybridization	संकेतवाचक शब्द	pointer word (demonstrative)
संरक्ष भाषा	hybrid language/mixed language	—समुच्चयबोधक	hypothetical conjunction (= conditional conjunction)
—रचना	hybrid formation	—सवनाम	demonstrative pronoun
—शब्द	mongrel word	संकेतविज्ञान	semiotics (theory of signs)/semiology (semiology)
संरक्षित	hybridized	—सवधी	semiotic
संरक्षणात्मक मपुसबलिंग	conceptual neuter/unspecified neuter	संकेतसवधविज्ञान	syntactics (Ullmann)
संरक्षणात्मक मपुसबलिंग	conceptual dictionary	संकेत स्थिति	sign situation
संरक्षणात्मक मपुसबलिंग	voltive subjunctive transition	संकेतक	1 signifier 2 encoder
संरक्षणात्मक मपुसबलिंग	transferred meaning	संकेतक	1 signification
संरक्षणात्मक मपुसबलिंग	operational approach (= operationalism)	संकेतक	2 encoding
संरक्षणात्मक मपुसबलिंग	constrictor (of the pharynx)	संकेतक	signified
संरक्षणात्मक मपुसबलिंग	constricted	—प्रसंग	allusion
संरक्षणात्मक मपुसबलिंग	narrowed meaning	—स्वयं	visual morpheme
संरक्षणात्मक मपुसबलिंग	specialized meaning	संकेतक	encoder
संरक्षणात्मक मपुसबलिंग	1 sign/signal	संकेतक	concentration
संरक्षणात्मक मपुसबलिंग	2 convention	संकेतक	synaeresis (= syncretism)
—संक्रिया	semiosis	संकेतक	contraction/narrowing
—संकेतविज्ञान	pragmatics	संकेतक	hesitation form
—भाषा	sign language	संकेतक	abridged clause
संकेतसवधविज्ञान	semantics (Ullmann)	—वाक्यभाषा	brachylogy
संकेतसवधविज्ञान	demonstrative adjective	संकेतक	abbreviation
		संकेतक	abridgement

सहया वर्गक

सहया वर्गक	numeral classifier/numeral classifier	सतन	1 durative/continuative
सहयावाचक	numeral	—व्यंजन	2 continuant
—विशेषण	numeral adjective	सतृप्त	static consonant (=continuant)
—सना	numeral noun	सदभ	saturated
—सवनाम	numeral pronoun	- व्याकरण	1 reference 2 context
सहयेय सजा	countable noun	सदभक्तिरुण	3 environment
सगति	1 harmony 2 concordance	सदभिहित शब्द	reference grammar
—अभिनियम	canon of compatibility	सदिग्ध वेद्व	contextualization
सग्रहण	gathering	सदिग्धता	contextualized word
सग्राह्य बहुवचन	plural of approximation	सदिग्धयुग्म	nucleus ambiguous
सघटन	composition	—विन्यास	equivocation
सघनन	condensation/contagion	सधारण	suspicious pair
सघनित सबधसूचक उपवाक्य	condensed relative clause	सधि	dystaxy
सघप	collision	सधि रूप	conservation/retention
सघर्षी	fricative/spirant	सध्यक्षर	sandhi (connection/liaison/coalescence/euphonic combination)
सघर्षीकरण	spirantization	सध्यक्षरीकरण	sandhi form
सचयन	cumulation	सन्त	diphthong
सचार-घनता	density of communication	सनाद	diphthongization
सचित अथ व्याप्ति	accumulated intensio	सनादी वाद	desiderative
सना	1 noun 2 primary word 3 substantive (as opposed to 'noun' नाम—Jespersen)	सपरीक्षा मक वास्तविकतावाद	1 consonance
सनापरक	substantivized	सपक अवभाषा	2 harmonics
—विशेषण	substantival adjunct		harmonic theory
सनारूप	declension		critical realism
—वताना	decline		contact vernacular
सनाथ	cognitive import		(make shift language/lingua franca)
सनाथक क्रिया	substantive verb	मपक भाषा	1 link language 2 (contact) vernacular/make-shift language
मना सबधी	adnominal		
—सम शब्द	noun equivalent	सपाती वितरण	coincident distribution

संज्ञासूची

संज्ञासूची	telescope word (पं. ११ मं. ११३ वा ३)	संज्ञासूची	examples in each verb form language
संज्ञासूची	concolate or intercolate मिश्रण	संज्ञासूची	examples of various examples given testaments language
संज्ञासूची	appetitive or		examples peak
संज्ञासूची	conceptualism		reference
संज्ञासूची	interpretant		conjunction or connective periphrasis
संज्ञासूची	dativ		examples of some periphrastic forms phrasal form - १०३ (१०३)
संज्ञासूची	reduced grade		compound verb verb ph. ३०
संज्ञासूची	1 combination 2 nexus (पं. १०३)		periphrast compound or periph. verb & phrasal periphrastic future conjunction connective or conjunction connective conjunctive group
— संज्ञासूची	relation axis construction or		compound sentence combination
— संज्ञासूची	genitive case relation or case		periphrast declension compound phoneme 1 conjunctive 2 connective tor
— संज्ञासूची	possessive compound		conjunctive adverb copulative conjunction correlative conjunction connective conjunction
— संज्ञासूची	reference		
संज्ञासूची	1 possessive 2 relative		
— संज्ञासूची	relative clause		
— संज्ञासूची	relative adverb		
— संज्ञासूची	relative pronoun		
संज्ञासूची	allocation possession		
संज्ञासूची	relational concept		
संज्ञासूची	related languages		
संज्ञासूची	syntagm (syntagm)		
संज्ञासूची	congener		
संज्ञासूची	vocalic		
संज्ञासूची	compellative case/ vocalic case		
संज्ञासूची	subjunctive (- thought mood)		
संज्ञासूची	subjunctive mood (- though mood)		
संज्ञासूची	conversion		
संज्ञासूची	contamination		

संयोजकहीन रचना	asyndeton	सवग	category
- समन्वय	parataxis	सवर्गात्मक	categoric
— —सबधी	paratactic	सवाद	correspondence
—समन्वित	paratactic	सवादिता	1 consonance
संयोजकहीनता	asyndetism	(सत्य का) सवादितावाद	2 parallelism
संयोजन क्षमता	valence		correspondence theory (of truth)
—प्रकाय	cumulative function	सवादी	corresponding
संरक्षी नाम	protective name	—स्वन	corresponding sound
संरचना	structure	सवार	closure
— - आश्रित	structurally conditioned	सवाहस्ता	conductivity
संरचनात्मक	structuralist	सवृत्त	close
—अर्थ	structural meaning	—समानाधिकरण	close apposition
—उपगम	structural approach	—स्वर	close vowel
—एकक	structural unit	सवृत्तोच्छ वर्तुलन	close lip-rounding
—क्रम	structural order	सवेग	affect (intonation affective)
संरचनात्मकता	structuralism	—रूपात्मक भाषा	emotive metaphorical language
संरचनात्मक प्रभाव	structural pressure	सवेग सादृश्य	emotive similarity
—भाषाविज्ञान	structural linguistics	सवेगात्मक	emotive
—विधान	structuralism	—जाघात	emotive accent
—शब्दाध्ययन	structural semantics	सवेगाय	emotive import
संरचना षग	structural class	सवेदनतन्त्र	sensorium
संरचनावादी	structuralist	सवेदनवादी व्यवहारवाद	sensationalist behaviour- ist theory
संरचना व्यवस्था	structural system	संश्लिष्ट समास	synthetic compound
— - श्रेणी	structural series	संश्लेषण	synthesis
— समुच्चय	structural set	संश्लेषणात्मक	synthetic (=synthe- tical)
— स्तर	layer of structure	—भाषा	synthetic language
संरचित माला	structured string	संश्लेषी	synthetic (=synthe- tical)
संलग्न	contiguous	संयोजन	cohesion
—व्यंजन	abutting consonant		
संलग्नता	contiguity		
संलयन	amalgamation/fusion		
संलयात्मक भाषा	amalgamating language		
संलयी	fusing		
संछीन समास	fused compound		

समतान	isotone	ममयनिरपक्ष काल	non temporal tense
— भाषा व्यवस्था	register tone language system	— सापेक्ष काल	temporal tense
— व्यवस्था	level tone system	समयाश्रित उभार	time bulge
— सीमारेखा	isotonic line	समरूप (शब्द)	homomorph
समतुलित	equipollent	— सीमारेखा	isomorph
समधिव	redundant	समर्थादि पुरपञ्चक	exclusive personal pronoun
समधिवना	redundancy	सवनाम	homograph
समनाम (शब्द)	homonym	समलेख (शब्द)	isosyntagmic line
समनाम-	homonymous	समवाक्य सीमारेखा	isolexic line
समनामत	homonymy	समशब्दाय-वग	isosemantic class
समनाम शब्द विचार	homonymies	समसह्याक्षरिक	parisyllabic
— शब्दा का सघष	homonymic collision	नम सञ्चर	level diphthong
समनामी	homonymous	— सवध	correlation
सम-वय	coordination	समस्त	compound
सम-वयन	syndesis	— त्रिया	compound verb
समा वत रचना	1 syndeton	— पद	compound word
	2 coordinate construction	— विधेय	compound predicate
		— शब्द	composite word
समप्ररूप	isotype	समस्वन	homophone
समप्ररूपी	homotypical	— वग	homeophone
सम बलाघात	sustained stress/even stress/level stress	— सीमारेखा	isophonic line
— - भाव	equative degree	समस्वनना	homophony
समभाषा रेखा समूह	bundle of isoglosses	सम्मज्जन	syncretism
— सीमारेखा	isogloss/isoglottic line/isograph	सम्मज्जित रूप	syncretic form
— — गुच्छ	fascicles of isoglosses/bundle of isoglosses	समातरता	parallelism
— — समूह	fascicles of isoglosses/bundle of isoglosses	समावरण	integration/collation
सममित	symmetric (=symmetrical)	समाक्षर लोप	haplogy
सममिति	symmetry	(उच्चारण म)	
		— - — (लेखन म)	haplography
		समाक्षरिक	tautosyllabic
		समादत्त शब्द	domesticated word
		समान त्रोट	common core

समान लिंग	common gender	समीभूत स्वनिम	assimilated phoneme
समानाधिकरण	apposition/co-ordination	समुच्चय	set
— उपवाक्य	coordinate clause	समुच्चयबोधक	conjunction/link word
— कमधारय समास	appositional compound	— शब्द	relating word
— समुच्चयबोधक	coordinating conjunction	समुच्चयबोधन	conjunction
समानाधिकरणिक	appositive	समुदायवाचक नाम	collective noun
समानाधिकृत	coordinative (=serial)	— वचन	collective number
— विशेषण	coordinated adjective	— सज्ञा	collective noun
समानायकता	synonymity (=synonymy)	समुद्दिष्ट	referent
समानाथक पद	synonym	— उपगम	referential approach
समानार्थी	synonymous/equivalent	— प्रतीकता	referential symbolism
समानुपाती सादृश्य	proportional analogy	— प्रतीक प्रयोग	referential symbolism
समापक पक्ष	terminative aspect	— सादृश्य	referential similarity
समाप्ति पक्ष	cessative aspect	समुद्देशक	referend
समायोजन प्रतिरूप	adjustment model	'स' युक्त	sigmatic
समावेशक भाषा	agglomerating language/incorporating language	सरणि रव	channel noise
— सवनाम	incorporating pronoun	सरल लिप्यवन	simple transcription
समावेशन	incorporation	— शिखर	simple peak
समास	compound (word)	सर्पिल गडिका	spiral ganglion
— रचना	compounding (=composition)	सर्पिल फलक	lamina spiralis
समीकरण	assimilation/equalization	सवकालक्रमिक	pandiachrome (=pandiachronistic)
समीकारक स्वनिम	assimilatory phoneme	सवग्राह्य लिपि	panigraphy
समीकृत स्वनिम	assimilated phoneme	सवनाम	pronoun
समीभवन	assimilation	— मूलरूप	pronominal root
		सवप्रभावी	pan effective
		सवभाषा व्याकरण	universal grammar
		सवव्याप्त समुच्चय	major set
		सवव्याप्ति	total accountability
		सवसम	identical/congruent
		सवसमकालिक	pansynchrone (=pansynchrone)

सवसमता

सवसमता	congruence
सवसमावेशी अभिरचना	overall pattern
सवसमिका	identity (= identity of form)
सर्वांग वाक्य	articulate sentence/ major sentence
सर्वादेश	suppletion
सर्वादेशी रूप	suppletive form
— विकल्प	suppletive alternant
सवण	homorganic
— स्वन	homorganic sound
— स्वनिम	homorganic phoneme
सविकरण	thematic
— समास	thematic compound
सविशेषक रचना	attributive construction
सयय	flexible
सह-उच्चारण	coarticulation
सहचाठी व्युत्पत्ति	associative etymology
— शब्द	associated word/ associational word
सहगामिता	co occurrence
सहज बलाघात	innate stress
सहलगन	linking
सहवतन	colligation/consociation
सहवर्ती विशेषण	adherent adjective
सहवाचक	sociative/unitive
सहवाची कारक	comitative case
— पक्ष	comitative aspect
सहविस्तार	coextension (of subject and predicate)
सहसबध	1 collocation 2 correlation
— लभक	mark of correlation
सहसबधी	correlative

सहसवेदन	synaesthesia
सहसवेदना	synaesthesia (= synesthesia)
सहसवेदनाजय	synaesthetic
सहसवेदनाभास	pseudo synaesthesia
सहसवेदनाहीन (समह)	non synaesthetic (group)
सहस्थिति	co occurrence
सहसूचक कारक	prolative/prosecutive
सहायक	auxiliary
— क्रिया	helper verb/auxiliary verb
— तंत्रिका	accessory nerve
— शब्द	accessory word/subsidiary word
— सख्यावाचक	auxiliary numeral
सहायक	sociative/unitive
साकेतिक	conventional
सांख्यिकीय भाषा काल- निर्धारण	lexico statistical dating
— भाषाविज्ञान	statistical linguistics
सातत्य	continuative
सातत्यबोधक पक्ष	durative aspect
सातत्य समुच्चयबोधक	continuative conjunc- tion
सादृशिक अर्थ	contextual meaning
— उच्चारण	contextual pronun- ciation
— प्रतिभावली	contextual imagery
सांस्कृतिक आदान	cultural borrowing
— भाषा	cultural language
— भाषाविज्ञान	exolinguistics
साक्षर	literate
सादा स्वर (गुजराती)	simple vowel

सादृश्य	analogy	सामान्य अर्थ	general meaning/ normal meaning
सादृश्यमूलन निवचन	analogical induction	— उच्चारण	normal articulation
— परिवर्तन	analogical change/ analogous change	— गणन	generality
— रूप	analogical form	— वारक	common case
— विस्तार	analogical extension	— बाल	simple tense (=primary tense)
— व्युत्पत्ति	back formation	— वाचि	positive degree
— सष्टि	analogical creation/ analogous change	— नाम	appellative
सादृश्यवाची कारक	simulative case/ conformative case	— परिमाण	normal quantity
सादृश्य	agent	— भविष्य	simple future
— कारक	agential case/ergative case	— भाषा	common language
— नाम	agent noun	— भाषाविज्ञान	general linguistics
— विभक्ति	agential case	— मात्रा	normal quantity
— सज्ञा	agent noun	— मुख्य स्वनिम	simple primary phoneme
साधित	derivative	— रूपावली	simple paradigm
— वृद्ध	derived primary word	— लिंग	common gender
— तद्धितात	derived secondary word	— विगुह्य सङ्घात्मक भाषा	simple pure relational language
— शब्द	derivative term	— व्याकरण	general grammar
साधु भाषा (बगला)	literary language	— — दान	philosophical grammar
साध्यवसान रूपक	allegory	— शब्द	simple word
सापक्ष शब्द	synkategorematic word/ synsemantic word/ (=form word)	— सञ्चेत	simple sign/legisign
— स्थिति	included position	— मधि	general sandhi
सामग्री	corpus	— स्वनविज्ञान	general phonetics
सामर्थ्य	1 competence 2 valence	— स्वनिम	simple phoneme
सामाजिक संबोध	phatic communion	सामायिकरण	generalization/normali- zation
		सामायेतर बाल	secondary tense
		साम्यसूचक कारक	equative case
		साम्यानुमान	analogy
		सार	material content
		सारणी	table

सायक	significant	सूक्ष्म स्वनिम	micro phoneme
— वाक्य	sensical sentence	सूचक	1 informant
सावकालिक	panchromie (= pan chronistic)	— शब्द	2 index
— उपगम	panchronistic approach	सूचितिम	3 key
सावनामिक	pronominal	सूचिम	key word/catch word
— त्रियात्रिशेषण	pronominal adverb	सूचीगत आवृत्ति	noeme
सावभाषिक लक्षण	language universal	सूची वारवार्ता	glosseme
सान्प्रयव	organic	सूत्र	list frequency
— भाषा	organic language	सूत्रवत् उक्ति	list frequency
साहचय यग	association group	सूत्र शब्द	formula
साहित्यिक भाषा	literary language	सूत्रात्मक (वाक्य)	formula
— मानक	literary standard	सूत्रकापकपणी पेक्षी	catchword
सिंग-सोंग वाद	sing song theory	सूष्ट शब्द	aphoristic (sentence)
सिद्धप्रयुक्त	idiomatic	सृष्टि	risorous muscle
सिद्धप्रयोग	idiom	सेतु अक्षर	coined word
सि-टग्मी	syntagme	— वण	coinage
सीटी स्थान	whistle point	— स्वन	bridge syllable
सीम	seme (rheme)	— स्वनिम	bridge letter
सीमात क्षेत्र	marginal area/lateral area	— स्वर	bridge sound
सीमा	boundary	सेनिम	bridge phoneme
सीमाकारी	limitative	मनिमी सरचना	bridge vowel
— विशेषण	limiting adjective	मेमीडेपोनेट त्रिया	ceneme
सीमाबोधक प्रकार्य	demarcative function	सडिला	ccnematic structure
सीमावर्ती विवृति	boundary modification	सॉलिडस	semi deponent verb
सुपान्त	supine	सोपसग त्रियाहप	cedilla
सुथवता	euphony	सोपाधिक	solidus (solid)
सुथा य	euphonic	— परिवन	solidus (solid)
सुस्वरता	melody	— यलाघात	compounded flexion
सूक्ति	aphoristic (sentence)		conditioned
सूक्ष्म भाषा	metaphysical language		conditional variant/ positional variant/ combinatory variant/ contextual variant
— भाषाविज्ञान	micro linguistics		conditional stre s
— लिप्यङ्कन	narrow transcription		

सोपाधिक स्वन परिवर्तन	conditional sound change	स्थानीय विशेष	local stricture
— स्वनिक परिवर्तन	dependent phonetic change	— बोली	local dialect
सोफिस्ट	sophist	स्थापक	fixative (factor)
सौंदर्यपरक अथविपरिणाम	aesthetic transfer	स्थापित्व पक्ष	permansive aspect
— अथांतरण	aesthetic transfer	— वर्तमान	permansive present
सौलभ्य नियम (क-नह)	principle of economy	स्थिति बोध	sense of position
स्कोलिस्टिकवाद	scholasticism	— सतदम	context of situation
स्खलन	1 lapse 2 stumbling (speech)	स्थितिसूचक क्रिया	stative verb
स्टेनो सोनोग्राफ	steno sonograph	स्थिर आरेख	static diagram
स्टोड	stod	— वरण	fixed articulator
स्तर	layer	— वायु	static air
स्त्रीजाति	female sex	— विकल्पन	static alternation
स्त्रीपुंजाति	sex	स्थूल लिप्यवन	broad transcription
स्त्रीलिंग	feminine gender	स्थितिक भाषाविज्ञान	static linguistics
स्त्रीलिंगीकरण	feminization	— वाक्याविज्ञान	static semantics
स्थळ	place	स्थैतिकी	statics
स्थलनाम अध्ययन	place name study	स्नायु मुद्रिकाबद्ध	ligament cricothyroid
स्थलनामविज्ञान	toponymy (= toponomastics/toponymology/toponymy)	स्पंदन	vibration
स्थान	place/position	स्पंदनशील	vibrating
स्थाननिष्ठ विदलेपण	position analysis	— वपन	vibratory trill
स्थान विनिमय	transposition	स्पश	stop (mute/plosive/explosive/occlusive/obstruent/kinetic consonant)
स्थानाश्रित	positional	— शर	assibilant
— परिवर्त	positional variant (contextual variant/ combinatory variant)	— सघर्ष	affricate/semi plosive
स्थानीय	positional	स्पष्ट स्वरारंभ	even beginning/clear vowel beginning
— घषण	local friction	स्फुररत्ता	spoozersm
स्थानीयता	localism	स्फोटन	explosion/plosion
		स्मारक सचेत	sign commemorative
		स्मारकीय लेखन	monumental writing
		स्मृति लोप	amnesia
		स्मृत्यवन	engram

स्वनादेश	phonetic substitution	स्वनिमात्मा टाप	phonematic stamp
स्वनानुकरण	imitation of sounds	स्वनिमायतम (तमिळ)	phonoid
स्वनावृत्ति	tautophony	स्वनिमाश्रित परिवर्तता	phonemically conditioned alternation
स्वनाश्रित	phonetically conditioned	— विवल्पन	phonemically conditioned alternation
स्वनिक	phonetic (= phonic)	स्वनिक वलाघात	phonemic stress
— अभिरचना	phonetic pattern	— लिप्यवन	phonemic transcription
— अभिव्यञ्जना	phonetic expressive-ness	— वणमाला	phonemic alphabet
— अवकाश	phonetic space	— विरूपण	phonemic analysis
— आदेश	phonetic substitution	स्वनोत्पादन अभ्यास	production drill
— तत्त्व	phonetic element	स्वभाषा पदापाती	glottocentric
— परिवर्त	phonetic alternant	स्वभाषावाद	glottocentrism
— परिवर्तन	phonetic change	स्वभाषावादी	glottocentric
— प्रभाग	phonetic fraction	स्वरक	vocoid
— लिप्यकन	phonetic transcription/phoneticization	स्वर गुण	vowel quality
— लेखन	phonetic writing	स्वर-चतुष्कोण	quadrilateral of the vowels
— वणन	phonetic description	स्वरतवीकपन	voice pitch
— वणमाला	phonetic alphabet	स्वर-त्रिकोण	vowel triangle
— यतनी	phonetic spelling	स्वरध्वनि	vocoid
— विकल्प	phonetic alternant	स्वरभक्ति	anaptyxis/anaptyctic insertion
— निवास	phonetic evolution	स्वर मध्य	intervocal (=inter vocalic)
— व्यपदेश	phonetic subterfuge	स्वरयज्ञ	larynx (=sound box)
— व्युत्पत्ति निष्पादन	phonetic etymologizing	— गीय	laryngitis
— शब्द	phonetic word	स्वर-विभग	vowel fracture
स्वनियम	phoneme (=distinctive sound)	— विभजन	breaking (vowel fracture)
— पदबद्ध	phonemic phrase	— विमिध	dieresis (=dieresis)
— प्रतिच्छेदन	intersection of phonemes	— चिह्न	tréma
स्वनिमविधान	phonemics	— व्यवस्था	vowel system/vocalism
स्वनिमविज्ञानी	phonemicist		
स्वनिमात्मक	phonematic		

स्वर सकोच	syneresis (=synizesis)	स्वरेतर वृत्ति	non vocoid
— मगति	vowel harmony (=harmony of vowels)	स्वरैक्य	syneresis (=synizesis)
स्वरात अक्षर	open syllable	स्वाभाविक क्रम	habitual order
स्वराक्षर	vocalic element	स्वामिभाषा	colonizing language
स्वराधान	pitch (=pitch accent/ chromatic accent/ musical accent/tonic accent)	स्वार	vocalic
— आवृत्ति	pitch frequency	स्वाय प्रयोग	pleonasm
— परिवर्तन	modulation	स्वाधिक	pleonastic
स्वरात्मक	vocalic	स्वायत्त शब्द भाषा	word language
स्वरारम्भ	vowel beginning	स्वाधित	automatic
स्वरावृत्ति	assonance	— परिवर्तन	automatic alternation (=narrow static alternation)
स्वरित	circumflex accent	— विकल्पन	automatic alternation (=narrow static alternation)
स्वरीकरण	vocalization	— स्वनिक परिवर्तन	independent phonetic change
स्वरूपवाचक	affirmative	स्वीकरण	borrowing
स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक	affirmative conjunction (apposition conjun- ction/introductory conjunction)	स्वीकृत शब्द	borrowed word

ह

हकलाना	stammering/stuttering	हिविकत व्यजन	ejective consonant
हनु	jaw	हीरागाना	Hiragana
हम्बा	hamza	हृदयावरण	pericardium
हल लोप	eclipsis (=ecthlipsis)	हेतुनिरूपी	aetiological/etiolo
हाइफन	hyphen		

हेतुमद् उपवाक्य

हेतुमद् वाक्य

हेतुमद् वक्ति

हेतुहेतुमत

suppositive conjunction/ (=hypothetical conjunction)
 consequence clause/
 hypothetical clause/
 protasis
 conditional sentence
 conditional mood
 subjunctive

ह्रसन

ह्रस्व छड

- चिह्न

ह्रस्वतर स्वन

ह्रस्व स्वर

ह्रस्वाभास

ह्रस्वीकरण

ह्रास

reduction

short segment

breve/micron

undershort sound

short vowel

pseudo-diminution

visation

shortening

decrement/redu-

Appendix-परिशिष्ट

Signs & Symbols

संकेत तथा प्रतीक

1	2	3	4
English term	Symbol	Formal nomenclature	Functional nomenclature
acute accent	'		उदात्त
asterisk	*	ताराक/तागचिह्न	1 काल्पनिक रूप 2 पुनरचित रूप
becomes	>		बना/जाया
braces	{ }	घनु बाण्डर/घनुप्रबन्धी/ ममत्रा बाण्डर	1 रूपिम बाण्डर 2 समुच्चय बाण्डर
brackets		कोष्ठक/ब्रैकट/बधनी	
— angular (=angle brackets)	<>	कोण कोष्ठक	
—,round (=parenthesis)	()	लघु कोष्ठक/लघु बधनी	निर्देशक कोष्ठक
—,square	[]	वर्ग कोष्ठक/गुरु कोष्ठक	स्वन कोष्ठक
breathings (=breath- ing sign)	'	1 उलटा कामा (rough breathing) 2 सीधा कामा (smooth breathing)	महाप्राणत्व अल्पप्राणत्व
breve	˘		ह्रस्व चिह्न
cedilla	¸	सडिला	
circumflex accent	ˆ		म्बरित
colon	:	वाचक	
comma	,	कामा	अल्पविराम
dash	—	डैश	
derived from	<		म बना/स जाया
diagonal	/	वर्ण	
ecphoneme (=exclamation point/exclamation mark)	!		विस्मयादिवाचक चिह्न

ellipsis	* * *		अध्याहार चिह्न/लाप चिह्न
equal	~		
full stop (= period)	.		
grave accent	`		पूण विराम
hard sign	ˆ		अनुनात्त
hyphen	-	टाप्पन	पठारता चिह्न
interrogation point (=question mark/mark of interrogation)	?		याग चिह्न
junction	+		प्रश्नचिह्न
macron	¯	पडी रया	सहिना
micron	˘		शेषताचिह्न
parenthesis mark (= round brackets)	()	उष्ण वाष्ण/लष्ण यधनी	ह्रस्व चिह्न
parallel (lines)		समातर (रेघात)	निशप चिह्न
pause	#		
quotation mark	"		विराम
rewrite sign	→	गर	उद्धरण चिह्न
root	√		पुनर्लेखन चिह्न
section	∩		धातुचिह्न
semicolon	;		अनुच्छेद
softsign	ˆ		अधविराम
solidus (pl solidi)	/, //	वण/मालिङ्ग द्विकण	मदुता चिह्न
til (tilde)	~	निल (तिरुद)	स्वनिम कोष्ठक
transformational sign	⇒	द्वियर	अनुनासिकता चिह्न
vowel point (=vowel mark)	◊	नुक्ता	रचनातरण चिह्न
wedge	^	कोल	
	ˆ	अध चद्र/चद्र बिदु	
	∨	उलटी कील	अनुनासिकता चिह्न

